



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014—पौष 13, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-1-71-2013-5-एक.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2013 द्वारा श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे (1979) वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की सेवायें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फलस्वरूप आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा गया था.

(2) उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए, अब राज्य शासन आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार

श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के स्थान पर श्री आई. सी. पी. केसरी, भाप्रसे (1988) वि. क. अ. सामान्य प्रशासन विभाग, (आवासीय आयुक्त कार्यालय में संलग्न) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

क्र. ई.-5-919-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएस., सहायक कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 10 से 19 दिसम्बर 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. जे. विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-1-321-2007-5-एक.—(1) भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2007-AIS-(I), दिनांक 26 सितंबर, 2008 द्वारा श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR:1999) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर उड़ीसा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी।

(2) तत्पश्चात् भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2007-AIS-(I), दिनांक 27 जुलाई, 2011 द्वारा श्री राजपूत की अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में 2 वर्ष की वृद्धि की गई। श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR:1999) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की उक्त अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 3 नवम्बर 2013 को पूर्ण हो चुकी है।

(3) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR:1999) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को उनके मूल संवर्ग उड़ीसा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है।

क्र. ई.-1-368-2013-5-एक.—श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (1997) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईसीयू) तथा संचालक, वाल्मी तथा मिशन संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि की सेवायें भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, आर्थिक मामलों का विभाग, के पद पर 05 वर्ष हेतु नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-409-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982) विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 11 से 13 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ - आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा विकअ-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-832-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएस, प्रमुख सचिव “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10 से 18 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव “कार्मिक” मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-462-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-560-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-570-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के

साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस, कमिशनर, उज्जैन संभाग को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 04 जनवरी 2014 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 05 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिशनर, उज्जैन संभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिशनर, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा कमिशनर, उज्जैन संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एम. शर्मा, कमिशनर, उज्जैन संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-689-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएस, आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म. प्र. को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय, भाप्रसे, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म.प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म. प्र. का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-736-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार भट्ट, आयएस, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कापोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) तथा आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कापोरेशन लिमि. (ट्रायफेक) तथा आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-772-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी नरहरि, आयएस, कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2013

से 2 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री पी नरहरि की अवकाश अवधि में श्रीमती सूफिया फारूकी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी नरहरि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी, कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री पी नरहरि, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-787-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 24 जून 2013 से 2 नवम्बर 2013 तक एक सौ बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-874-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल, आयएस, अपर कलेक्टर, गुना को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता था। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-876-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस नायक, आयएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस नायक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-702-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रदीप खरे, आयएस, कमिश्नर, रीवा संभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे, कमिश्नर, शहडोल संभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. अहिरवार, कमिश्नर, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-794-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रघुराज एम. आर., आयएस, कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश अवधि में श्री संदीप कुमार माकिन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप कुमार माकिन, कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-768-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएस, कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में श्री शेखर वर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संदीप यादव द्वारा कलेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-938-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. ई.-5-393-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-558-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएस, सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल

को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-564-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएस, आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा, एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-684-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित राठौर, आयएस, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बुहगुणा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-720-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गुलशन बामरा, आयएस, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-836-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएस, कलेक्टर, जिला देवास को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री प्रबल सिपाहा, राप्रसे अपर जिला दण्डाधिकारी, देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रबल सिपाहा कलेक्टर, जिला देवास के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-844-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएस, कलेक्टर, जिला कटनी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू. शेख, राप्रसे अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू. शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-862-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सिबी चक्रवर्ती एम., आयएस, कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 6 जनवरी 2014 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. की अवकाश अवधि में श्री पी. के. श्रीवास्तव, राप्रसे अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-884-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल बहुगुणा, आयएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल बहुगुणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल बहुगुणा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल बहुगुणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रत्नाकर झा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्दर्याल बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अँटोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 20-06-ब-2-दो.—(1) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विनिता मालवीय, रापुसे. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 29-2013-ब-2-दो.—श्री इकबाल रियाज, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, भोपाल को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिवस, पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सपरिवार गृहनगर कोलम (केरल) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री इकबाल रियाज — स्वयं
2. श्रीमती दिव्या मोहन — पत्नी

क्र. एफ-1(ए) 108-1986-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को

दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार पोर्टब्लेयर (अण्डमान निकोबार) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. एफ-1(ए) 120-93-ब-2-दो.—(1) श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 23 नवम्बर 2013 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1-अ-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2012 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में नियुक्त श्री पुरुषेन्द्र कौरव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27 दिसम्बर 2013 से 26 दिसम्बर 2014 तक एतद्द्वारा वृद्धि करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भारत सरकार के आदेश और अधिसूचनाएं

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 7421-3637-2013-बारह-1

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर 2013

अधिसूचना

का. आ.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के ब्यौरे रेखांक संख्यांक एसईसीएल.-बीएसपी-सीजीएम (पीएलजी)/भूमि-13-441, तारीख 10 अप्रैल 2013 का निरीक्षण कलक्टर, उमरिया (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता 700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष (राजस्व), साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छत्तीसगढ़) से,—

- (i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाई से हुई या संभवतः होने वाली किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा.

अनुसूची

मालाचुआ ब्लाक, सोहागपुर क्षेत्र,
जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

[रेखांक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी/सीजीएम (पीएलजी)/भूमि/13/441, तारीख 10 अप्रैल 2013]

(क) राजस्व भूमि :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जनरल संख्या	पटवारी हल्का नम्बर	तहसील	जिला	क्षेत्र (हेक्टर में)	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	औढेरा	39	40	पाली	उमरिया	305.262	754.30	भाग
2	मालाचुआ	852	41	पाली	उमरिया	467.980	1156.38	भाग
3	ब्लाक पडरी	752	42	पाली	उमरिया	106.690	263.63	भाग

कुल : 879.932 हेक्टर (लगभग) या 2174.31 एकड़ (लगभग)

(ख) वन भूमि :

क्र. सं.	कम्पाटमेंट संख्या	रेन्ज	संभाग	वन का प्रकार	ब्लाक	क्षेत्र (हेक्टर में)	क्षेत्र (एकड़ में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	223, 225, 229, 230, 232.	घुनघुटी	उमरिया	आरक्षित वन	सोहागपुर	186.070	459.78	भाग

कुल : 186.070 हेक्टर (लगभग) या 459.78 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क+ख) : 879.932+186.070=1066.002 हेक्टर (लगभग) या 2174.31+459.78=2634.09 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

- क-ख रेखा ग्राम औढेरा के पश्चिमी सीमा में बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम औढेरा और मालाचुआ के उत्तरी भाग, आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 223 तथा ग्राम ब्लाक पडरी के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है.
- ख-ग रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 223, 225 ग्राम ब्लाक पडरी के पश्चिमी भाग, आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 229 के पूर्वी भाग से गुजरती हुई बिन्दु 'ग' पर मिलती है.
- ग-घ रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 229 के दक्षिणी भाग, आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 230 के मध्य भाग से गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है.
- घ-क रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 230, ग्राम औढेरा के पश्चिमी भाग और आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 232 के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है.

(फा. सं. 43015/05/2013-पीआरआईडब्ल्यू- 1)

हस्ता./-

(वी. एस. राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 20th September, 2013

NOTIFICATION

S.O. .—WHEREAS it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas, the plan bearing number SECL / BSP / CGM (PLG)/ Land 13-441, dated the 10th April 2013 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the Office of the Collector, District- Umaria (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001 or at the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for Coal in land described in the aforesaid Schedule.

Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may—

- (i) claim compensation under Section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of Section 4 of the said Act; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of Section 13 of the said Act,

to the Officer-In-Charge or Head of the Department (Revenue), South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh) within a period of ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Malachua Block, Johilla Area,
District-Umaria, Madhya Pradesh

[Plan bearing number SECL/ BSP/ CGM (PLG)/Land/ 13/441, dated the 10th April, 2013]

(A) Revenue Land :

Sl. No.	Name of Village	General number	Patwari Halka number	Tahsil	District	Area in heactares	Area in acres	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Awdhera	39	40	Pali	Umaria	305.262	754.30	Part
2	Malachua	852	41	Pali	Umaria	467.980	1156.38	Part
3	Block Padari	752	42	Pali	Umaria	106.690	263.63	Part

Total : 879.932 hectares (approximately) or 2174.31 acres (approximately)

(B) Forest Land :

Sl. No.	Compartment number	Range	Division	Type of Forest	Block	Area in heactares	Area in acres	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	223, 225, 229, 230, 232.	Ghunghuti	Umaria	Reserve Forest	Sohagpur	186.070	459.78	Part

Total : 186.070 hectares (approximately) or 459.78 acres (approximately)

Grand Total (A+B) : 879.932+186.070=1066.002 hectares (approximately) or 2174.31+459.78=2634.09 acres (approximately)

Boundary Description :

- A-B Line starts from point 'A' on the Western boundary of Villages Awdhera and passes through northern part of Village Awdhera, Malachua, Western part of Reserve Forest Compartment on 223, Village Block Padari and meets at point 'B'.
- B-C Line passes through Western part of Reserve Forest Compartment no. 223, 225 Village Block Padari, Eastern part of Reserve Forest Compartment no. 229 and meets at point 'C'.
- C-D Line passes through Southern part of Reserve Forest Compartment no 229, middle part of Reserve Forest Compartment no. 230 and meets at point 'D'.
- D-A Line passes through Reserve Forest Compartment no. 230, Western part of Village Awdhera, Southern part of Reserve Forest Compartment no. 232 and meets at starting point 'A'.

(File No. 43015/05/2013-PRIW-I)

Sd/-

(V. S. RANA)

Under Secretary to the Government of India.

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 115-05-ब-2-दो.—(1) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर को दिनांक 18 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे सेनानी, 14वीं, वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए) 272-86-ब-2-दो.—(1) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “केरल लक्ष्यद्वीप” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. श्री स्वर्ण सिंह, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती मंजीत सिंह | — | पत्नी |
| 3. कोमल वरूण सिंह | — | पुत्री |
| 4. अमन वरूण पाल सिंह | — | पुत्र |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटायें जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे का कार्य श्री अरूण प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एण्ड डी. एवं पुलिस मैन्यूअल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 17(ई) 515-2008-इक्कीस-ब(दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है।

No. 17(E) 515-2008-XXI-B(II).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Virendra Singh, District Judge & Chairman, District Legal Services Authority, Ujjain,

Ex-Officio Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र.-19-3-2009-बारह-1.—खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उपनियम (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह घोषित करती है कि 2458 वर्ग किलोमीटर के उस क्षेत्र का, जो इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 19-3-2009-बारह-1, दिनांक 1 दिसम्बर 2009 द्वारा मेसर्स नाड प्रायवेट लिमिटेड को सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के अधीन लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, टाइटेनियम, वेनेडियम एवं निकल खनिजों की सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए स्वीकृत किया गया था, उक्त नियमों के नियम 7(1)(एक)(ख) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

सारणी

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांतर (3)
ए	24° 16' 00"	81° 35' 40"
बी	24° 30' 30"	82° 43' 45"
सी	24° 15' 30"	82° 45' 30"
डी	24° 17' 25"	82° 19' 25"
इ	24° 16' 00"	82° 19' 15"
एफ	24° 09' 30"	81° 57' 50"
जी	24° 09' 30"	81° 48' 20"
एच	24° 06' 40"	81° 48' 20"
आई	24° 02' 46"	81° 35' 40"

बी से सी राज्य सीमा

यह क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन पश्चात् 90 दिन तक सर्वेक्षण अनुज्ञा की पुनः स्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. उपरोक्त क्षेत्र का रेखांक, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन" 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 19-3-2009-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 24 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. शर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th December 2013

No. 19-3-2009-XII-1.—In the exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (1) of rule 59 of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government, hereby, declare that an area of 2458 Sq. Km. which was sanctioned *vide* this Department's order F 19-3-2009-XII-1, dated 1st December 2009 to M/s NAD Private Limited for the reconnaissance operations of Iron ore, Manganese ore, Titanium, Vanadium and Nickel minerals under reconnaissance permit the said area of reconnaissance permit is relinquished in accordance with rule 7(1)(i)(b) of the said rules. Details of the said areas given in the table below, namely :—

TABLE

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
A	24° 16' 00"	81° 35' 40"
B	24° 30' 30"	82° 43' 45"
C	24° 15' 30"	82° 45' 30"
D	24° 17' 25"	82° 19' 25"
E	24° 16' 00"	82° 19' 15"
F	24° 09' 30"	81° 57' 50"
G	24° 09' 30"	81° 48' 20"
H	24° 06' 40"	81° 48' 20"
I	24° 02' 46"	81° 35' 40"

B to C State Boundary

This area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette upto 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Area Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
R. K. SHARMA, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-85-10-तीन-1417.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा “देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त” दाखिल किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने

हेतु कलेक्टर उज्जैन को दिनांक 18 फरवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखे में त्रुटि सुधार नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में किसी प्रकार का सम्पर्क किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त, आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया। अतः अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2013 में अंकित किया गया है कि श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा अपने व्यय लेखे में जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कोई त्रुटि सुधार नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को विहित समयावधि में कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा इस संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी “देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त” प्रस्तुत की गई है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद

शेख को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद खाचरोद जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-85-10-तीन-1418.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद खाचरोद, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा “देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त” दाखिल किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु कलेक्टर उज्जैन को दिनांक 18 फरवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखे में त्रुटि सुधार नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में किसी प्रकार का सम्पर्क किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त, आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया। अतः अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2013 में अंकित किया गया है कि श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा अपने व्यय लेखे में जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कोई त्रुटि सुधार नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को विहित समयावधि में कराई गई। लेकिन अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा इस संबंध अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी “देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त” प्रस्तुत की गई है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती अहमद जाफरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद खाचरोद जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-68-10-तीन-1415.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद ताल, जिला रतलाम के आम निर्वाचन में श्री रामचन्द्र शर्मा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री रामचन्द्र शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामचन्द्र शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में श्री रामचन्द्र शर्मा से जबाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त अभ्यर्थी ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2010 प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन की स्वीकार्यता के संबंध में डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2013 में लेख किया है कि “अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी ताल के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर निर्वाचन आयोग का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी होने के पश्चात प्रस्तुत उत्तर में व्यय लेखा प्रस्तुत करते हुए विलम्ब का कारण नियमों का ज्ञान नहीं होना बताया गया, जिसके संबंध में तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी ताल द्वारा अपने प्रतिवेदन में श्री शर्मा के द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखा को सही होना बताया गया है किन्तु श्री शर्मा द्वारा आयोग के सूचना पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत उत्तर में विलम्ब का कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रतिवेदित किया गया है।”

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्री रामचन्द्र शर्मा को संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम द्वारा तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी ताल के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 7 नवम्बर 2013 को कराई गई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोजित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद ताल जिला रतलाम का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 125-अ-82-वर्ष 2012-13—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	डुंगरहो	निजी भूमि रकबा 10.625 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 11.012 हे. कुल रकबा 21.637 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पुरवा नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 131-अ-82-वर्ष 2012-13—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बनहरीकला	निजी भूमि रकबा 8.175 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 38.928 हे. कुल रकबा 47.103 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पुरवा नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 146-अ-82-वर्ष 2012-13—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	पटनाकलां	निजी भूमि रकबा 95.60 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 20.16 हे. कुल रकबा 115.76 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई	पटना तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 589-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपाधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	मसनहा	0.056	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.	बरेठिया उमरहट मसनहट मार्ग में सतना नदी पर पुल पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 593-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बठिया	0.703	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	बठिया करसरा बरेठी के निर्माण
		करुआ	0.147	विभाग सतना (म.प्र.).	हेतु.
		करसरा	1.152		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (4) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			के अन्तर्गत	का वर्णन
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	तामोट	352/1/2/2	2.023	0.085	उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश (अधोसंरचना विकास).	राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
			352/2	3.314	0.222		
			352/1/2/1	2.023	0.077		
			327	2.088	0.417		
			328/1	0.405	0.061		
			331/2	2.023	0.283		
			324	2.428	0.227		
			331/6	1.214	0.445		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			332	2.023	0.101
			326/2	0.939	0.174
			622	4.613	0.777
			621	2.023	0.186
			625	1.623	0.417
			631/1	0.709	0.299
			631/4	2.545	0.138
			640	2.664	0.081
			632	0.158	0.158
			631/2	1.275	0.182
			631/3	1.275	0.304
			659/1/2	0.79	0.344
			659/1/3	0.798	0.304
			326/1	1.914	0.097
			641	1.704	0.028
			योग . .	40.571	5.407

टीप.— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1445-भू-अर्जन-पथरिया-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	फतेहपुर	1.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	फतेहपुर जलाशय योजना के
		नीमी	0.10	विभाग, दमोह.	दायीं तट नहर का अतिरिक्त
		योग . .	1.28		भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1872.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	रमगढ़ा	228	0.03	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना द्वितीय चरण
			234	0.01	चाह	परियोजना दायां तट नहर
			271	0.03	संभाग, नरवर, जिला	के अंतर्गत वितरिका शाखा
					शिवपुरी (म.प्र.).	डी-4 के निर्माण हेतु.
योग . .					0.07	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1873.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	दावरअली	556	0.06	कार्यपालन यंत्री, सिंध	सिंध परियोजना द्वितीय चरण
					परियोजना दायां तट नहर	के अंतर्गत आर.बी.सी. महुआर
					संभाग नरवर, जिला	नदी पूर्व के निर्माण हेतु.
					शिवपुरी (म.प्र.).	
योग . .					0.06	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. 5555-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 38-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	दन्तोड़ा	निजी 12.360 शास. 00.200 योग . . 12.560	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) उत्तर-पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	थाना	7.228 योग . . 7.228	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	शीलखेड़ा	2.048	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	सगड़ मध्यम परियोजना
			योग . . 2.048	परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	हिनोतिया माली	3.981	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	सगड़ मध्यम परियोजना
			योग . . 3.981	परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	साड़ेर	3.523	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	सगड़ मध्यम परियोजना
			योग . . 3.523	परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधित करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	पैगयाई	4.807	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	सगड़ मध्यम परियोजना
		योग . .	4.807	परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	होंगली	1.665	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	सगड़ मध्यम परियोजना
		योग . .	1.665	परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	बरखेड़ा जाट	6.064	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर	सगड़ मध्यम परियोजना
		योग . .	6.064	परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.	के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 11066-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	दुर्गपुरा	3.053	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	दुर्गपुरा तालाब के पाल एवं
			योग . . 3.053	संभाग, राजगढ़.	डूब निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11072-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	भूमरिया	2.289	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	भूमरिया तालाब के नहर
		बिनायकबे	0.242	संभाग, राजगढ़.	एस्केप निर्माण स्वरूप प्रभावित
			योग . . 2.531		भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11090-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय

की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	जामोन्या	0.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	मेहनपुरा तालाब की नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		रामगंज	0.088		
		कोड़क्या	0.110		
		योग . .	0.238		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 1-अ-82-12-13-प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(5)	(6)
रायसेन	सिलवानी	पोनार	30/1	0.129	0.030	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	सालाबर्क सिंचाई योजना की आर.बी.सी., एल. बी.सी., एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.
			26	0.134	0.060		
			7	0.421	0.060		
			32	0.547	0.060		
			144, 145, 146/1	4.483	0.020		
			40/1	2.476	0.110		
			5 में से	0.421	0.060		
			9	0.140	0.018		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			46/2	2.501	0.130
			13	0.061	0.018
			29/1	0.397	0.036
			8	0.139	0.030
			46/1	2.501	0.130
			33	0.624	0.150
			34	4.144	0.090
			134	7.260	0.042
			146/1/2	0.809	0.020
			144, 145, 146/2	0.150	0.020
			148/1	0.200	0.030
			148/2	0.201	0.030
			12	0.113	0.048
			151	0.534	0.180
			152	0.813	0.150
			74	0.134	0.060
			120	0.125	0.030
			118	0.632	0.060
			115, 116/1	3.034	0.070
			252/96	0.760	0.060
			96 में से	3.237	0.720
			115, 116/2	1.214	0.070
			115, 116/3	0.607	0.070
			2 में से	0.739	0.108
			27	0.806	0.040
			28	1.967	0.140
			40/2	0.089	0.014
			45, 48/1	1.339	0.060
			45, 48/2	1.340	0.060
			43 में से	4.073	0.160
			29/2	0.671	0.030
			121, 122	0.380	0.090
			2/1/2	1.141	1.141
			योग . .	51.486	4.445
	चैनपुर	23	0.336	0.080	
		24	1.477	0.030	
		25	0.251	0.020	
		26	3.108	0.108	
		27	1.668	0.144	
		28	0.825	0.090	
		29/1	0.085	0.015	
		30/1	1.189	0.150	
		29/2	0.085	0.015	
		30/2	1.189	0.060	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			8/2	1.554	0.240
			44/1	2.193	0.228
			58/4	0.870	0.130
			42, 43	3.366	0.510
			41	1.371	0.080
			45	3.106	0.100
			40/2	1.214	0.120
			34/1/2	4.211	0.220
			34/1/1	0.809	0.070
			36/2	0.809	0.060
			91 में से	0.733	0.090
			37	0.656	0.080
			85/2	0.409	0.090
			167/1	0.214	0.018
			167/2	0.845	0.060
			166	0.291	0.060
			53, 54, 86/4 में से	1.246	0.150
			योग . .	34.110	3.090
	सिमरिया	62/2	2.468	0.120	
		62/1	2.468	0.040	
		62/4/1/1	3.440	0.125	
		62/4/1/2	0.440	0.020	
		65/1/2	1.528	0.060	
		65/1/1	1.416	0.040	
		65/2/1/1	0.615	0.040	
		65/2/1/2	1.214	0.040	
		66	5.930	0.200	
		13/3/2, 15/3, 48/3	1.011	0.090	
		13/3/2/3, 15/3 48/2	1.011	0.090	
		49	1.157	0.080	
		योग . .	22.698	0.945	
	खमरिया खुर्द	24/1	2.760	0.080	
		23/1	1.862	0.120	
		22	1.125	0.100	
		23/2	0.809	0.060	
		24/2	0.809	0.060	
		3/1	2.711	0.120	
		3/3/1/2	3.358	0.095	
		3/3/1/3/1	3.642	0.090	
		3/3/1/1	4.828	0.095	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			15 में से	3.557	0.200
			7	3.052	0.220
			14	1.023	0.080
			18	3.355	0.200
			योग . .	32.916	1.520
	बघबाड़ा	91/1	5.232	0.120	
		91/2/1/1	1.995	0.090	
		91/2/1/2	0.809	0.090	
		91/2/2	2.428	0.100	
		89/1	6.734	0.110	
		89/2	1.214	0.050	
		90/1/1/1	1.513	0.080	
		योग . .	19.925	0.640	
	चंद्रपुरा	18	1.113	0.150	
		19	0.283	0.030	
		24	0.534	0.030	
		25	2.278	0.360	
		26	2.785	0.330	
		17 में से	3.487	0.150	
		योग . .	10.480	1.050	
	पोड़ी	52/1	4.850	0.090	
		52/2	8.962	0.300	
		124/49	0.405	0.120	
		48	1.979	0.015	
		47/2	0.405	0.060	
		5	0.829	0.020	
		6	0.334	0.014	
		101/1/1	1.023	0.120	
		101/1/2	1.000	0.120	
		101/2/4	0.607	0.120	
		101/2/2	0.607	0.120	
		101/2/1	0.607	0.120	
		47/1	1.558	0.060	
		50, 51	2.290	0.090	
		41/53/1	2.994	0.120	
		41/53/2	1.984	0.120	
		95/121/96	4.322	0.420	
		14 में से	5.139	0.300	
		8 में से	3.816	0.104	
		7 में से	2.763	0.110	

बांध के डूब क्षेत्र एवं
वेस्ट वियर हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4	1.652	0.020
			3/1	0.651	0.032
			3/2	0.652	0.032
			3/3	0.652	0.032
			20/1	1.703	0.040
			20/2	0.809	0.052
			20/3	1.703	0.060
			योग . .	52.215	2.811
	पिपलिया खास	192	5.070	0.114	
		272/118	0.405	0.090	
		156	0.445	0.180	
		161	0.231	0.012	
		119/5	0.316	0.012	
		119/4	0.304	0.150	
		119/6	0.202	0.018	
		157	0.567	0.024	
			2.065	0.396	
		67	0.773	0.090	
		68	1.428	0.090	
		252/202/1	0.178	0.075	
		252/202/2	0.178	0.075	
		176/1	0.332	0.180	
		155/1/1	1.214	0.294	
		155/1/2	1.214	0.294	
		160/1	0.445	0.120	
		160/2	1.169	0.180	
		16	5.244	0.228	
		17	6.366	0.330	
		20	4.727	0.030	
		64	0.656	0.060	
		21	2.063	0.210	
		22	2.541	0.150	
		69	0.421	0.012	
		79	0.369	0.096	
		80	2.221	0.120	
		119/2, 118/2	0.539	0.060	
		119/3, 118/3	0.380	0.024	
		65 में से	4.056	0.162	
		योग . .	12.590	3.510	
	सालाबरू	97/3	0.125	0.125	
		97/4	1.287	0.640	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			93	0.113	0.113	
			95	0.251	0.251	
			96	0.518	0.250	
				2.294	1.379	
			88/5	1.003	0.500	
			योग . .	3.297	1.879	
			महायोग . .	239.717	19.890	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-13-14—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का विवरण						धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बाडी	कोड़री	6/1/2	4.77	0.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	गुंदरई तालाब की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
			6/2	9.54	0.39		
			6/3	9.55	0.39		
			6/4	9.55	0.39		
			योग . .	33.41	1.87		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 11352-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम—मडुआढाना ब. नं.-222 प.ह.नं.-02 रा.नि.मं.-चौरई	रकबा 06.317 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जानी वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.					
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र.-1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.					
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.					
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 1896-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	बघरासाजौर	31	0.15	कार्यपालन यंत्री, जल	महुअर मध्यम परियोजना की
			65	0.26	संसाधन संभाग, शिवपुरी,	बार्यी तट नहर की उप शाखा
			67	0.03	जिला शिवपुरी (म.प्र.).	क्र. 1 एवं 2 की सब-शाखा
			110	0.05		क्र. 1 एवं 1 के निर्माण
			111	0.23		कार्य हेतु.
			112	0.20		
			124	0.02		
			207	0.30		
			473	0.02		
			476	0.15		
			477	0.10		
			482/मिन 2	0.14		
			599	0.15		
			1048/1	0.11		
			1049	0.10		
			1053/1	0.01		
			1054	0.09		
			1055	0.05		
			1056/1	0.03		
			1070	0.05		
			1071	0.09		
			1077/1	0.27		
			1090	0.04		
			1091	0.02		
			1092	0.02		
			601	0.17		
			602/मिन. 2	0.14		
			603	0.11		
			604/मिन. 1	0.24		
			607	0.14		
			कुल योग . .	3.48		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1897-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.	अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	बरोदी	75	0.02	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर की उप शाखा क्र. 3 आर की सब-शाखा क्र. 1 एल एवं 2 एल के निर्माण कार्य हेतु.
			76	0.04		
			81	0.02		
			82	0.05		
			83/1	0.03		
			83/मिन.-2	0.03		
			85	0.06		
			88	0.04		
			96	0.09		
			113/2	0.02		
			114	0.03		
			115	0.05		
			116	0.10		
			118	0.04		
			119	0.09		
			122	0.01		
			123	0.17		
			125	0.06		
			129	0.05		
			135	0.07		
			139/मिन-1	0.01		
			140	0.14		
			141	0.02		
			151	0.01		
			152/1/मिन-2	0.07		
			152/2	0.07		
			152/1/मिन-3	0.07		
			152/3	0.07		
			153	0.08		
			154	0.14		
			155	0.02		
			164	0.06		
			165/मिन-1	0.19		
			193	0.05		
			194	0.01		
			274/4	0.07		
367	0.05					
कुल योग . .				2.20		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 10750-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—माण्डाखेड़ा, लाइनपुर, मोहनपुरा टाण्डी, नाईहेड़ा,
उदपुरिया, कोलूखेड़ा एवं शाहपुरिया जागीर.

(घ) क्षेत्रफल—2610.181 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में.)

(1)

(2)

ग्राम-माण्डाखेड़ा

11/2	1.240
20/4	0.215
112/5	0.126
113	0.228
114/1	0.026
134/1	0.200
149/1	0.063
159	0.190
220/1	0.150
235/2	0.013
309/1	0.025
310	0.101
47/2	0.090
167/2	0.266
16/3	4.553
10/1/2	0.291

(1)

(2)

12/1/2

0.449

12/4/2

0.500

22/2/2

0.651

66/4

0.657

65/4/2

1.046

89/1/2

0.379

281/4

0.260

305/2

0.130

6/10

0.885

10/2

1.972

17/4

0.489

27/3/1

1.012

90/2

0.215

91/2

0.051

169/1

0.329

169/3

0.164

72/412

0.531

6/7

0.316

6/9

0.696

17/1/1

1.644

17/1/2

1.644

26/1/2

0.253

362/2

2.529

362/1/3

1.000

362/1/6

1.000

377/2

2.000

377/6

1.000

377/8

0.500

377/9

1.600

377/10

1.600

377/11

0.280

377/13

1.600

377/14

1.600

377/15

1.600

29/2

0.528

29/4

0.263

358

0.670

336

0.051

359/1

2.504

367/19

5.059

361

0.266

(1)	(2)	(1)	(2)
23/2/2	0.594	32	2.162
244/2/2	0.076	22/1	1.303
247/2/1/2	0.208	23/1/1	0.873
262/2/2	0.133	237	0.076
246/2/1/2	0.332	244/1	0.152
2/9	1.626	245	0.215
62/1	3.192	246/1/1	0.570
63/1/1	0.632	247/1	0.348
106/2	0.100	248	0.266
109/2	0.213	4/4/2	0.569
110/2	0.170	189/2	0.556
150/2	0.064	4/5	1.341
154/2	0.030	70/2	0.316
221/2	0.095	6/1/5	0.759
334/2	0.057	8/1	2.086
48/2	0.100	9/1	0.646
19/2	0.649	27/4	1.581
62/2	3.191	91/3	0.025
63/1/2	0.632	90/3	0.113
106/3	0.100	215	0.076
110/3	0.170	17/3	2.719
109/3	0.213	84	0.632
154/3	0.030	85	1.189
221/3	0.095	385/1/5	1.000
234/3	0.057	385/5	0.873
48/3	0.100	386/4	1.896
19/1	0.649	385/6	3.667
106/5	0.066	385/8	1.496
109/5	0.142	385/10	1.545
110/5	0.114	385/11	1.737
154/4	0.026	385/12	1.463
154/5	0.026	383/2	1.287
48/5	0.100	379/398/2	0.785
318	0.051	379/399/1	5.060
63/2/1	1.265	367/23	0.506
63/2/2	1.206	2/1	1.142
160/2	0.120	2/3	0.759
8/3	0.253	2/4/1	0.348
9/4	0.506	3/5/2	0.095
17/2	2.655	5/6/1	0.190
194	0.949	5/7/2	1.518
195	1.278	65/5	1.580
196	0.266	92/1	0.205
200	0.089	292	0.202
288	0.253	300	0.063

(1)	(2)	(1)	(2)
304/2	0.118	370/1/4	0.754
317	0.051	11/6	0.784
321	0.266	86	0.051
325	0.797	289/2	0.051
332	1.012	70/1/1/2	1.871
333	0.607	6/15	1.494
334	0.519	2/10	2.000
335	1.240	57	1.985
338	0.164	58	0.177
367/12	0.379	59	0.190
367/13	0.405	267	0.253
442	0.316	6/12	0.506
319/1/6	1.000	377/7	0.550
48/4	0.200	372/2/3/2	1.035
4/1/1	1.517	63/7	0.186
26/1/1	0.291	3/10	1.711
27/1	1.099	6/1/3	1.000
28/1	0.127	6/1/4	0.828
78	0.253	92/2	0.205
80	0.177	92/4	0.200
82/1	1.947	98/1	0.212
83/1	1.821	100/2	0.260
122/1	0.330	99/1	0.512
129/2	0.891	100/7	0.060
130	1.088	162/2	0.100
139	0.304	163/2	0.020
155/1	0.152	171/3	0.178
156	0.089	171/7	0.440
157	0.205	24/3	0.009
173	0.645	260/1	0.038
174/2	0.025	11/7	0.448
188	0.240	20/2	0.316
189/1	0.051	108	0.139
257/1	0.822	112/1	0.063
269	0.430	112/3	0.033
311/6	5.438	114/2	0.632
311/9	6.507	19/3	0.649
327	1.455	106/6	0.066
328	1.448	119/6	0.142
362/1/1	2.000	110/6	0.114
362/1/2	1.247	203	1.037
101/389	0.152	349/1/4	1.000
153/390/1	0.030	48/6	0.100
311/11	2.400	2/4	0.980

(1)	(2)	(1)	(2)
3/5/1	0.095	109/1	0.426
5/6/2	0.190	110/1	0.342
65/4/4	1.047	118/3	1.265
281/3	0.025	150/1	0.100
305/1	0.012	151	0.025
379/398/1	0.632	154/1	0.051
379/398/2	0.785	238	0.076
63/5	0.253	249/2	1.060
64/3	3.035	249/4	2.000
8/2	0.190	263	1.012
9/2	0.379	45	0.139
9/3	0.190	47/3	0.174
118/1	0.051	48/1	0.298
82/2	1.746	46/5	0.102
83/2	1.821	131/1	1.315
116	0.215	136	0.835
117/1	0.226	132/1	0.076
121	1.808	133/1	0.126
129/1	0.892	149/2	0.042
155/2	0.177	220/3	0.092
157/2	0.200	309/2	0.051
167/1	0.266	46/2	0.316
174/1	0.026	10/1/1	0.291
175	0.455	11/1	0.175
290/1	0.076	4/2	2.250
294	0.810	12/1/1	0.448
20/3	0.215	12/4/1	0.500
220/2	0.150	22/2/1	0.651
235/1	0.013	23/1/2	0.316
47/1	0.090	23/2/1	0.594
2/5	0.632	27/3/2	0.506
362/1/5	0.759	244/2/1	0.076
2/6	0.632	246/2/1/1	0.553
370/3/1	1.518	247/2/1/1	0.348
4/1/2	1.063	262/2/1	0.132
5/8	0.379	66/1	0.547
15	0.405	100/6	0.060
16/1	0.518	162/3	0.100
51	0.329	163/3	0.020
52	1.695	171/2	0.178
53	0.038	171/5	0.440
54/2	2.592	240/1	0.010
106/1	0.194	260/5	0.038
110/1	0.342	92/3	0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
20/1	0.152	5/12	1.265
107	0.063	64/5	1.657
112/2	0.038	26/2	0.531
112/4	0.025	27/2	0.924
114/3	0.126	28/2	1.480
132/2	0.063	246/2/2	0.221
311/1	5.690	247/2/2	0.139
311/7	4.616	6/8	0.253
312	0.582	6/13/1	0.253
313	0.089	5/10/2	0.253
314	0.126	64/1/2	0.253
315	0.152	65/1	0.620
311/10	1.118	76	1.644
70/1/1	4.945	137	0.405
168	0.063	187	0.304
265	0.126	191	0.130
266	0.316	208	1.215
273	0.708	212	0.089
297/1	0.164	219	0.089
307	0.430	131/2	0.580
316	0.063	183	0.190
339	0.051	94/2	0.291
340	0.190	96/2	0.082
344	0.215	97/2	0.398
11/3	0.990	101/2	1.136
70/1/1/2	1.871	160/1/2	0.060
65/3	0.506	166/2	0.120
73/1	0.246	172/1/2	1.450
87/1	0.070	241/2	0.025
88	0.683	259/2	0.095
95	0.392	133/2	0.042
140/2	0.380	149/3	0.021
141	0.089	235/3	0.025
147/2	0.188	46/1	0.063
147/4	0.015	44/1	0.253
179/1	0.050	2/2	0.316
207/2	0.029	6/5	0.696
31/3	0.683	3/4	0.506
4/4/1	0.482	5/2	0.379
70/1/2/1	2.365	368/12	0.379
185/2	0.026	357/4	0.190
186	0.291	370/4	0.506
210	0.152	17/5	1.684
5/1	0.359	367/1/4	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
6/4	0.696	181/2	0.026
367/6	0.974	206/2	0.057
3/3	0.632	13	0.544
67	1.240	18/1	0.266
367/11	0.885	221/5	0.063
157/5	0.088	362/1/4	0.190
2/8	0.379	65/4/3	0.795
3/6	0.190	89/1/1	0.480
367/5	1.708	16/2	3.036
5/5	0.569	63/4	0.082
3/2	0.632	6/3	0.253
5/10/1	0.126	5/3	0.696
367/10	0.658	5/4	0.506
17/6	1.760	367/17/1	0.316
123	1.063	367/1/11/1	1.000
270/1	0.151	170	0.126
270/2	0.164	286/1	0.089
274	0.164	280/387	0.025
350	0.405	289/1	0.215
351	0.379	5/7/1	2.529
24/2	0.538	284	0.190
25/2	1.106	65/4/1	0.654
93/2	0.658	89/2/1	0.621
102/1	0.158	281/2	0.025
142/1	0.108	260/3	0.038
143/1	0.265	2/7	0.253
145/1	0.082	6/2	0.316
146/1	0.101	3/1	0.759
164/2	0.088	357/3/3	0.264
165/1	0.076	385/1/3	0.506
177/1	0.044	385/2	0.379
181/1	0.025	367/9	0.696
206/1	0.057	65/6	0.506
24/1	0.537	87/2	1.170
25/1	1.107	103	0.392
93/1	0.253	147/1	0.187
102/2	0.158	147/3	0.015
182/2	0.107	148	0.051
143/2	0.266	179/2	0.051
145/2	0.082	207/1	0.085
146/2	0.101	31/2	0.683
164/1	0.038	3/9	1.696
165/2	0.025	63/6	0.080
177/2	0.045	64/4/1	1.205

(1)	(2)	(1)	(2)
352	0.329	163/1	0.036
353	0.569	171/4	0.030
354	0.266	171/6	0.500
356	0.658	240/2	0.009
160/1/1	0.060	341/1	0.164
166/1	0.120	367/1/1	0.500
172/1	0.575	367/18/1	0.750
241/1	0.026	324/1	0.386
259/1	0.095	322	0.025
367/1/3	0.253	322/388	0.025
357/3/4	0.253	324/2	0.386
385/9	1.518	291	0.164
360	0.291	301	0.051
362/1/7	1.279	320	0.253
202	0.013	329/2	0.463
204	0.645	336/2	0.461
205	0.240	341/2	0.169
216	0.873	367/1/12	0.363
295	1.366	367/18/2	0.750
296	0.051	330/1	0.086
77	2.744	349/1/1	1.000
138	0.392	331/1	0.327
182	0.215	383/3	1.936
184	0.190	275	0.114
185/1	0.025	66/2	0.822
192	0.063	69	3.111
213	0.253	21	0.898
122/2	0.113	105	0.240
124	0.038	111	0.430
125	0.632	115	0.683
126	0.468	132/3	0.127
128	0.392	133/3	0.174
268	0.164	134/2	0.167
303	0.101	152	0.051
12/3	1.000	153	0.139
6/1/2	0.828	236	0.063
65/2	0.316	4/3	0.885
66/3	0.885	117/2	0.697
100/5	0.060	172/3	0.379
98/2	0.636	54/1	1.518
99/2	0.513	6/14	1.626
100/1	0.100	64/4/2	0.318
100/3	0.180	100/4	0.317
162/1	0.205	161	0.051

(1)	(2)	(1)	(2)
171/1	0.178	252/3/2	0.843
		252/3/3	0.843
171/8	0.560	252/4	2.529
240/4	0.010	372/2/1	1.265
260/4	0.038	276	0.076
261	0.101	280/1	0.063
64/2	1.265	281/1	0.025
90/1	0.330	277/1	0.013
91/1	0.088	277/2	0.113
169/2	0.506	278/1	0.013
6/11	1.494	278/2	0.088
18/2	3.465	282	0.101
60	0.885	283	0.089
61	0.443	299	0.051
71	1.278	302	0.038
311/8	1.265	377/4	1.000
319	0.139	279	0.202
135	0.519	280/2	0.063
209	0.025	367/2	3.794
211	0.051	286/2	0.013
29/1	0.235	289/1	0.202
31/1	0.266	377/2	2.000
140/1	0.468	293	0.278
158	0.051	304/1/2	0.118
176	0.051	367/7/1	0.695
217	0.051	367/18/3	1.147
212	0.089	343/1	0.114
29/3	0.528	298	0.063
215	0.076	337/2	0.513
221/4	0.095	367/7/2	0.696
246/1/2	0.537	367/18/4	1.147
247/1/1	0.348	343/2	0.114
262/1	0.266	308	0.164
379/4	2.000	311/2	4.805
249/3	2.000	311/3	4.566
30/1	0.594	311/4	4.490
30/2/1	0.418	311/5	0.190
44/3	0.379	311/404	0.822
250	0.076	72	0.835
251	0.089	74	1.050
252/1	0.987	75	1.493
349/3	1.012	178	0.089
252/2	1.265	197	0.089
260/2	0.038	198	0.253
252/3/1	0.844		

(1)	(2)	(1)	(2)
199	0.582	385/8	1.496
201	0.038	385/10	1.545
347/2	1.500	385/11	1.737
347/3	0.500	385/12	1.463
377/3	1.000	383/2	1.287
347/4	2.000	383/1	2.000
347/5	0.817	379/399/1	5.060
377/5	1.183	386/1	1.000
349/1/2	1.241	386/2	0.506
349/1/3	2.000	386/3	2.530
349/1/5	1.000	367/14	0.468
349/2	2.024	386/5	1.205
367/20	3.036	386/6	1.205
349/4	0.379	367/1/5	0.500
385/7	1.664	367/1/6	0.500
355	0.164	367/1/7	0.378
357/3/2	0.253	367/1/8	0.759
367/1/3	0.253	367/1/9	0.500
357/3/4	0.253	323	0.379
357/6	0.278	326	0.797
385/9	1.518	330/2	0.424
370/2	1.518	331/2	2.000
50/2/1	0.190	337/1	0.512
360	0.291	374/1	2.000
362/1/7	1.279	374/3/2	0.500
367/16/1	2.228	347/1	1.000
362/2	2.529	368/2	0.759
362/1/3	1.000	367/4	0.569
257/2	0.013	367/16/2	0.013
271	0.266	367/17/2	0.671
290/2	0.139	368/1/1	0.226
297/2	0.076	368/1/2	2.000
304/1/1	0.118	368/3	2.466
324/1	0.386	369/2/1	0.563
336/1	0.462	370/1/5	2.000
329/1	0.549	369/2/2	0.453
377/14	1.600	369/2/3	0.759
377/15	1.600	370/1/2	2.000
29/2	0.528	370/1/3	2.000
29/4	0.263	50/2/2	0.860
385/1/2	1.000	370/5	3.794
385/1/5	1.000	370/6	2.529
385/5	0.873	372/2/2	1.265
885/6	3.667	374/6	1.530

(1)	(2)	(1)	(2)
372/2/3/1	0.228	167	0.063
372/4	1.220	168/1	0.198
372/5	1.080	170/1	0.613
372/6	0.450	177/1	1.072
372/7	0.735	294/2	0.258
374/3/1	0.500	312/2	0.245
374/4	1.000	288/2	0.442
374/5	1.000	37/1	0.120
362/1/6	1.000	38/1	0.057
377/9	1.600	41/1	0.088
377/10	1.600	42/1	0.107
377/11	0.280	133/1	0.424
367/1/10	0.500	97/1	3.055
367/15	0.316	92/130/1	1.379
364/2	0.088	176/1	0.126
368/8	0.632	5	1.050
370/2	2.000	126	0.316
379/3	1.500	171/1	1.202
367/21	2.370	171/2	0.835
377/13	1.600	172/1	0.273
योग . .	<u>541.773</u>	172/4	0.500
ग्राम-लाड़नपुर		320/6	0.258
320/15	1.000	320/8	0.742
320/16	1.500	67	0.760
180/1	0.240	127	0.645
180/2	0.241	186/1	0.696
180/4	0.240	191	0.215
68	0.490	192	0.392
82/1	0.772	190/3	3.331
83/2	0.958	197	0.379
174/3	4.566	199/1	0.465
183	0.848	199/2	0.063
184/2	0.586	320/2	1.000
69/2/1	0.072	172/2	1.223
154/1	0.464	176/2	0.253
168/2	0.131	185/2	0.373
170/2	0.310	152	0.090
177/2	0.535	157	0.126
294/1	0.129	159	0.417
69/2/2	0.143	160	0.126
145/1	0.194	163	0.000
145/2	0.097	164	0.000
153	0.240	165	0.366
154/2	0.687	291	0.619

(1)	(2)	(1)	(2)
292	0.202	30	0.025
293	0.039	31	0.089
314	0.670	32	0.354
293	0.392	33	1.012
292	0.253	181	1.695
156	0.190	86	0.632
166	0.051	87	0.329
178	1.366	88	0.392
179	0.051	89	0.405
81	0.544	91	0.316
195/1	0.201	186/3/1	0.303
196/2	0.265	185/1	0.879
196/1	0.064	137/2	0.272
301/1	0.721	138/2	0.012
83/3	1.726	50/2	0.019
190/2	0.833	273/6	0.885
70	0.164	274/3	3.920
80/1	0.071	12/2	2.782
80/2	0.071	22	0.089
80/3	0.070	23	0.013
80/4	0.071	24	0.354
290	0.291	25	1.391
11/1	0.139	26	0.342
273/5	3.288	45	0.025
90/5	3.250	62	0.038
147	0.253	63	0.240
150	0.569	64	0.640
151	0.190	128	0.329
212	0.468	139	2.213
9/2	1.951	140	5.210
90/4/2	0.337	269/3/1	5.364
90/4/4	0.337	269/3/2	1.214
9/1	0.022	11/2/1	1.012
12/1	0.026	44/4	0.004
277/2	0.266	132/2	0.025
274/2	1.518	135/1	0.424
276/3	2.529	136/1	0.068
21/2	0.222	141/2/1	0.787
82/2	0.778	141/7	1.000
83/1	0.958	155	1.164
184/1	1.172	182/1	0.408
27	0.051	141/6	1.000
28	0.152	60	0.152
29	0.051	61	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
281	4.743	180/3	0.240
80/5	0.071	309/2/2	0.085
172/3	0.922	90/3	3.035
195/3	0.266	190/1	0.832
196/2	0.265	277/1/2	1.000
19/64	0.265	320/3	1.000
71	0.025	321/2	0.480
72	0.013	269/7	2.000
74	0.240	273/1	1.321
75	0.240	273/4	3.288
76	0.417	273/3	1.265
77	0.076	274/5	1.442
78	0.342	275/2	2.530
158	0.101	305/2	1.112
16/2	0.287	304	0.740
149	0.607	284/2	0.050
9/3	1.444	4/2	0.911
90/6	1.000	4/1	5.007
320/5	1.000	90/4/1	0.675
320/12	1.221	90/4/3	0.675
320/4	1.000	17	0.190
320/9	1.000	18	0.025
276/2	1.075	34	0.379
302	0.689	35	0.139
320/10	1.000	39	0.266
288/1	0.734	40	0.316
320/14	0.800	46	0.051
141/3	1.639	47	0.063
134/2	0.038	130	0.658
136/4	0.020	131	0.797
135/3	0.036	137/1	0.272
141/2/3	0.787	138/1	0.013
185/3	0.506	11/2/2	1.012
137/1	0.129	44/3	0.003
11/2/4	1.012	129/1	0.670
301/2/4	0.084	132/3	0.500
186/3/2	0.304	135/2	0.020
329/6/1	0.084	136/2	0.068
143	0.455	141/2/2	0.787
144	0.367	182/2	0.408
269/5	2.000	182/3	0.408
84/5	0.500	317/3	0.129
90/2	2.030	11/2/3	1.012
141/5	1.674	14	1.089

(1)	(2)	(1)	(2)
15	0.396	296	0.215
16/1	0.190	300/1	2.719
21/1	0.221	121/2	0.025
44/2	0.003	278/2	0.093
129/2	0.690	189/3	0.506
44/1	0.003	189/5	0.310
129/3	0.670	202/2	0.468
134/1	0.038	98/1	0.468
136/3	0.046	202/2	0.468
141/2/4	0.787	32/2/6	1.000
317/2	0.130	170/4	0.057
69/1	0.215	183/1	0.015
79	0.051	189/4	0.506
73	0.012	189/6	0.390
148	0.101	98/4	0.468
84/2	1.000	125	0.114
6/2	0.728	127	0.089
7/2	0.447	134	0.038
19	0.025	33	2.137
20/2	0.101	142	0.493
36/2	0.063	146	0.114
37/2	0.057	188	0.228
38/2	0.057	198	1.391
41/2	0.089	199	0.632
42/2	0.108	225	0.190
65	1.341	1/23	3.794
133/2	0.250	270/1	1.549
97/2	3.055	271/1	0.189
92/130/2	1.378	272/1	0.392
6/1	0.727	292/1	0.323
7/1	0.223	34/4	3.000
20/1	0.101	35/6	0.750
132/1	0.298	35/8	0.215
84/3	1.000	37/2	0.253
योग . .	<u>187.150</u>	38	0.038
		40/1	0.289
		40/3	0.235
ग्राम-मोहनपुरा		87/1/1	0.547
193/2/3	1.000	39/3	0.329
32/2/8	1.000	87/3/1	0.193
170/3	0.057	109/4/2	0.051
183/2	0.016	136/2/1	0.029
34/2	0.882	209/2/2	1.075
35/2	0.582	252	0.152
35/5	1.505	26/1	0.200
37/1	0.405		

(1)	(2)	(1)	(2)
26/5	0.050	231	0.190
209/1	1.000	240/1	0.048
32/2/7	1.000	246	0.025
170/1	0.057	278/1	0.092
183/3	0.016	298	0.164
189/1	0.525	299/1	0.051
139	0.291	300/2	1.265
170/1	0.057	190/4	0.500
98/2	0.467	211	1.190
270/2	1.549	212	0.506
271/2	0.190	289	0.025
272/2	0.392	290	0.051
292/2	0.322	291	0.252
50/1	1.479	293	0.089
197	0.835	296	0.139
1/26/1	0.478	210/8	0.095
99/15	3.794	221/1	0.259
32/2/3	1.000	136/4/1	0.181
193/2/1	0.619	209/2/3	1.075
28	1.480	275/4	0.126
65	0.595	276/1	0.026
69	0.746	26/3	0.050
91/1	0.124	26/6	0.200
95/1	2.053	34/3	1.195
104/2	1.379	34/5	0.139
106/1	0.202	35/7	1.290
181	0.089	39/2	0.239
299/2	0.051	40/2	0.235
32/4	0.400	87/2/1	0.243
123	0.076	109/4/3	0.100
124	0.152	136/3/1	0.067
129	0.139	167	0.291
133	0.013	209/2/1	1.075
226	0.089	26/4	0.050
229	0.089	34/1	0.474
230	0.253	35/1	0.253
245	0.038	35/3	0.909
99/5	0.900	35/4	0.443
99/17	1.629	39/1	0.341
100/3	1.028	109/4/1	0.051
121/1	0.025	136/1/1	0.015
122	0.063	174	0.038
132	0.139	177	0.266
135	0.025	178	0.101
		209/4/2	1.075

(1)	(2)	(1)	(2)
274/2	0.060	268/1	0.126
275/2	0.100	32/2/10	1.000
26/2	0.500	109/3	0.190
165/3	0.013	234	0.152
57	0.164	306/2	1.328
62	2.402	36	0.784
184	0.089	103	2.200
186	0.329	112	0.354
187	0.316	138	0.392
50/2	0.759	143	0.481
1/18/1	3.094	171	0.379
73	0.126	172/1	0.013
81	4.760	194	0.278
82	0.266	201	0.051
84/1	0.066	205	0.860
118/1	1.041	206/1	0.266
119	0.569	206/2	0.013
193/2/4	1.000	232	0.190
32/12	0.795	262	0.278
32/13	0.800	263	0.417
32/9	0.100	264	1.455
241/2	0.004	265	0.822
32/5	0.800	266	6.285
99/1/1	1.052	307	4.338
99/3	2.908	71	0.051
99/8	3.035	114	0.443
99/9	3.794	190/3	0.800
126	0.089	42	0.253
130	0.139	43	0.089
210/5	0.531	64	0.379
228	0.215	75	0.177
238/1	0.076	76	0.111
188	0.228	77	0.038
189	0.025	78	0.038
32/6	0.800	79	0.076
100/2	1.027	80	1.252
283	0.304	32/2/1	2.000
295	0.215	111	0.139
193/4	1.232	277	0.076
215	0.038	285	0.013
239/2	0.025	20	0.253
244/1	0.019	15	1.341
250/1	0.063	145	0.051
267/2	0.392	209/5	0.557

(1)	(2)	(1)	(2)
32/2/5	1.000	210/4	0.696
141/2	0.237	213	0.038
22/2	0.096	214	0.177
23/1	1.169	105/1/1	0.485
163	0.228	106/2	0.107
180/2	0.063	109/2/2	0.158
200	0.848	110/1/1	0.466
204/1	0.714	195/1	0.100
255/1	0.088	195/3	0.235
256/1	0.126	242/2	0.038
256/3	0.038	66	0.051
261/2	0.304	67	0.038
260/2	0.304	68	0.038
116/1	1.271	70	0.076
180/1	0.063	89/1	0.200
204/2	0.171	90/1	0.074
255/2	0.304	92	0.329
256/2	0.127	32/1	1.015
256/4	0.051	19/4	0.545
260/1	0.158	32/10	1.560
222	0.291	190/2	1.000
223	0.253	210/2	0.506
233	0.304	241/1	0.054
259	0.316	32/8	0.100
280	0.278	32/2/4	1.000
286	0.025	32/2/2	2.000
287	0.152	32/2/9	1.640
99/12/1	1.111	12	0.392
170/2	0.057	44	0.645
182	0.025	45	0.645
183/4	0.016	46/2	0.114
189/2	0.506	48	0.152
189/7	0.309	140	0.291
98/3	0.468	156	0.190
147	0.152	157	0.228
109/1	0.063	158	0.051
219	0.354	175	0.510
32/11	1.145	209/2/4	1.075
19/3	0.550	209/3	2.529
121/3	0.026	258/2	0.051
278/3	0.093	209/4/1	0.695
284	0.164	275/3	0.537
299/3	0.051	276/2	0.063
193/5	0.089	25	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
261/1	0.158	105/3/1	0.561
99/2	0.506	110/3/1	0.370
99/4/2	1.138	113	0.569
99/1/3	1.000	115	0.101
99/1/2	0.350	159	0.342
99/4/1	1.138	160	0.089
99/6	3.883	176	0.038
99/16	0.038	161	1.139
99/7	1.518	162	0.139
99/10	2.529	164	0.152
99/11/1	0.127	251	0.144
99/11/2	2.022	165/2	0.013
99/13	5.311	165/4	0.013
99/14	2.529	166	0.152
100/1	1.027	191/1	0.045
100/5	0.514	191/3	0.063
128/2	0.095	191/6	0.012
131/1	0.069	191/5	0.025
210/9	0.177	192/2	0.120
221/2	0.260	210/7	0.095
239/1	0.026	240/2	0.030
244/2	0.019	267/1	0.392
250/2	0.063	268/2	0.127
210/6	0.253	193/2/5	1.000
104/1	1.378	27	1.202
179	0.417	29	8.096
202/1	0.468	30	0.013
105/2/1	0.430	46/1	0.076
306/1	0.569	168	0.177
11/1	2.528	258/1	0.063
1/24/1	2.294	47	0.190
16	0.683	52	1.025
11/2	0.013	185	0.089
13	0.949	235	0.038
22/1	0.633	236	0.190
32/7	0.800	53	6.766
193/2/2	1.000	54	1.429
305/1	1.896	55	0.278
106/3/1	0.086	56	0.430
109/2/1	0.140	58	0.202
110/2/1	0.432	59	0.645
195/2	0.335	60	0.569
227	0.051	61	0.885
242/1	0.051	101	1.833

(1)	(2)	(1)	(2)
102	0.999	224	0.354
141/1	0.790	1/22	4.110
165/1	0.630	241/3	0.005
165/5	0.013	249/1	0.025
63	0.620	253	0.177
274/1	0.089	257	0.215
275/1	0.211	1/7/1	2.466
74	0.076	1/16	1.265
1/13/1	0.632	1/17/2	0.126
1/2/2	1.264	279	0.051
1/13/2	0.633	282	0.101
1/3	2.529	1/11	1.265
1/12	1.265	1/5	2.529
1/4	2.529	1/15	1.265
1/8	2.529	1/6	2.529
17	1.227	1/14	1.265
118	0.240	1/9	2.529
1/19/1	2.381	1/20	1.138
21	1.493	1/25	2.668
23/2	1.929	1/17/1	2.404
311	1.303	1/21	2.529
313	0.367	1/24/2	1.500
314	2.972	96	2.871
317	0.342	310	1.240
318	0.202	9/1	0.430
319	1.640	10/1	0.227
320	0.089	305/2	0.417
321	0.304	1/1/3	1.000
322	0.531	1/2/1	1.265
323	0.202	योग . .	<u>315.523</u>
324	0.430		
1/1/1	0.458	ग्राम—टाण्डी	
1/1/2	1.000		
208/1	0.158	139/1	0.172
208/2	0.158	254	0.063
208/3	0.253	255/2	0.044
216	0.455	152/2	0.253
217	0.164	302/1	0.569
218	0.228	303/2	0.105
220	0.607	316/1	0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
317/2	0.368	265/2/1	0.019
320/2	0.379	265/3/1	0.012
321/2	0.127	306/1	0.456
2/2	0.165	307/1	0.044
64/2	0.031	308/1	0.101
123/1	0.019	107	0.025
265/2/2	0.019	250	0.177
47/1	0.269	251	0.215
51/1	0.500	40/1	0.038
280/1	0.032	119	0.038
286/1	0.279	133	0.038
300	0.215	162	0.664
301	0.164	228	0.164
323/1	0.500	229	0.531
325/1	0.019	235	0.215
328	0.038	236	0.342
329/1	0.077	258	0.051
332/1	0.158	282/1	0.051
333/1	0.323	227	0.430
334/1	0.063	3/2	0.302
343/1	0.038	61/2	0.348
350	1.795	67	0.089
351	0.063	69	0.101
352	0.392	129/2	0.038
353	0.330	130	0.013
354	1.632	344/1	1.708
358/381	0.443	344/2	1.063
7/1	0.260	28	1.164
11	0.025	35	0.177
12/2	0.031	39	0.949
18/2	0.570	80	1.849
52/2	0.120	85	0.569
240/2	0.785	86	0.278
242/1	0.196	87	0.025
275/1	0.057	88	0.392
265/3/2	0.013	89	0.025
305/1	0.120	90	0.051
306/2	0.455	91	0.013
307/2	0.045	92	0.430
308/2	0.101	97	0.266
305/2	0.120	98	1.415
2/1	0.165	99	0.721
64/1	0.032	100	0.013
123/2	0.019	101	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
102	0.051	367/1	0.494
103	0.139	5	2.161
114	0.379	8/1	0.999
118	0.737	45	0.126
121	0.291	46	0.658
122	0.177	143	0.076
140	0.190	57	0.215
141	0.089	244/2	0.101
148	0.392	247	0.405
224	1.455	263	0.089
268	0.228	267/2	0.031
288	0.228	143/387	0.240
289	0.063	1	0.860
294	0.051	110	0.126
326	0.013	111	0.519
276/1/2	0.226	112	0.445
290/1	0.051	113	0.240
292/1	0.246	116	0.101
293/1	0.411	125	0.038
339/1	0.152	126	0.126
340/1	0.405	164	0.898
7/2	0.259	260	0.126
12/1	0.032	261	0.114
18/1	0.057	297	0.663
20	0.228	19/1	0.202
52/1	1.200	21/1	0.300
74	0.038	22	0.518
75	0.038	24	0.051
76	0.076	27/1	1.398
77	0.025	43	0.164
78	0.164	44	0.013
79	0.152	259	0.013
81	0.443	336	0.164
242/2	0.196	83	0.202
275/2	0.057	84	0.089
276/1/1	0.266	364	0.114
290/2	0.050	158	0.076
292/2	0.247	159	0.038
293/2	0.411	163/1	0.531
340/2	0.860	330	0.342
248	0.164	341	0.139
255/1	0.045	342	0.083
277	0.101	365	1.138
279	0.101	366	1.354

(1)	(2)	(1)	(2)
370	0.961	25	0.089
119/382	2.023	27/2	0.223
339/2	0.139	47/2	0.300
335	0.025	51/2	0.411
13/1	0.190	280/2	0.031
15	0.253	286/2	0.278
16/1	0.026	323/2	0.735
38/2	0.550	325/2	0.019
124/1	0.126	329/2	0.100
124/2	0.114	348	0.430
40/2	0.266	276/2	0.063
41	0.430	285	0.202
6	0.342	59	0.253
54	0.240	295	0.190
55	0.089	137	0.051
56	0.076	283	0.177
73	0.025	324/1	0.696
271	1.063	60	0.164
272	0.063	63	0.164
274	0.114	142	0.202
302/2	0.569	146/2	0.114
32/1	0.142	3/1	0.301
33/1	0.011	58	0.177
36/1	0.123	61	0.348
37	0.152	68	0.215
245	0.468	129/1	0.038
246/1	0.228	243	0.342
30/2	0.026	244/1	0.101
32/2	0.022	246/2	0.405
48/1	0.532	262	0.076
49/1	0.835	267/1	0.032
50	0.025	4	0.772
269	0.139	367/3	0.012
337	0.126	8/2	0.506
347	1.720	13/2	0.284
48/2	0.379	16/2	0.025
49/2	0.126	38/1	0.551
296	0.632	14	0.051
298	0.114	17	0.013
299	0.822	29	0.177
19/2	0.203	30/1	0.176
21/2	0.269	31	0.177
23	1.164	156	0.278
26	0.013	157	0.342

(1)	(2)	(1)	(2)
160	0.063	311	0.089
161	0.076	312	0.190
163/2	0.165	313	0.215
284	0.133	314	0.493
252/1	0.045	135/1	0.632
253/1	0.110	359	0.658
303/1	0.104	360	1.695
33/2	0.002	361	0.089
36/2	0.016	363	0.481
252/2	0.006	71	0.013
253/2	0.016	72	0.139
303/3	0.069	82	0.126
316/2	0.034	134	0.038
317/3	0.186	176	0.329
53	0.013	227	0.129
62	0.531	237	0.076
93	0.089	238	0.228
94	0.354	317/1	0.192
95	0.101	265/1	0.051
96	0.051	282/2	0.025
144	0.089	320/1/1	0.152
145	0.139	321/1/1	0.101
367/2	1.189	320/1/2	0.317
105	0.013	321/1/2	0.367
106	0.013	369/2	2.023
108	0.240		योग . . 98.855
109	0.051		
135/2	0.089		ग्राम—नाईहेड़ा
138	0.038	182/1/1	1.311
146/1	0.303	232	0.354
147	0.063	233	0.051
149	0.101	337	0.202
150	0.126	338	0.164
151	0.266	339	0.278
152/1	1.214	367	0.038
153	0.126	370	0.076
154	0.455	373	0.291
155	0.063	208	0.038
65	0.025	209/1	0.215
66	0.025	345	0.063
266	0.051	448	0.089
304	0.101	456	0.089
309	0.266	498	0.177
310	0.089	544	0.367

(1)	(2)	(1)	(2)
578	0.784	301/1/2	0.089
579	1.607	305	0.253
581	0.923	276	0.341
582	0.190	390	0.190
182/1/1/2	1.312	395	0.011
236	0.759	590	0.079
335	0.094	280	0.240
102/1	1.354	329	0.367
102/2	0.784	351	0.101
275	0.392	353	0.126
279	0.557	331	0.405
484	0.190	356	0.062
93	1.708	365	0.051
99	0.336	366	0.101
100	1.202	386	0.101
101	0.405	421	0.152
103	0.190	438/1	0.089
237/1	0.241	444	0.063
458	0.923	447	0.013
108/2	0.390	450	0.126
140/4	0.237	452	0.342
125/1/2	0.200	460	0.772
226	0.481	488	0.202
229	0.038	494	0.152
230/2	0.046	496	0.152
586/2	0.015	511	0.076
230/3	0.046	515	0.190
586/3	0.015	516	0.114
7/3	0.152	577	0.885
27/3	1.007	636	0.253
51/3	0.258	638	0.278
195	0.051	39	2.162
378/3	0.038	72	1.986
379/3	0.026	73	0.822
583/3	0.304	219	0.051
274/2	0.483	410	0.152
286/1	0.246	454	0.278
287/2	0.010	40	0.063
297/1	0.348	573/2/1	2.119
398/3	0.038	210	0.076
301/1	0.088	282	0.645
303	0.240	313	0.063
274/3	0.483	424	1.695
297/2/1	0.095	484	0.190

(1)	(2)	(1)	(2)
94/1	0.081	555	0.190
230/1	0.046	590	1.581
27/1	0.352	591	0.089
60	0.497	600	0.253
62	1.022	607	0.089
84	0.810	646	0.822
113	0.177	587	0.371
426	0.139	598	0.120
485	0.013	589	1.204
495	0.228	592	0.013
502	0.051	599	0.769
512	0.076	597	0.689
514	0.215	64	0.304
521	0.215	68/7	2.276
182/1/2	2.622	654/15	0.379
4/1/2	0.636	53/1	0.048
459	0.797	94/2	0.317
274/1	0.967	17/1	0.537
223	0.114	17/3	0.537
368	0.430	41	0.873
277	1.607	91	0.898
284	0.152	382	0.076
312	0.202	383	0.202
319	0.317	532	0.177
323	0.152	584	0.177
455	0.144	547	0.089
457	0.114	562	1.391
342	0.214	563	0.759
347	0.038	568	0.468
600	0.025	42/1	0.389
63	1.890	43/1	0.130
54	2.263	44/1	0.452
181/9	0.126	45/1	0.467
190	0.354	148	0.164
197	0.114	361/1	0.063
240	0.746	434/1	0.082
250	0.316	435/1	0.029
251	0.089	436/1	0.042
253	0.025	437	0.013
291	0.101	541/1	0.075
314	0.114	42/3/1	0.247
493	0.317	43/3	0.129
520	0.089	44/3	0.452
541/3	0.074	45/3	0.467

(1)	(2)	(1)	(2)
360	0.025	24/2	0.853
261/3	0.063	53/1	0.578
362	0.013	53/3	0.483
375	0.152	153	0.101
435/3	0.028	211/1	0.025
445	0.038	97	0.728
42/3/2	0.123	149/1	0.120
81/1	0.433	169/1	0.026
81/3	0.433	187/2	0.392
334/2	0.115	248/3	0.089
334/1	0.115	503/2	0.089
125/1/1	0.180	4/2	2.941
12	1.063	5	1.935
125/1/5	0.136	517	0.101
125/1/4	0.180	518	0.240
584/1/4	0.200	528	0.329
125/1/3	0.180	550	0.139
584/1/3	0.200	551	0.152
130	0.076	7/1	0.151
68/2	0.759	51/1	0.257
129	0.038	378/1	0.038
126	0.063	379/1	0.025
128	0.278	679/2	1.012
586/1	0.015	684/5	2.339
106/3	0.445	7/2	0.152
108/3	0.557	27/2	1.007
109	0.493	51/2	0.257
110	0.468	378/2	0.038
105/2	0.139	379/2	0.025
173/2/1	0.756	586/2	0.304
234	0.007	8	1.366
235	0.046	679/1	3.035
336	0.396	9/1	0.388
33/2	0.095	46/1	0.386
215/3	0.038	78/3	0.986
317	0.114	46/2	0.386
318	0.354	78/2	0.987
333	0.190	47	0.949
565/3	0.329	440	0.076
231	0.063	48	0.076
340	0.159	49	0.696
377	0.089	161	0.051
33	0.177	272	1.138
22/1	0.007	357	0.051

(1)	(2)	(1)	(2)
358	0.240	123	0.051
442	0.025	124	0.013
443	0.228	127	0.051
487	0.202	112/1	0.381
55/1	0.500	112/2	0.327
55/4	0.500	341	0.087
584/1/7	0.400	133	0.114
55/2	0.500	134	0.013
55/3	0.500	343	0.190
55/5	0.500	344	0.253
55/6	0.500	348	0.152
55/7	0.500	372	0.126
55/8	0.500	433	0.266
55/9	0.500	76/2	0.561
55/10	0.500	82/3	0.695
55/11	0.500	115	0.126
55/12	0.500	122	0.101
55/13	0.500	170	0.051
55/14	0.500	173/6	0.025
584/1/5	0.250	531/1	0.063
55/15	0.500	9/2	0.388
55/16	0.101	76/3	0.561
56	0.126	82/2	0.695
35/1	0.067	160/1	0.045
29	0.304	193	0.038
215/1	0.032	531/2	0.063
376	0.025	614/18	1.000
377	0.089	9/3	0.387
504	0.291	76/1	0.560
513	0.468	82/1	0.696
565/2	0.999	160/2	0.044
566/1	1.587	191	0.215
566/2	1.587	531/3	0.064
106/2	0.709	10	0.987
107	0.292	12	1.518
11	0.860	672/4	3.794
142/2	0.013	17/2	1.075
106/1	1.568	42/2	0.760
108/1	0.368	43/2	0.259
28/2	1.166	44/2	0.904
131	0.152	45/2	0.936
124	0.013	53/2	0.961
6	1.088	81/2	0.867
121	0.089	159	0.076

(1)	(2)	(1)	(2)
213	0.101	4/1/1	4.303
361/2	0.127	14	1.429
434/2	0.165	216	0.253
295/2	0.228	380	0.089
431	0.152	419	0.038
57/1/1	1.518	522	0.304
57/1/2	0.770	173/1/1	0.756
363	0.114	206/2	0.038
364	0.051	248/2/1	0.146
387/1	0.089	420	0.076
387/2	0.088	661/2/1	0.404
394	0.076	662	0.531
400/1	0.082	664	0.406
408	0.126	665	0.810
409	0.038	666/1/1	0.958
416/1	0.101	682/1	0.790
417	0.126	173/12/3	0.250
418	0.139	177	0.568
57/2	0.759	176/2	0.379
58	0.936	178	0.164
68/3	1.265	176/1	1.012
87	0.329	173/2/2	0.708
68/1/1	2.668	173/2/3	1.417
68/1/2	1.518	182/2	1.805
155	0.101	183	0.466
156	0.025	184	1.058
68/4	2.539	185	3.022
68/5	2.539	435/2	0.057
68/6	4.047	436/2	0.082
88	0.317	439	0.051
68/8	1.770	18/2	2.024
70/1/1	0.400	59	0.810
70/1/12	0.500	298/2	0.309
70/1/2	0.300	299	0.759
70/1/12	0.500	434/2	0.165
70/1/3	0.300	526	0.253
70/1/4	0.500	19	0.304
453	0.063	80/2	0.140
485/3	1.328	674/2	1.213
2	0.860	21/1	0.105
218	0.810	22/2	0.160
381	0.114	24/1	0.506
3	1.543	21/2/1	0.217
13	1.088	181/5/1	1.357

(1)	(2)	(1)	(2)
21/2/2	0.217	77/1/2	0.500
181/5/2	1.357	181/7/1	1.012
21/2/3	0.217	78/1	0.429
181/5/3	1.357	79	0.559
21/3	0.652	334/3	0.165
22/3	0.006	509	0.253
24/3	0.853	510	0.126
211/2	0.026	224	0.063
21/4	0.107	227	0.114
22/4	0.190	228	0.101
24/4	0.506	382	0.076
211/3	0.025	393	0.230
26	0.961	396	0.049
164	0.278	397	0.003
165	0.013	384	0.003
500	0.203	98	0.139
28/1	1.227	369	0.101
70/1/14	0.500	371	0.023
70/1/5	0.400	89	0.326
70/1/6	0.100	23	0.015
584/1/1	0.150	20	1.821
70/1/7	0.500	89	1.632
70/1/16	1.000	212	0.038
70/1/8	0.500	499	0.202
70/19	1.000	608	1.316
70/1/9	0.500	609	0.860
70/1/10	0.500	611	0.051
70/1/13	1.000	612	0.607
70/1/15	0.500	613	0.708
584/1/19	0.400	119	0.025
70/1/17	1.000	614/16	1.000
70/1/18	1.000	132	0.076
70/1/20	0.500	136	0.025
70/1/21	0.500	222	0.025
70/1/22	0.500	406	0.013
70/1/23	0.215	407	0.025
614/6/2	0.254	139	0.025
71	1.986	140/1	0.237
74	0.240	140/2	0.238
216	0.253	140/3	0.237
321	0.177	140/5	0.013
330	0.253	527	0.557
77/1/1	0.500	559/2	2.624
584/1/2	0.250	28/3	1.987

(1)	(2)	(1)	(2)
30	1.075	546	0.126
31	1.012	118	0.139
220	0.038	191/2	1.618
315	0.417	536	0.202
400/2	0.132	541/2	0.142
653	1.796	575	0.822
654/16	0.506	596	0.544
38	0.519	597	1.531
83	0.746	186	1.505
85	0.139	187/1/1	0.253
114	0.164	187/3	0.228
154	0.051	243	0.772
214	0.063	647	0.202
661/2/2	0.405	654/14	1.947
666/1/2	0.958	660/2	0.253
173/3	3.023	661/1	0.810
173/5	0.051	666/2	0.958
534	0.152	682/3	0.396
615/8	2.530	683	0.493
654/7/2	2.023	684/8	3.794
173/8	0.243	191/1	0.430
173/9	0.126	142/1	0.012
684/3	3.794	594	0.253
173/10	0.253	595	0.822
173/12/1	0.500	147	0.114
173/12/2	0.500	149/2	0.120
173/13	1.260	150	0.228
173/14	0.460	173/7	0.126
173/15	0.140	508	0.152
584/1/6	0.360	672/2/1	1.059
173/16	0.038	151	0.076
80/1	1.794	152	0.063
86	2.415	157	0.202
402	0.013	158/1	0.038
405	0.405	162	0.063
414	0.329	273	0.557
422	1.670	352	0.076
92	0.240	446	0.063
95	1.341	486	0.139
96	1.012	635	0.557
501/2	0.050	158/2	0.025
105/1	0.392	159/2	0.012
116	0.139	163	0.266
120	0.063	194	0.126

(1)	(2)	(1)	(2)
614/11	1.000	400/1	0.038
614/12	1.000	497/1	0.127
614/25	1.000	191/3	1.012
169/2	0.025	198	0.013
172	0.076	207	0.253
173/4	0.101	497/2	0.126
176	0.038	199	0.126
668/2	0.760	256	0.076
669	0.089	261	0.126
670	0.228	270	2.061
671	1.025	292	0.152
173/17	0.063	324	0.265
173/18	0.039	328	0.152
173/19	0.500	553	0.063
173/20	0.500	556	0.240
173/21	0.500	557	0.417
173/22	0.500	576	0.683
181/1/1	2.024	587	0.742
564/2	1.442	598	1.202
181/1/2	2.024	599	0.961
181/2	1.012	634	0.632
260	0.253	645	0.797
289	0.215	648	0.696
181/3	5.059	649	1.063
181/6	1.012	200/1	0.038
615/4	0.885	203	0.089
654/17	2.086	237	0.265
181/7/2	1.011	268/2	1.593
181/8	1.619	637/1	0.803
181/10	0.278	644/1	0.423
187/1/2	0.253	202/2	0.019
188	1.732	205/2	0.050
189	0.089	258	0.215
204/1	0.038	259	0.342
242	0.114	268/1	0.759
249	0.215	173/1/2	1.511
254/1	0.107	206/1	0.038
266/1	0.101	248/2/2	0.145
239/1	1.038	262	0.114
271/2	1.012	263	0.164
293	0.089	349	0.190
359	0.215	601/1/1	1.044
388	0.101	605	1.214
389	0.126	606	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
607/1	0.506	237/3	0.265
201	0.089	239/2	0.025
287/1	0.019	246	0.228
288	0.987	247	0.063
306	0.152	248/1	0.202
307	0.063	264	0.202
309	0.342	265	0.152
325	0.329	350	0.076
326	0.152	489	0.101
327	0.089	490	0.025
137	0.063	601/2	1.043
151	0.114	657	0.632
252	0.101	658	0.632
256	0.101	660/3	0.253
294	0.329	663	0.454
640	0.794	430	0.038
641	1.012	637/2	0.297
642	1.164	639	0.506
643	0.430	644/2	0.424
655	0.101	652/2	0.361
204/2	0.051	200/3	0.019
266/2	0.101	205/1	0.025
269/2	0.632	519	0.202
354	0.013	589	1.417
355	0.240	592	0.253
401/2	0.038	255	0.177
403	0.190	290	0.137
404	0.342	295/1	0.228
441	0.089	286	0.303
505	0.013	271/1	1.011
506/1	0.046	278	0.772
506/2	0.055	283	0.089
507	0.025	281	0.152
525	0.265	492	0.190
535	0.089	491	0.101
215/2	0.031	667	1.695
529	0.114	285	0.228
530	0.250	296	0.860
549	0.152	297/2/2	0.253
565/1	0.999	346	0.317
237/2	0.379	523	0.304
302	0.215	524	0.190
308	0.342	298/1	1.037
310	0.329	300	0.126

(1)	(2)	(1)	(2)
304	0.152	254/2	0.072
571	0.860	254/3	0.036
572	0.342	614/7	1.000
316	0.342	614/8	0.500
320	0.190	614/9	0.500
423	1.416	614/10	1.000
429	0.126	614/13	2.000
432	0.304	614/14	1.000
451	0.190	614/15	0.500
564/1	0.442	614/19	0.500
580	0.405	614/20	1.000
681	1.025	614/22	1.000
398	0.051	614/23	1.500
411	0.304	614/24	2.000
412	0.228	167/1	0.228
413	0.076	614/21	1.000
415	0.240	615/1	0.253
569	0.734	615/9	0.506
570	0.885	654/4/1	2.361
416/2	0.101	684/1	1.518
614/17	1.000	615/2	0.253
427	0.303	654/3	1.012
428	0.101	672/1	2.023
603	0.379	676	0.860
604	0.417	615/6	3.829
434/3	0.008	615/7	1.265
436/3	0.040	481	0.139
449	0.202	652/1	0.360
560	1.960	654/4/2	1.180
501/1	0.051	332	1.113
503/1	0.088	322	0.152
553	0.063	16	1.972
533/1	0.126	385	0.164
558/2	0.323	390	0.190
533/2	0.500	391	0.089
552	0.038	392	0.013
558/1	0.322	679/7	0.759
537	0.051	679/4	2.276
538	0.202	679/5/1	0.935
666/3	0.958	679/5/2	1.518
682/2	0.395	679/6	0.582
241	0.051	680	3.465
244	0.190	684/2/2	0.823
245	0.051	684/6	1.265

(1)	(2)	(1)	(2)
684/7	0.569	672/5/2	0.759
685/1	0.949	674/1/1	0.380
685/2	0.733	674/1/1	0.380
686/1	3.337	674/1/2	0.506
686/2	0.696	675	1.518
686/3	0.039	678/1	1.100
584/1/16	3.000	678/2	1.265
584/1/17	0.500	284/1/10	0.300
584/1/18	0.500	584/1/11	0.500
614/2	2.000	584/1/12	0.490
614/3	2.000	584/1/13	0.500
614/4	1.049	584/1/14	0.500
614/5	1.150	584/1/15	0.500
614/6/3	0.500	योग . .	514.965
614/6/4	0.500		
614/6/5	0.500	ग्राम-उदपुरिया	
614/6/6	0.500	3/4/1	2.000
614/6/7	1.000	79/1	0.341
673	0.144	3/8/1	2.415
539	0.076	76/1	0.329
540	0.114	3/8/2	1.000
545	0.228	3/13	0.506
561	2.213	108/26	2.744
654/12	1.391	3/14/1	2.100
654/13	0.632	3/19	3.035
573/1	2.023	36	0.101
554/10	1.265	44	0.050
573/2/2	2.181	56	0.063
573/3	0.734	125	0.569
584/1/8	0.400	170	0.253
584/1/9	0.300	171	0.126
672/5/3	1.922	11	0.089
654/5	0.885	12	0.152
654/6	1.644	18	0.101
672/6	1.518	193	0.417
654/7/1	0.506	194	1.353
654/8	2.529	198	1.607
654/9	5.564	60	0.051
684/2/1	0.442	3/4/2	0.149
668/1	0.252	3/17	0.506
672/2/2	0.482	122	0.063
679/3	1.518	199	0.860
672/2/3	2.000	13	0.101
672/5/1	0.595	108/5/6	1.600

(1)	(2)	(1)	(2)
207	0.013	72	0.126
208	1.290	74/1	0.196
108/5/1/7/5	0.150	92/1	0.114
108/5/1/7/10	0.110	94/2	0.038
108/5/1/7/2	0.250	96/2	0.012
108/5/1/7/1	0.250	101/3	0.174
3/15	3.288	127/1	0.930
8	0.215	128/2	1.524
147/1	0.012	129/3	0.177
184/2/1	0.109	138/1	0.329
3/10	2.276	147/3	0.013
15	0.063	184/4	0.221
108/7	0.329	9	0.114
108/8	0.291	19	0.164
108/9	0.759	31	0.051
111/3	0.543	58	0.051
111/7	0.253	62	0.114
117	0.405	66	0.164
119	0.114	80	0.151
120	0.202	82	0.202
123	0.492	136	1.203
124	0.202	141	0.101
210/1	0.059	142	0.114
237/1	0.185	156	3.465
16	0.190	162	0.329
32/1	0.033	163	0.987
230/1	0.418	164	0.696
106/2	0.082	185	0.569
108/3/1	1.200	186	0.038
108/3/2	1.200	215	0.721
108/5/7	1.700	216	0.885
108/16	2.023	223	0.531
108/17	1.518	246	2.010
108/5/1/3	2.000	250	0.582
108/5/10	1.400	108/5/1/4	1.500
108/20	3.832	108/5/1/5	1.500
22/1	0.025	135/2	0.203
22/2	0.051	217	0.506
29/1	0.095	233/1	0.157
30/3	0.147	105/3	0.089
63/1	0.013	109	0.139
69/1	0.025	112/3	0.333
70/2	0.051	33	0.279
71/1	0.012	75/2	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
81/1	0.013	101/2	0.174
140/1	0.051	108/5/1/1	2.000
146	0.063	127/4	0.930
154/2	1.674	128/1	1.524
166/2	0.030	128/4	1.524
167/2	0.821	129/4	0.177
168/2	0.150	138/2	0.329
169/1	0.397	147/4	0.013
178/2	0.657	184/3	0.221
181/2	0.025	221/1	0.466
190/2	0.215	224/2	0.220
191/1	0.177	225	1.265
241/2	0.189	226/2	0.310
245/2	0.260	235/2	0.272
20	0.215	118	0.999
35	0.139	134/5/1	0.237
81/2	0.253	3/7	2.276
140/2	0.050	4	0.038
154/1	1.673	5	0.013
167/3	0.700	6	0.164
168/3	0.018	10	0.126
169/3	0.680	37	0.101
191/2	0.392	87	0.202
192	0.873	88	0.126
241/3	0.191	102	1.885
245/3	0.262	108/1	2.276
106/1	0.082	131	0.152
200/1	0.392	177	0.645
219/1	0.341	189	0.607
220	0.835	108/21/1	1.771
224/1	0.113	111/8/1	0.190
226/1	0.310	3/5	1.771
227	0.442	79/2	0.190
228	0.506	108/6	0.190
28	0.126	111/2	0.379
29/2	0.095	134/3	0.708
63/2	0.012	134/4	0.328
69/2	0.026	242	1.176
71/2	0.013	247/2	0.089
73	0.127	108/2	0.559
74/2	0.196	11/4	0.253
89	0.304	130/1	0.695
91/1	0.171	111/6	0.759
93/2	0.044	3/12	1.075

(1)	(2)	(1)	(2)
108/5/12/1	0.849	210/2	0.295
32/2	0.033	108/5/12/2	0.527
34	0.253	76/3	0.089
75/1	0.253	108/25	2.605
90	0.253	3/6	3.857
139	0.089	23/1	0.025
148	0.063	23/2	0.089
154/3	1.674	24	0.430
166/1	0.008	51	0.114
167/1	0.350	52	0.051
168/1	0.200	53	1.922
169/2	1.110	54	0.240
178/1	0.594	59	0.304
181/1	0.089	61	0.126
190/1	0.392	76/4	0.101
241/1	0.189	107	1.316
245/1	0.261	3/16	3.035
108/5/1/7/17	0.240	108/5/1/6	1.000
108/5/1/7/18	0.240	108/5/1/2	2.000
3/18	3.288	126	0.443
39	0.063	3/20	1.025
172/1	0.219	30/2	0.148
205	0.063	43	0.038
209	0.884	64	0.013
38	0.076	94/1	0.038
47	0.038	95/1	0.095
55	0.063	96/1	0.013
98	0.101	101/4	0.174
108/13	1.012	11/9	1.075
46	0.038	129/2	0.177
130/2	1.265	147/2	0.013
218	0.354	180	0.379
79/3	0.506	184/1	0.222
84	0.114	221/2	0.267
85	0.266	222/1	0.699
108/5/9	1.700	231	0.076
57	0.089	232	0.126
108/5/5/1	0.324	235/4	0.370
134/1	0.506	233/2	0.020
201	0.405	108/5/11	1.700
108/15	1.012	3/14/2	0.410
134/2	0.898	111/5/1	0.506
202	1.012	3/14/3	0.411
204	0.101	11/5/2	0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
3/11	3.630	108/29/1	0.506
30/1	0.147	108/28/2	0.500
48	0.101	108/29/2	0.500
49	0.126	108/30	0.506
50	0.089	115	0.089
172/2	0.110	114/2	0.505
3/9	2.276	134/5/3	0.122
214	0.455	111/1	0.700
127/3	0.929	70/1	0.050
108/5/1/7/6	0.150	91/2	0.171
108/5/1/7/4	0.150	101/1	0.174
108/5/2	1.375	129/1	0.177
108/5/1/7/7	0.250	108/5/1/7/11	0.110
108/4/1	0.180	108/5/1/7/12	0.240
42/1	0.038	108/5/1/7/14	0.110
108/5/5/2	0.325	108/5/1/7/15	0.110
108/22/4	0.200	108/5/1/7/19	0.500
134/1/2	0.505	108/5/4	0.100
108/5/1/7/1	0.240	108/5/5/3	0.325
108/5/1/7/8	0.110	108/22/3	0.201
42/2	0.040	108/10	0.518
108/5/5/4	0.325	108/11	0.500
134/1/4	0.506	108/12	0.139
108/22/4	0.200	134/6	0.708
108/5/1/7/16	0.240	108/14	0.500
108/5/8	1.600	108/18	1.500
121	1.316	108/21/2	1.000
17	0.190	133	0.101
27	0.443	187	0.342
99	0.114	188	3.377
100	0.165	203	0.164
104	1.606	236	0.481
145	0.127	237/2	0.092
149	0.051	238	0.228
151	0.076	239	0.051
153	1.921	240	0.600
111/8/2	0.189	243	0.430
112/1	0.333	244	0.544
113	0.165	247/1	1.159
114/1	0.500	248	0.101
134/5/2	0.236	249	0.822
108/22/2	0.500	108/22/1	0.500
108/24	1.000	108/4/2	0.180
108/28/1	0.253	108/4/3	0.155

(1)	(2)	(1)	(2)
108/5/1/7/3	0.250	266	0.051
108/5/1/7/9	0.110	3/4	0.506
योग . .	208.643	3/8/1	0.158
ग्राम-कोलूखेड़ा		5	0.873
465/2	1.264	221/2/5	0.015
3/2/1	1.012	335/2/4	0.046
3/3/1	0.753	336/2/4	0.118
464	0.379	339/2/4	0.148
465/1	0.885	340/2/4	0.068
410/2/1	0.030	342/2/4	0.062
220/2/2	0.057	343/2/4	0.024
336/2/2	0.118	368/2/5	0.240
157/2/5	0.061	385/2/5	0.045
220/2/5	0.056	410/2/4	0.027
196/2/2	0.073	368/2/5	0.240
197/2/2	0.010	201/3	0.034
198/2/2	0.004	207/3	0.034
249/2/2	0.098	311/2	0.577
320/2/2	0.041	475/3	0.078
3/3/3	0.590	476/1/3	0.401
277/3	0.084	476/2/3	0.126
278/3	0.449	475/3	0.078
279/3	0.253	151/1/1/3	0.139
280/3	0.000	151/2/3	0.545
285/3	0.337	65/3	0.177
288/3	0.078	68/3	0.110
299/3	0.226	207/4	0.034
302/2	0.063	311/3	0.577
378/3	0.384	475/4	0.068
379/3	0.070	376/1/4	0.402
395/3	0.100	476/2/4	0.127
396/2	0.012	474/2	0.411
397/2	0.043	331/2/2	0.164
292/2	0.333	332/2/2	0.029
235/3	0.500	334/2/2	0.481
275/2/1	1.067	403/2/2	0.023
423/2	1.018	43/4	0.180
424/2	0.089	44/3	0.183
264/2	0.105	45/1	0.050
3/8/2	0.158	47/1	0.089
6	1.531	128/1	0.586
7/2	0.310	129/1/1/1	0.375
364/1	0.036	129/1/1/5	0.100
		129/1/1/10	0.063

(1)	(2)	(1)	(2)
129/2/1	0.348	151/1/1/4	0.140
129/3/1	0.215	151/2/4	0.548
136/2	0.758	53/2	0.164
333/2/2	0.261	64	0.013
149/4/2/2	0.759	65/2	0.177
4/487/1	0.361	68/2	0.110
314/1	0.212	119/1	0.331
369	1.349	151/1/1/2	0.278
466	1.417	151/2/2	0.593
467/1	1.101	53/1	0.164
467/2	1.943	65/1	0.177
468	1.265	68/1	0.109
300/1	2.023	69	0.025
295/3	1.070	74/1	0.221
51	0.063	201/1	0.033
56	0.051	151/1/1/1	0.278
7/1	0.311	151/2/1	0.843
264/3/2	0.096	207/1	0.067
417/14	0.253	311/1	0.894
129/488/1	0.506	389/1	0.072
129/488/2	4.237	475/1	0.136
54/3	0.030	476/1/1	0.402
347/2	0.439	476/2/1	0.253
314/2/2	0.037	155/2	0.506
9	0.544	156	0.721
10	0.342	159/1/1	0.133
12/1	0.400	306	1.505
13/1	0.401	401/1	0.034
61	0.126	57	0.025
162/2	0.120	162/1	0.171
54/485	0.089	421/11	1.265
166/1/2	0.027	379/491	0.784
312/2/1/2	0.485	254/1	0.019
456/1/2/2	0.152	421/7	3.035
456/2/2/2	0.063	164/3	0.009
470/1/2	0.160	330/2	0.879
153/5/2	0.127	338/1/2	0.253
166/1/3	0.028	338/2	0.759
312/2/1/3	0.485	187/2/1	0.060
456/1/2/3	0.152	188/2/1	0.035
456/2/2/3	0.063	189/2/1	0.009
470/1/2	0.160	190/2/1	0.015
153/2/1	0.506	191/2/1	0.016
153/5/2/3	0.126	192/2/1	0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
196/2/1	0.072	457/2	1.966
197/2/1	0.009	458/2	0.481
198/2/1	0.003	3/9/2	2.529
249/2/1	0.098	452/2	0.284
320/2/2/1	0.041	401/3/1	0.013
331/2/1	0.165	251/1	0.078
332/2/1	0.028	259/1	0.133
334/2/1	0.480	376/1	0.430
307/1	0.775	382/1	0.828
314/2/1	0.175	457/1	1.966
333/2/1	0.261	474/1	0.411
149/4/2/1	0.759	452/1	0.285
166/2	0.082	3/9/1	2.530
167/2	0.006	206	0.367
312/2/2	1.454	208	0.658
456/1/1	0.455	209	0.013
456/2/1	0.190	210	0.013
470/2	0.481	211	0.089
473	0.164	216/1	0.141
235/4	0.552	216/2	0.141
238	0.089	245	0.152
239	0.076	316/1/1	0.346
240	0.202	316/1/3/2	0.160
423/1	2.036	319/2	0.253
424/1	0.089	403/1/1	0.022
423/1	1.018	333/1	0.461
235/1/1	0.417	164/2	0.009
236/2	0.645	187/1	0.120
273/2	0.057	189/1	0.019
274	0.557	190/1	0.032
275/1	0.100	191/1	0.031
352/2	0.506	192/1	0.032
422/1	2.331	196/1	0.146
236/1	0.645	191/1	0.019
421/14	1.839	198/1	0.006
422/2/1	1.825	249/1	0.196
472/484	0.607	320/2/1	0.082
273/1	0.057	329/3	0.359
233	0.379	330/1	0.879
235/2	0.200	331/1	0.329
251/2	0.078	332/1	0.057
259/2	0.133	149/4/1	1.517
376/2	0.430	199	0.139
382/2	0.829	303/1	0.759

(1)	(2)	(1)	(2)
316/2	0.506	335/2/5	0.046
338/1/3	0.506	336/2/5	0.118
157/2/4	0.061	339/2/5	0.148
220/2/4	0.056	340/2/5	0.068
221/2/4	0.015	342/2/5	0.062
336/2/3	0.118	343/2/5	0.024
339/2/3	0.148	368/2/6	0.240
340/2/3	0.068	385/2/6	0.045
272/1	0.737	410/2/5	0.027
422/3/1	1.825	166/1/1	0.027
391	0.139	312/2/1/1	0.484
151/4/1	2.845	456/1/2/1	0.152
163/1	0.111	456/2/2/1	0.063
296/3/2	0.227	470/1/1	0.160
316/1/3/1	0.185	153/5/2/1	0.127
264/3/2	0.131	172/2	0.013
373/3/2	0.119	105/2	0.158
374/3/2	0.023	106/3	0.006
375/3/2	0.010	108/2	0.013
364/1	0.261	111/3	0.042
373/1	0.438	342/2/3	0.060
374/1	0.047	343/2/3	0.004
375/1	0.021	368/2/4	0.240
59/1	0.118	385/2/4	0.045
60/1	0.245	410/2/3	0.026
75/1	0.222	248	0.405
77/1	0.042	322	1.859
309/3/1	0.506	323	0.114
157/3	0.120	372	1.708
214/3	0.003	455	2.327
220/3	0.116	157/2/3	0.060
221/3	0.101	220/2/3	0.056
335/3	0.000	221/2/3	0.015
336/3	0.307	335/2/2	0.046
337/3	0.071	339/2/2	0.148
339/3	0.246	340/2/2	0.068
319/4	0.581	342/2/2	0.062
388/1	0.067	343/2/2	0.024
388/2	0.072	368/2/3	0.240
404	0.101	385/2/3	0.045
405	0.114	410/2/6	0.027
157/2/6	0.061	221/1	0.054
220/2/6	0.056	223/1	0.060
221/2/6	0.015	224/1	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
225/1	0.057	243/2	0.082
227/2	0.016	244/1	0.038
228/2	0.133	315/2	0.122
230/2/4	0.073	317/2	0.403
340/3	0.116	380/2	0.172
342/3	0.172	386/2	0.051
343/3	0.038	387/2	0.146
368/3	0.480	390/2	0.032
385/3	0.090	392	0.177
410/3	0.038	298/3	0.337
136/4	0.519	315/3	0.122
15/1/1	0.095	317/3	0.403
214/1	0.003	351/2	0.551
220/2/1	0.116	440/3	0.300
221/1	0.027	187/2/2	0.060
335/1	0.074	188/2/2	0.034
336/1	0.307	421/3/4	0.695
337/1	0.071	421/5/3	0.458
339/1	0.246	52	0.076
340/1	0.116	54/1	0.080
342/1/1	0.120	159/2	0.158
343/1/1	0.033	314/3	0.212
368/1	0.480	369/1	1.349
385/1	0.090	11	0.038
410/1	0.038	12/2	0.410
157/2/1	0.117	13/2	0.200
214/2	0.007	14/1	1.000
221/2/1	0.020	58/1	0.101
335/2/1	0.065	141/1	0.420
337/2	0.073	143/1	0.020
339/2/1	0.248	144/1	0.554
340/2/1	0.124	145	0.063
120/2	0.595	314/3	0.212
121/2	0.088	13/3	0.386
126/2	0.100	14/2	1.237
127/2	0.253	16	0.064
298/1/1	0.313	58/2	0.101
315/1	0.121	141/2	0.428
317/1	0.403	142	0.506
345/1	0.058	143/2	0.069
346/1/1	0.403	144/2	0.053
347	0.114	377/1	0.332
440/1	0.301	378/1	0.400
242/1	0.165	204	0.721

(1)	(2)	(1)	(2)
342/2/1	0.170	454	1.341
343/2/1	0.032	480/2	1.547
368/2/1	0.483	481/2	0.359
385/2/1	0.094	454	1.341
18/1	0.426	260	0.076
20/2	0.016	360	1.594
28	0.253	425	0.063
29/3	0.253	428/1	1.795
462/2	2.422	428/492/1	0.063
175	0.013	202/5/1	0.185
176	0.051	257/1/1	0.016
177	0.051	261/1	0.050
178	0.031	460	0.038
180	0.152	463/2	0.120
3/12	5.311	15/4	0.275
295/2/1	2.330	17/1	0.034
393/1	0.375	348	0.076
298/2	0.337	349	2.187
315/4	0.122	229/3	0.500
317/4	0.404	282/4	0.350
351/1/1	0.480	284/4	0.215
297	1.214	283/490/4	0.269
398/1	0.363	215	0.468
399	0.063	282/1	0.402
400/1	0.049	284/1	0.215
2/1/1	0.357	283/490/1	0.269
3/16/1	2.622	219	0.316
149/3	2.807	229/1	0.200
189/2/2	0.010	282/2	0.401
190/2/2	0.016	284/2	0.215
191/2/2	0.016	283/490/2	0.269
192/2/2	0.016	229/2	0.500
230/2/2	0.073	282/3	0.402
421/3/2	0.696	284/3	0.215
222/4	0.054	283/490/3	0.268
202/3	0.369	308	1.265
258/3	0.063	338/1/1	1.416
327/2	1.000	341/1	2.051
480/1	0.476	427	0.835
481	1.500	429/2/2	0.671
479/2	0.929	438	0.999
202/1	0.256	440/4	0.300
247	0.114	433/2/1	0.026
271/1	0.532	434/2	0.354

(1)	(2)	(1)	(2)
462/1	2.422	417/11/4	0.632
463/1	0.120	165	0.342
106/1	0.007	202/4	0.369
107/1	0.025	257/2	0.031
111/1	0.100	271/2	0.189
113	0.190	370	1.670
114	0.025	469	2.580
126/1	0.379	417/4	2.466
55	0.202	277/2	0.086
408	0.114	278/2	0.149
409	0.873	279/2	0.271
413	0.291	280/2	0.251
414	2.757	285/2	0.337
415	0.139	288/2	0.079
416	1.328	290/1	0.885
154	0.772	299/1	0.226
304/1	1.197	302/1	0.063
303/2/1	1.420	378	0.385
122	0.038	379/2	0.071
183	0.063	395/2	0.101
222/3	0.054	396/1	0.013
223/3	0.060	397/1	0.053
224/3	0.031	174/1	0.076
227/3	0.016	352/1/1	2.060
270/1	0.196	213	0.038
271/3/1	0.120	253	0.025
367/1	0.942	277/4	0.085
401/2	0.035	278/4	0.178
417/3/1	3.161	279/4	0.538
304/1	1.197	285/4	0.338
202/5/2	0.184	288/4	0.079
257/1/2	0.016	299/2	0.326
261/2	0.051	302/3	0.063
270/2	0.196	378/2	0.383
271/3/2	0.120	379/4	0.070
367/2	0.942	395/4	0.100
417/3/2	3.162	228/3	0.133
267/1	0.112	231	0.164
269/1	0.094	421/3/3	0.696
381/3	0.241	223/4	0.060
394/3	0.028	224/4	0.031
431/1	0.386	226	0.013
432/4	0.756	227/4	0.016
417/10/2/3	0.404	228/4	0.133

(1)	(2)	(1)	(2)
94	0.152	319/1/3	0.422
95	0.316	324/2/3	0.101
96	0.240	325/1/3	0.195
97	0.013	328/2	0.554
99	0.063	396/3	0.011
100	0.013	397/3	0.043
130	0.354	371	0.139
134	0.164	33	0.063
138	0.342	184	0.013
139	0.506	27	0.304
140	1.442	92	0.051
133/2	0.316	93	1.493
295/4/1	1.500	3/10/5	0.758
3/1/8	1.625	421/9/5	0.810
72	0.063	453/5	0.567
73	0.266	432/473/5	0.164
254/2	0.019	292/3	0.111
421/13	2.023	421/4/2/4	0.125
63	0.190	70/2	0.082
200	0.164	71/2	0.045
263	0.076	75/2	0.221
309/1	4.679	353	1.214
212	0.025	362	0.961
217	0.253	363	0.595
218/1	0.013	83	0.202
229/1	0.608	84	0.025
281/1	0.066	85	0.228
283/1	2.220	87	0.114
431/2	0.386	98	0.063
432/2	0.755	102	0.152
417/10/2/1	0.404	103	0.304
417/11/2	0.632	104	0.013
433/1/2	0.253	286	0.835
3/1/10	2.000	287	0.253
277/1	0.132	365/1	1.435
278/1	0.275	76	0.481
279/1	0.400	256/1	0.018
280/1	0.250	326/1/1	0.058
285/1	0.506	453/1	0.566
288/1	0.118	256/3	0.018
299/4	0.342	3/10/1	0.759
279/1	0.105	421/9/1	0.809
295/1	0.158	430/1	0.674
268/3	0.074	453/1	0.566

(1)	(2)	(1)	(2)
432/473/1	0.165	115	0.038
268/2	0.073	116	0.076
319/1/2	0.422	131	1.240
324/2/2	0.101	132	0.670
325/1/2	0.195	133/1	0.253
328/1	0.635	451	1.884
328/2/2	0.169	185/1	0.026
430/2	0.674	185/2	0.025
3/10/2	0.759	412/2	0.253
256/2	0.018	354	0.949
268/2	0.073	101	0.139
319/1/2	0.422	264/1	0.105
324/2/2	0.101	146	0.152
325/1/2	0.195	147	0.430
328/1	0.635	148/1	1.703
428/2/2	0.169	173	0.013
329/2	0.081	19	0.114
428/2/3	0.169	105/3	0.079
430/3	0.675	106/4	0.006
453/3	0.567	108/3	0.012
326/1/3	0.057	110	0.013
3/10/3	0.759	111/4	0.083
421/9/3	0.809	112	0.025
453/3	0.567	120/3	0.202
432/473/3	0.164	121/3	0.089
256/4	0.018	123	0.013
268/4	0.074	124	0.038
320/1/2	1.081	126/3	1.115
324/2/4	0.101	430/2	0.674
325/1/4	0.196	453/2	0.566
383/2	0.512	326/1/2	0.058
384/2/1	0.059	421/9/2	0.809
384/3	0.118	453/2	0.566
411/3	0.033	432/473/2	0.165
412/1/2/1/2	0.008	267/4	0.112
412/13	0.068	269/2	0.095
453/4	0.567	325/2/1	0.379
326/1/4	0.057	381/2	0.240
3/10/4	0.759	394/2	0.029
421/9/4	0.810	429/1	0.506
453/4	0.567	86/1	0.044
432/473/4	0.164	43/1	0.181
256/5	0.018	44/4	0.183
268/5	0.073	45/3	0.376

(1)	(2)	(1)	(2)
46	0.051	227/1	0.015
48/3	0.021	228/1	0.132
49/3	0.059	230/2/1	0.072
128/2	0.500	421/51/1	0.695
129/1/1/2	0.375	421/5/4	0.459
129/1/1/6	0.100	39/1	0.747
129/1/1/9	0.063	41/1	0.993
129/2/4	0.348	42/1	0.228
129/3/2	0.215	267/2	0.130
149/2/1	0.274	269/4	0.095
4/487/3	0.361	381/4	0.240
43/3	0.180	394/4	0.028
320/1/1	1.081	431/4	0.850
324/2/5	0.101	432/1	1.135
325/1/5	0.196	417/11/1	0.633
383/1	0.513	421/8	1.012
384/1	0.118	267/3	0.112
384/2/2	0.059	269/3	0.095
411/1	0.034	325/2/2	0.035
411/2/2	0.017	381/1	0.240
412/1/1	0.067	394/1	0.028
412/1/2/3	0.008	431/3	0.383
453/5	0.567	432/3	0.756
326/1/5	0.057	433/2/2	0.417
336/2/6	0.118	44/2	0.184
349/2/6	0.148	45/4	0.375
340/2/6	0.068	47/3	0.044
342/2/6	0.062	48/2	0.021
343/2/6	0.024	49/2	0.059
367/2/7	0.240	128/4	0.500
385/2/7	0.045	129/1/1/4	0.375
410/2/7	0.027	129/1/1/8	0.100
169	0.126	129/1/1/12	0.062
202/2	0.704	129/2/3	0.347
203	0.266	129/3/4	0.215
258/2	0.034	149/2/3	0.274
321	2.000	4/487/2	0.360
327/1	0.934	89	0.013
478	0.468	90	0.632
151/6/1	4.799	91	1.682
222/2	0.053	117	0.759
223/2	0.060	135	0.708
224/2	0.032	119/2/1	0.656
225/2	0.057	151/3/1	0.253

(1)	(2)	(1)	(2)
417/6/4	0.379	292/1	0.075
151/3/2	0.506	294/2	0.200
309/4/1	2.000	421/4/2/2	0.125
54/2	0.156	295/5/1	1.470
70/1	0.082	153/4	0.253
71/1	0.044	417/12	1.265
310	0.632	421/6	0.443
475/2	0.135	437	1.480
417/7/1	4.969	296/2	0.455
417/9	4.047	316/1/2	0.346
479/1	0.437	364/2	0.261
455/494	0.949	373/2	0.439
171	0.164	373/3/1	0.320
305/1	0.810	374/2	0.046
313	4.642	375/2	0.021
309/2	0.759	412/1/2/1	0.051
172/1	0.012	59/2	0.118
105/1	0.079	60/2	0.245
106/2	0.006	77/2	0.042
107/2	0.013	309/3/2	0.506
108/1	0.013	476/1/2	0.402
109	0.025	476/2/2	0.253
111/2	0.041	201/2	0.034
120/1	0.202	207/2	0.067
121/1	0.089	74/2	0.222
125	0.051	155/1	0.051
127/1	0.126	82	0.481
153/1/2	1.518	157/2/2	0.060
149/1/7/1	0.760	221/2/2	0.015
182	0.063	368/2/2	0.240
194	0.493	385/2/2	0.045
195	0.114	410/2/2	0.027
242/2	0.164	157/2/7	0.061
243/1	0.082	220/2/7	0.056
244/2	0.038	221/2/7	0.015
298/4	1.011	335/2/6	0.046
326/2	0.092	40/2	0.247
417/10/2/2	0.404	78	0.354
417/11/3	0.632	79	0.101
428/492/2	1.265	80	0.025
291/1	0.375	421/4/1	3.035
294/1	0.008	429/2/1	0.379
452/1	0.285	433/1/1	0.190
291/2	0.283	434/1	0.354

(1)	(2)	(1)	(2)
444	1.354	34	0.089
458/1	0.480	35	0.215
3/5/1	5.221	36	0.114
6	1.531	37	0.683
315/5	0.487	417/1/5	1.000
317/5	1.612	417/1/6	1.500
318	0.190	417/1/7	1.000
346/2/1	0.590	417/1/8	1.000
380/1/1	0.151	417/1/9	1.000
386/1	0.050	417/1/10	1.000
387/1	0.146	417/1/11	1.000
390/1	0.031	417/1/3	1.000
440/2	0.300	417/1/14	1.500
440/5	1.201	417/10/1	0.053
250	0.126	417/5/3	1.750
433/3	0.732	417/5/4	1.846
435	0.506	7/3	0.310
436/1	6.486	8	1.075
262	0.051	3/6/4	2.277
361	0.455	15/1	0.275
129/3/3	0.215	17/2	0.034
149/2/2	0.274	18/2	0.426
4/487/4	0.360	20/1	0.035
59/3/2	0.059	23/3	0.231
60/3/2	0.122	2/1/1	0.357
77/3/2	0.021	15/2	0.276
309/3/4	0.253	17/3	0.033
119/2/2	0.301	18/3	0.426
119/2/3	0.356	21/1	0.494
136/1	0.494	22/1	0.044
137	0.278	23/2	0.232
149/1/1/1	1.440	24	0.013
296/3/1	0.228	29/1	0.253
364/3/1	0.131	31/1	0.114
374/3/1	0.023	38/1	0.234
375/3/1	0.011	2/1/4	0.357
59/3/1	0.059	15/3	0.275
60/3/1	0.122	21/2	0.493
77/3/1	0.021	22/2	0.045
309/3/3	0.253	23/1	0.463
365/2	0.499	29/2	0.253
366	0.936	31/2	0.114
389/2	0.004	38/2	0.234
62	0.152	118	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
459	1.075	149/1/2/1	1.250
423/2	2.036	149/1/3	1.000
3/1/1	1.978	149/1/4	1.000
3/1/4	1.526	149/1/5	1.000
3/1/5	1.526	459/1/6	1.000
3/1/6	1.625	149/1/8/2	1.420
3/1/7	1.625	151/5	2.782
3/1/9	1.000	417/1/1	1.000
3/6/1	1.264	417/1/2	1.000
421/12	0.253	417/1/3	1.500
3/6/2	1.012	417/1/4	1.000
3/7/2	1.897	42/2	0.227
3/7/1	1.897	2/1/2	0.357
3/11/1	1.463	25	0.642
3/11/2	1.463	26	0.164
3/11/3	1.463	30	0.559
3/13	6.070	39/2	0.746
153/2/2	0.506	40/1	0.246
472	0.481	41/2	0.992
470/495/2	0.537	129/1/1/11	0.062
153/5/1	0.379	129/2/2	0.348
153/3	1.518	436/2	1.265
129/1/17	0.100	2/1/5	0.708
421/1/2	2.000	2/2	0.721
421/1/3	2.000	3/3/2	0.590
421/1/5	1.500	3/6/3	0.253
421/1/6	0.500	3/11/4	1.465
417/13	1.770	3/14	3.351
417/5/5	1.628	129/1/1/3	0.375
417/6/1	0.633	86/2	0.045
417/6/2	0.632	43/2	0.180
417/6/3	0.632	44/1	0.184
417/8	4.047	45/2	0.375
421/4/2/3	0.125	47/2	0.044
421/10/1	1.349	48/1	0.021
421/10/2	1.349	49/1	0.059
421/10/3	1.349	128/3	0.500
421/15	5.059	योग . .	532.380
422/2/2	0.506	ग्राम-शाहपुरिया जागीर	
422/3/2	0.506	17/2/1	0.139
184/489	2.402	17/2/3	0.379
470/475/1	0.537	16/2	1.265
3/15	5.059	17/4	2.276
3/17/1	0.684	18	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
19	1.012	172	0.063
51	3.035	174/1	0.519
53	0.784	175	0.607
103/1/12	0.558	178	0.544
150	0.063	179	0.126
168	0.278	191	0.379
169	0.569	192	0.051
173	0.190	31/1/1	1.575
180	1.265	186	0.076
181	0.089	103/1/1	0.563
183	0.506	103/3	1.770
184	0.190	174/2	0.253
185	0.500	33/1/5	1.778
7/1/1	0.987	193/1/2	1.746
10/3/5	1.265	32/2/2	0.759
7/1/2	3.308	103/1/8	0.558
10/3/7	2.500	103/1/2	0.558
39	2.086	125/2	0.177
127	0.164	14/4	1.644
128	0.190	42/4	0.506
129	0.266	52/2	0.342
7/2	0.506	61	0.812
23/1/2	0.636	62	0.101
24	0.215	154	0.089
25/1	0.506	162	0.101
26	0.772	163	0.367
27	0.190	165	0.025
167	0.164	33/1/3	1.224
176	0.367	36/1/2	1.012
7/3	0.809	103/4	0.722
73/2	0.190	103/2	1.720
77	0.215	35/3	1.772
79	0.172	38/1	0.506
80	0.064	40	0.608
81	0.094	42/2	0.506
110	0.291	9/1	0.395
142	0.405	9/2	0.478
146	0.139	10/4	0.411
147	0.190	11/2	0.804
151	0.772	12/2	0.101
171	0.025	9/3	0.530

(1)	(2)	(1)	(2)
10/1	0.842	152	0.063
10/2	0.196	156	0.202
12/3	0.605	158	0.114
12/4	0.506	103/1/4	0.058
13/2	0.435	103/1/6	0.558
13/3	0.122	103/1/7	0.558
9/4/1	1.283	103/1/9	0.558
9/4/2	0.600	57	0.139
9/4/3	1.200	58	0.266
9/4/4	0.491	65	0.316
9/4/5	1.200	67	0.405
9/6	0.577	153	0.063
9/17	0.137	159	0.190
10/7	0.379	160	0.126
11/1	0.658	170	0.177
12/1	0.101	14/2/2	1.232
12/5/2	4.000	196/1/5	1.555
13/1	0.036	12/5/1	2.070
9/15	0.922	14/2/1	0.127
12/6	0.632	125/1	0.177
14/3	1.455	23/2	2.529
31/1/4	1.771	134	0.063
32/1	5.059	135	0.051
32/2/1	0.759	137	0.051
33/1/1	1.575	138	0.114
33/1/2	1.575	190	0.266
33/1/4	1.224	196/1/3	0.553
33/1/6	1.695	96/1/14	0.553
33/1/7	2.000	9/8	0.152
33/1/8	2.000	9/10	0.152
33/2	2.528	9/12	0.152
181/2	1.395	9/13	0.152
35/5	1.770	9/14	0.152
35/6	1.070	9/16	0.152
36/1/1	1.012	10/3/2	1.000
36/2	2.276	10/3/3	1.000
42/3	0.506	10/3/4	1.000
103/1/10	0.537	10/3/6	3.035
68	0.262	11/3/2	1.000
76	0.126	11/3/3	3.794
123/1/11	0.558	12/5/3	6.070

(1)	(2)	(1)	(2)
13/4/2	1.417	23/2	0.759
13/4/3	2.024	122	0.518
14/1/1	6.070	133	0.089
14/1/2	6.070	30	0.418
14/2/3	0.253	38/2	2.668
14/5	1.265	42/1	1.113
16/5	2.783	35/7	4.553
16/3	4.793	196/1/6	0.532
20	1.973	35/4	2.023
35/8	5.000	196/1/8	0.434
37	2.289	31/1/3	0.906
45	0.379	182/1	0.818
46	0.063	7/4	0.759
47	0.215	9/5	0.706
48	0.013	9/7	0.364
60	0.334	17/2/2	0.417
63	0.089	103/1/5	0.558
70	0.569	17/2/4	0.330
74	0.810	22/2	0.632
106	0.538	10/5	0.190
104/1	0.044	10/6	0.095
105/1	0.089	13/6	0.607
107/1	0.041	13/7	0.202
108/1	0.139	13/8	0.126
111/1	0.063	52/1	1.770
104/2	0.133	59	0.025
105/2	0.265	64	1.518
107/2	0.123	71	0.379
108/2	0.443	72	0.190
111/2	0.190	75	0.126
121/1/2	1.000	9/9	0.653
121/2	1.742	9/11	0.455
123	0.278	5	3.650
136	0.152	योग . .	210.892
140	0.051	कुल योग . .	2610.181
141	0.126		
193/1/3	1.807	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—मोहनपुरा	
195/1	1.770	वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में द्वितीय भाग	
96/1/2	1.518	के 08 ग्रामों की प्रभावित भूमि हेतु.	
196/1/7	0.434	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय	
29	0.356	अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा	
		सकता है.	

क्र. 10752-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कलालपुरा, अभयपुरा, बख्तावरपुरा, सूरजपुरा, रायपुरिया घाटा, करनवास, झुमका, बाईहेड़ा, डूंगरपुर, बलवीरपुरा, नेशबोरदा, घोघड़िया जागीर, बीरमपुरा एवं समेली.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1444.747 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा
(हेक्टर में.)

(1)

(2)

ग्राम—कलालपुरा

2/1	0.405
3/4	0.377
3/5	0.371
3/1	0.620
2/2	0.405
3/2	0.377
3/3	0.377

योग : 2.932

ग्राम—अभयपुरा

65	0.493
117	0.658
146	0.367
111/2	1.265
69	0.126
70	0.152
85	0.228
86	0.531
114	1.670
125	0.543
66	0.391

(1)	(2)
157/4	0.842
157/2	0.842
33	0.949
35	0.455
68	0.644
84	0.430
38	1.062
27/2	1.396
57	0.683
50	0.303
54	1.518
59/1	0.063
60/1	0.133
61/1	0.260
62/1	0.177
75/3	0.131
115	0.885
142/1/1	0.682
142/1/2	0.683
126	0.051
28/2	1.049
158/2	0.797
109/2	0.126
110/3	0.885
143	4.818
151/1	2.010
152	1.492
157/5	0.842
163	3.188
74	0.442
1/1/3	0.923
82	0.468
81	0.923
120	0.708
107/2	1.251
110/2	3.212
71	0.316
72	0.076
73	0.392
97	0.051
113	0.999
127	0.405
128	0.253
144	0.063

(1)	(2)	(1)	(2)
102	0.051	110/1/2	0.327
76	0.595	56	0.443
119	1.568	64	0.455
129	0.316	100	0.063
130	0.443	121	0.468
131	0.278	122	0.076
75/1	0.130	116	1.290
94	0.568	42	1.012
132/2	0.323	58	2.340
134/2	0.335	60/2	0.133
142/2	0.885	61/2	0.259
41	0.797	62/2	0.177
92	0.347	75/2	0.139
93	1.770	77	0.455
135	1.783	78	0.468
136	0.190	79	0.126
138	0.481	95	0.567
139	3.174	101/2	0.089
150	0.595	25	0.032
48	0.506	132/1	0.322
52	0.164	133	0.403
26/2	1.379	134/1	0.335
157/6	2.000	148	0.070
123/2	0.025	104/2	0.607
124/2	0.228	46	0.379
1/1/1	1.084	118/1	2.378
1/1/2	1.084	107/3	0.823
157/1	0.842	156	0.152
1/1/4	1.084	155	1.012
105/3	1.349	44	0.316
1/1/5	1.000	51	0.316
105/2	1.061	154	0.228
28/3	1.517	103	0.051
32	1.075	1/206/1	0.153
34	0.215	1/206/2	0.153
40	0.530	105/4	1.349
27/3	0.632	170/2	2.000
53	0.632	170/3	2.000
59/2	0.164	55	0.202
113/6	1.137	98	0.076
49	0.253	140	2.036
106/1	0.750	141	0.632
110/1/1	2.000	145	0.582
106/2	1.554	170/4	2.000
		111/1	1.454
		योग :	110.144

(1)	(2)	(1)	(2)
ग्राम-बख्तावरपुरा		22/3	0.136
59/10	2.806	23/3	0.038
59/16	1.600	39/1/4	0.534
4/10	1.750	41/3/4	1.330
59/12	1.000	42/4	0.240
4/1/7	1.000	43/1/4	0.117
4/1/8	1.000	44/4	0.104
4/12	2.000	49/4	0.072
56/3	1.628	50/4	0.085
59/14	1.000	51/4	0.114
4/1/2	0.300	55/3/4	0.274
4/1/9	0.300	4/1/6	0.250
4/1/13	0.200	4/1/10	0.100
4/1/11	0.300	4/1/14	0.100
59/11	1.000	4/15	0.100
59/15	0.704	4/2	1.897
1	1.316	4/3	0.946
4/1/12	0.200	34/1	0.632
56/4	1.569	34/2	3.794
4/11	0.012	34/3	1.644
56/5	0.678	4/5	2.530
57/1	0.879	36/2	1.688
7/2	0.759	41/2	0.316
57/6	0.851	45	0.228
22/2	0.136	52	0.025
23/2	0.038	57/8	1.543
24/2	0.139	57/9	1.628
25/2	0.104	4/1/3/1	0.188
27/2	0.316	4/1/4/1	0.063
28/2	0.152	4/4/1	0.673
29/2	0.202	20/1	0.854
31/2	0.399	21/1	0.496
38/2	0.373	22/1	0.136
39/1/2	0.535	23/1	0.038
41/3/2	1.331	24/1	0.138
42/2	0.241	25/1	0.104
43/1/2	0.116	26	0.013
44/2	0.104	27/1	0.317
49/2	0.073	28/1	0.151
50/2	0.086	29/1	0.202
4/1/3/3	0.188	31/1	0.398
4/1/4/3	0.063	38/1	0.376
4/4/3	0.473	39/1/1	0.534
20/3	0.854	41/3/1	1.331
21/3	0.496	42/1	0.240
		43/1/1	0.116

(1)	(2)	(1)	(2)
44/1	0.105	34/6	0.632
49/1	0.073	35/1	0.645
50/1	0.086	37/2	0.386
51/1	1.114	39/3	1.069
55/3/1	0.273	43/2	0.065
4/1/3/2	0.188	46/2	0.088
4/1/4/2	0.063	53/1	0.386
4/4/2	0.473	55/1	0.202
20/2	0.854	58/2	0.506
21/2	0.496	35/2	0.645
24/3	0.140	36/1	1.000
25/3	0.104	37/1	0.386
27/3	0.316	39/2	1.000
28/3	0.152	41/1	0.316
29/3	0.203	46/1	0.380
31/3	0.398	53/2	0.386
38/3	0.377	54/1	0.196
39/1/3	0.534	55/2	0.202
41/3/3	1.331	48	0.228
42/3	0.240	56/2	4.047
43/1/3	0.117	58/1	0.506
44/3	0.104	58/3	0.215
49/3	0.073	59/8	0.126
50/3	0.085	58/4	1.012
51/3	0.114	58/5	0.214
55/3/3	0.273	58/6	0.343
4/1/3/4	0.188	57/4	0.800
4/1/4/2	0.063	57/7	0.565
4/4/4	0.473	17/1	0.443
20/4	0.854	17/2	1.202
21/4	0.496	17/4/1	0.601
22/4	0.136	59/13	1.000
23/4	0.038	7/1	0.425
24/4	0.140	57/2	0.600
25/4	0.105	57/3	0.600
27/4	0.316	59/6	1.000
28/4	0.152	59/1/1	0.253
29/4	0.202	59/1/2	0.253
30	0.126	59/2	0.835
31/4	0.399	59/3	0.822
38/4	0.376	योग : 106.357	
54/2	0.196	ग्राम-सूरजपुरा	
4/6	2.530		
4/7	1.897		
34/4	5.539	7/8	1.000
34/5	3.161	14	0.658

(1)	(2)	(1)	(2)
16	1.328	44	1.214
60	0.164	62	0.329
72	0.253	63	0.038
104	0.708	89/2	0.044
7/9	0.564	90/1	1.138
112/1	0.500	90/2	2.529
19/1	1.012	90/3	1.884
19/2	0.759	93	1.909
19/11	0.100	99	1.467
19/12	0.069	103	1.467
73/2	0.298	102	0.228
19/3	0.759	121/1	1.214
19/10	0.500	108	1.518
19/13	0.170	109/3	1.500
19/4	1.518	110/1	1.350
19/6	0.353	110/2	0.348
19/8	0.613	112/2	0.938
68/2	0.329	110/3	1.350
73/1	0.297	112/3	1.850
19/5	0.658	116/1	0.379
19/7	0.613	116/2	1.770
64/1	0.399	116/3	1.770
71/1/2	0.202	116/4/1	1.012
22/2	1.000	116/4/2	0.490
35/2/1	0.600	116/5	1.518
33/1	0.040	116/8	3.541
38	1.278	116/9/1	1.265
40	0.772	91/1	0.443
41	1.720	75/2	1.239
76	1.821	19/9	0.300
34/2/2	0.695	19/14	0.088
56/2	0.136	64/2	0.398
114/2	0.593	75/1	1.239
34/1	1.075	119/127	0.531
87/3	0.506	119/128	0.632
34/126	0.987	20/129	0.089
34/2/3	0.696	21	0.417
56/3	0.136	23	0.228
114/3	0.593	24	1.543
35/1/1	0.372	25/1	1.025
35/1/2	1.000	25/2	0.025
35/2/2	1.012	26	2.466
36/1	3.478	35/3	4.085
36/2	2.529	48	0.379
87/2	1.265		

(1)	(2)	(1)	(2)
49	0.304	95	1.670
54	0.050	97	3.630
65	0.443		योग : 121.839
66	0.468		
69	0.291		ग्राम-रायपुरिया घाटा
45/1	0.954	174	0.089
55/1	0.373	377/18	0.158
45/2	0.955	86	0.038
55/2	0.373	88	0.013
56/1	0.136	383/2	0.114
114/1	1.483	89	0.152
56/4	0.136	99	0.152
114/4	1.483	100	0.190
58	0.013	157	0.116
61	0.164	252	0.053
68/1	0.329	259	0.012
71/1/1	0.038	267	0.126
77	1.265	268	0.045
79	0.645	392/2	0.042
80	0.392	378/1	0.405
82/2	0.386	378/2	0.202
81/1	0.139	379	0.600
86/1	0.190	389/2	0.569
70	0.316	102	0.101
71/2	0.063	135	0.114
81/2	0.708	165	0.191
85/1	0.176	173	0.101
82/1	0.386	388	0.164
84	1.518	111	0.025
85/2	1.000	133	0.870
86/2	0.506	136	0.051
87/1	0.455	139	0.600
87/4	0.253	189	0.063
88	2.225	206	2.010
91/2	0.890	249	0.063
91/3	1.354	377/10	0.506
89/1	0.045	377/11	0.506
100	2.605	317	0.500
105	2.061	337	0.013
107	2.693	338	0.417
113	1.240	342	1.376
115	1.075	399/6	1.627
20	0.645	16/1	0.316
		16/2	0.316

(1)	(2)	(1)	(2)
105	0.070	203	0.063
377/17	0.160	250	0.038
106	0.091	251	0.190
377/16	0.405	254/3	0.011
336/2	0.418	255	0.002
377/7	0.202	142	0.183
344	0.360	143	1.231
368	0.190	144	0.194
343/2	0.185	158	0.228
350/2	0.168	159	0.228
377/15	0.225	251	0.190
377/4	0.506	191	0.329
377/1/2	0.200	192	0.327
377/1/6	0.200	132/2	0.133
377/13	0.557	132/3	0.090
377/14	0.784	168	0.063
153	0.145	175/2	0.025
162	0.069	181/2	0.054
156	0.013	254/2	0.011
389/1	1.163	256	0.001
392/3	0.012	197/1	0.046
399/1/1	0.010	131	0.035
399/2	0.076	132/1	0.103
399/4	0.228	132/4	0.090
399/5	0.252	104	0.025
399/8	0.253	164	0.038
374/1	0.230	181/3	0.055
375	0.139	254/1	0.010
370	0.277	197/2	0.047
373	0.190	101	0.177
103	0.101	172	0.126
121	0.102	161	0.025
171	0.177	151	0.202
134	0.139	155	0.022
166	0.051	154	0.215
169	0.076	204	0.038
170	0.025	118	0.215
175/1	0.025	320	0.051
181/1	0.055	328	0.569
193	0.228	183	0.063
196	0.114	185	0.031
198	0.177	83	0.044
199	0.051	84	0.030
200	0.152	86	0.089
201	0.038	87	0.063
		88	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
89	0.063	386	0.051
148	0.076	385	0.139
149	0.051	329	0.898
152	0.202	366	0.104
184	0.215	382	0.632
207	0.506	383/1	0.282
109	0.202	392/1/2	0.900
110	0.076	82	0.266
112	0.159	205	0.025
113	0.316	150	0.063
114	0.089	323/2	0.367
117	0.126	399/1/2	0.220
121	0.114	399/7	0.126
253	0.022	324/2	0.835
115	0.139	377/9	0.202
122	0.063	374/2	0.038
124	0.051	371	0.468
128	0.126	333/2	0.438
129	0.025	335	0.329
130	0.051	341	0.066
376	1.346	343/1	0.553
197/3	0.047	377/12	0.531
167	0.025	119	0.228
270	0.196	367	0.063
330	2.658	351	0.957
350/1	0.112	377/8	0.202
333/1	0.878	123	0.038
361	0.063	125	0.095
331	0.051	126	0.063
186	0.063	127	0.013
194	0.177	128	0.126
195	0.114	130	0.056
182	0.304	376	2.477
187	0.020	225	0.041
120	0.013	377/6	0.404
271	0.240	377/5	0.202
318	0.708	377/1/1	0.125
319	0.190	392/1/1	0.883
336/1	0.096	399/1/3	0.500
364	0.089	93/1	0.061
380	1.075	399/9	0.100
387	0.096	377/1/4	0.200
365	0.114	146	0.051
381	0.170	377/1/5	0.050
		377/1/3	0.200
		योग :	<u>54.493</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
ग्राम-करनवास घाटा		400	0.013
529/2/43	1.900	276	0.006
529/2/41	2.000	415	0.013
529/2/42	1.900	7/3/6	0.026
529/2/40	2.000	31/1/4	0.152
529/2/39	1.800	37/2	0.018
529/2/36	1.524	38/4	0.002
529/3/35	0.503	392/2	0.076
529/2/26	0.634	393/2	0.013
529/2/25	0.320	394/1/2	0.114
529/2/24	0.519	394/2/2	0.094
529/2/27	0.667	339	0.063
529/2/28	0.624	207/2/1	1.269
529/2/30	0.500	208	0.582
529/2/29	0.523	209	0.063
529/2/34	0.224	3/2	0.070
529/2/4	0.755	358/2	0.432
529/2/5	0.755	359/2	0.051
529/2/6	0.517	360/2	0.079
529/2/7	0.832	410	0.030
529/2/8	0.832	14/1	0.557
योग :	19.329	15	0.051
ग्राम-झुमका		74/1	0.101
3/1	0.069	76/1	0.038
358/1	0.479	87/2	0.601
360/3	0.079	122	0.607
411	0.101	124/3	0.253
413/515	0.025	31/1/3	0.152
479/2	0.310	37/1	0.019
19/4	0.136	38/3	0.002
52/3	0.320	392/1	0.076
53/4	0.053	393/1	0.012
71/4	0.115	394/1/1	0.114
72	0.038	394/2/1	0.095
125/4	0.284	7/3/5	0.026
474/4	0.059	78	0.607
475/4	0.063	84	0.860
476/4	0.363	89	0.848
477/4	0.278	140	0.519
21	0.329	366	0.278
22	0.063	364	0.291
23	0.215	361	0.278
362	0.281	49	0.392
		50/2	0.114

(1)	(2)	(1)	(2)
55	0.291	383/1/4	0.021
56	0.253	7/3/4	0.025
363	0.228	82/2	0.253
59/1	0.069	88/2	0.405
60/1	0.089	95/2/2	0.239
110/1	0.133	127/2	0.576
486/1	0.085	144/2/2	0.522
389	0.126	119	0.392
31/3	0.420	380	0.352
139/3	0.186	9	0.101
365/2	0.118	379/1	0.253
367/1	0.135	10	0.114
371/1	0.190	12	0.164
7/2	0.151	13/1	0.240
68	0.139	388	0.342
69	0.025	28	0.139
93/1	0.207	44	0.063
116/3	0.626	91/2	0.063
120	0.544	111	0.354
357	0.746	112/1	0.095
387	0.291	118	0.177
397	0.304	117	0.190
401	0.038	85/1	0.100
340	0.215	102/1	0.167
368	0.025	103/2	0.100
395	0.215	104/5	0.273
422	0.415	105/5	0.139
478/2	0.026	448/4	0.086
479/1	0.291	101/2	0.110
139/1	0.185	105/6	0.418
367/2/1	0.045	396	0.228
371/3/1	0.031	448/2	0.086
383/1/1	0.021	31/2	0.270
7/3/1	0.025	139/2	0.186
31/1/1	0.141	365/1	0.236
7/3/3	0.020	370	0.089
38/1	0.002	371/2	0.190
367/2/3	0.135	383/2	0.127
371/3/3	0.095	7/1	0.152
383/1/3	0.063	341	0.392
31/1/2	0.142	367/2/2	0.045
38/2	0.002	383/1/2	0.021
367/2/4	0.045	7/3/2	0.025
371/3/4	0.032	124/2	0.253
		19/1/1	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
45/1/2	0.107	64/1	0.023
53/1/1	0.018	85/6	0.119
71/1/2	0.050	86	0.481
80/1/1	0.140	100/1	0.658
125/1	0.254	108	0.974
474/1/3	0.020	138/3	0.175
475/1/2	0.021	138/7	0.175
476/1/2	0.121	416/1	0.050
477/1/2	0.093	417/1	0.035
57	0.266	480/3	0.256
19/1/3	0.046	61/2	0.402
45/1/1	0.106	65/2	0.111
53/1/3	0.018	93/2/1	0.434
71/1/1	0.051	420	0.266
80/1/2	0.196	421/2	0.066
474/1/1	0.020	61/3	0.402
475/1/1	0.021	65/3	0.111
476/1/3	0.121	93/2/2	0.434
477/1/1	0.093	421/1	0.318
409	0.113	61/1	0.436
59/2	0.070	64/2	0.230
60/2	0.088	65/1	0.347
110/2	0.133	27	0.114
486/2	0.085	43	0.164
412	0.114	90	0.392
413	0.025	91/1	0.063
25	0.379	112/2	0.095
26	0.557	113	0.531
482	0.063	18	0.848
59/3	0.139	19/1/2	0.045
60/3	0.177	45/1/3	0.106
110/3	0.265	53/1/2	0.018
486/3	0.170	71/1/3	0.050
13/2	0.560	80/1/3	0.252
14/2	0.667	474/1/2	0.020
74/2	0.063	475/1/3	0.021
76/2	0.038	476/1/1	0.121
92	0.607	477/1/3	0.093
379/2	0.253	70/1	0.114
13/2	0.503	145/1	0.822
74/3	0.038	146/1	0.607
76/3	0.076	70/2	0.114
87/1	0.601	145/2	0.595
379/3	0.253	146/2	0.607
14/3	0.723		

(1)	(2)	(1)	(2)
83/1	0.279	476/2	0.363
97/3	0.205	477/2	0.278
98/1	0.173	19/3	0.136
99/1	0.025	52/2	0.320
356/4	0.023	53/3	0.054
382/2	0.098	71/3	0.152
390/3	0.082	80/3	0.588
106/1	0.310	125/3	0.285
107	0.240	398	0.114
356/2	0.500	399	0.025
46	0.100	474/3	0.060
83/2	0.206	475/3	0.063
97/2	0.173	476/3	0.363
98/2	0.025	477/3	0.278
99/2	0.595	114	0.531
121	0.632	142	0.759
126	0.023	141	0.291
356/5	0.023	143	0.658
390/2	0.082	483	1.556
47	0.443	485	1.086
97/4	0.206	290	0.024
98/3	0.173	82/1	0.253
99/3	0.026	138/1	0.175
356/3	0.570	138/5	0.175
382/4	0.099	416/2	0.020
390/4	0.083	417/2	0.064
382/1	0.147	480/2	0.426
48	0.205	405	0.177
81	0.310	381	0.076
97/1	0.405	123/1	0.227
106/2	0.569	384/1	0.056
115	0.392	385	0.051
356/1	0.114	124/1	1.403
390/1	0.082	29	0.202
96	0.013	30	0.455
19/2	0.136	42	0.076
45/2	0.124	94/2	0.759
52/1	0.195	95/1/2	0.269
53/2	0.054	127/1	0.575
71/2	0.151	144/1/1	0.522
80/2	0.588	391/1/2	0.101
125/2	0.029	289	0.152
474/2	0.060	342/1/2	0.031
475/2	0.063	343/1/2	0.110
		5/3	1.360

(1)	(2)	(1)	(2)
5/2	1.507	291/1	0.030
2	0.722	116/1	0.317
207/2/2	2.521	478/1	1.259
4	0.114	138/2	0.175
359/1	1.075	138/6	0.175
360/1	0.158	416/3	0.019
404	0.101	417/3	0.065
404/516	0.114	480/1	0.425
85/2	0.100	85/5	0.100
102/2	0.167	101/3	0.110
103/1	0.113	102/5	0.167
104/4	0.273	104/1	0.274
105/4	0.139	105/1	0.139
402/4	0.012	402/1	0.013
403/4	0.033	403/1	0.054
448/3	0.086	448/7	0.082
291/2	0.030	116/2	0.313
85/3	0.100	109	1.126
101/5	0.075	448/1	0.490
102/3	0.167	342/1/1	0.032
103/3	0.040	343/1/1	0.111
104/3	0.273	योग :	94.836
105/3	0.139		
402/3	0.013	ग्राम-बाईहेड़ा	
403/3	0.054	42/1	0.139
448/5	0.086	463/1	0.957
384/2	0.088	47/1	0.246
95/2/1	0.269	48/1	0.101
130/2	0.575	311/1/3	0.047
144/2/1	0.521	280/2	0.059
391/2	0.202	282/2	0.027
408	0.008	283/2	0.138
338/2	0.114	266/2	2.225
342/2	0.063	266/1	1.619
343/2	0.222	280/1	0.059
144/1/2	0.521	386/4	0.097
50/1	0.392	386/5	0.097
51	0.582	412	0.063
94/1	0.759	442/4	0.139
95/1/1	0.268	3/2/5	0.555
130/1	0.576	3/1/6	1.000
391/1/1	0.101	30/1	0.600
423/1	0.126	31/1	1.675
338/1	0.114	111/1	0.904

(1)	(2)	(1)	(2)
115/1	0.095	371/2/1	0.323
312/1	0.196	30/2	0.095
380/5	0.141	31/2	1.676
385/3	0.202	36/2	0.499
386/6	0.097	111/2	0.904
416/1	0.091	115/2	0.095
442/3	0.138	312/2	0.196
3/1/10	1.000	371/2/2	0.322
49	0.266	313	0.291
50	0.063	346	0.025
52	0.278	352	0.304
51	0.013	356	0.114
55	1.765	372	0.987
282/1	0.380	430	1.821
283/1	0.027	32/487	1.682
3/1/7	1.000	27/1/4	1.506
345/1	0.013	266/3	1.214
3/1/8	1.013	280/3	0.059
298	0.076	281	0.455
252	0.316	284/2	0.619
253	1.840	404/1	0.151
406	1.063	404/2	0.140
308	0.126	376	0.291
391	0.038	377	0.493
392	0.405	387	0.405
3/1/5	1.000	388	0.658
27/1/5	1.500	403/1	0.253
294/2	0.190	27/1/1/4	1.763
341/2	0.283	136/3	1.686
401/2	0.620	146	0.754
306	0.291	295	0.228
445/2	0.455	57	0.101
401/1	0.645	58	0.025
167/1/4	0.121	59	0.051
114	0.177	60	0.076
155/1	0.076	61	0.164
156/1	0.139	3/1/11	0.608
297/2	0.031	3/1/9	2.000
407/2	0.487	3/1/4	2.000
445/1	0.455	3/1/3	1.700
3/1/17	1.500	3/1/2	1.400
3/1/12	1.477	3/13	0.658
112/1	0.987	3/15	4.643
307	0.126	3/1/13	1.000

(1)	(2)	(1)	(2)
3/1/16	0.500	442/2	0.139
27/1/1/1	2.000	3/2/4	0.555
27/1/1/2	2.000	380/4	0.141
29	0.430	385/5	0.202
32	3.592	385/6	0.202
42/2	0.139	149/2	0.165
47/1	0.246	152/2	0.785
463/2	0.057	153/2	0.171
48/2	0.101	157/2	0.253
113	0.304	158/2	0.253
116/2	0.246	167/3/2	0.310
117/2	0.177	353/2	0.177
137/1/4	0.560	354/2	0.019
288	0.025	355/2	0.051
289	0.114	395/2	0.993
138/1	0.247	432/2/2	0.354
466/1	0.082	268/2	0.942
469/1	0.216	153/1	0.171
394	0.481	157/1	0.253
3/2/1	0.980	158/1	0.253
112/2	0.506	167/2	0.620
380/1	0.142	268/1	0.341
385/1	0.203	353/1	0.177
386/1	0.097	354/1	0.019
408	0.215	355/1	0.050
380/2	0.942	395/1	0.992
385/2	0.203	432/2/1	0.354
386/2	0.097	359	0.961
409	0.126	360	0.367
3/2/2	0.555	27/1/1/3	2.000
361	0.101	271	1.227
371/1	0.506	272	0.291
400/1	0.493	278/2	0.165
400/2	0.481	277/2	0.069
411	0.198	276	0.510
3/2/3	0.555	461	0.240
278/1	0.164	470/2/1	0.664
458/1	0.991	479/1	0.481
277/1	0.070	479/2	0.481
380/3	0.142	466/2	0.082
385/4	0.202	469/3	0.216
386/3	0.097	470/2/2	0.664
410	0.038	141	0.202
429/2	0.076	254	0.822
		142	0.291

(1)	(2)	(1)	(2)
143	0.354	452/2	0.127
147	0.202	472/2	0.921
145	0.595	477/2	0.645
303	0.076	478/2	0.221
302	0.089	27/1/1/5	1.667
150/1	0.392	27/1/1/6	1.549
151/1/1	0.797	27/1/1/7	1.594
151/1/2	0.367	27/1/1/9	2.850
164/2	0.633	27/1/1/8	0.850
427/2	0.683	462	0.544
436/2	0.038	473	0.569
438/2	0.714	474	0.708
459/1	0.285	294/1	0.190
150/2	0.392	344	0.013
151/2	1.163	401/3	0.607
159/2	0.411	291	0.013
160/2	0.032	343	0.063
161/2	0.095	270	0.949
162/2	0.537	402/1	1.518
300/2	0.076	402/2	1.505
301/2	0.050	475	0.089
208	0.304	476	0.291
453/2	0.082	274	0.177
454/1/2	0.305	275	1.038
460	0.746	397/1	1.012
155/2	0.076	397/2	0.499
156/2	0.133	398	0.531
166/2	0.537	457	2.360
297/1	0.032	273	0.228
405/2	0.405	279	0.228
407/1	0.487	131	0.177
27/1/3	1.000	311/2	0.190
159/1	0.411	351	0.266
160/1	0.538	311/1/2	0.095
161/1	0.095	449/1	0.291
162/1	0.538	450/1	0.298
300/1	0.076	453/1	0.082
301/1	0.051	454/1/1	0.305
132/1	0.158	449/2	0.291
133/1	0.513	450/2	0.298
132/2	0.158	299	0.304
133/2	0.512	342	0.190
440/2	0.284	384	0.443
442/1	0.921	435	0.835

(1)	(2)	(1)	(2)
439	0.038	399/3	1.511
382	0.443	375	0.455
369	0.417	357	0.253
343	0.063	358	1.341
219	0.240	314/3	0.240
220	0.379	345/2	0.012
286	0.089	27/1/14	0.176
293	0.266	3/3	0.205
305	0.430	467	0.670
373	0.459	445/3	0.468
374	2.187	446	0.480
378	0.253	447	0.278
294/3	0.190	448/1	0.070
340	0.215	451/1	0.200
430/481/1	0.525	454/2/1	0.050
430/481/2	0.525	41/1/1	0.007
431	0.784	448/2	0.208
432/1	0.379	451/2	0.594
436/1	0.038	454/2/2	0.150
3/1/18	0.772	41/1/2	0.019
440/1	0.285	464	0.304
441/1	0.727	योग :	174.369
452/1	0.126		
472/1	0.221	ग्राम—डूंगरपुर	
477/1	0.645		
478/1	0.222	63/1	0.146
76/2	0.234	64/1	0.146
311/1/1	0.047	66/4	0.329
309	0.177	109/1	0.114
379	0.468	111/1	0.041
389	0.215	183/3	0.041
390	0.379	209/3	0.019
414	0.278	232/3	0.016
443	0.632	244/3	0.016
310	0.202	268/2/4	0.506
393	0.481	314/3	0.057
56	0.101	316/2/3	0.026
78/4	1.025	374/3	0.186
76/1	0.234	377/4	0.661
46/2	0.146	378/4	0.070
369	0.417	380/3	0.199
400/3	0.493	249/3	0.016
399/1	0.755	183/1	0.041
399/2	0.756	209/1	0.019

(1)	(2)	(1)	(2)
232/1	0.015	374/1/1	0.036
244/1	0.015	377/2/1	0.165
249/1	0.016	377/8/1	0.165
268/291	0.506	378/2/1	0.018
314/1	0.057	380/1/1	0.049
316/2/1	0.025	260/1/3/1	0.079
374/4	0.186	128	0.164
377/1	0.300	131	0.089
377/5	0.361	133	0.152
378/1	0.040	153	0.304
378/3	0.056	154	0.304
380/4	0.200	172	0.307
68/3/1	0.469	222	0.025
83/2/1	0.203	327	0.038
110	0.114	365	0.538
329/2	0.051	372/1/2	0.982
329/3	0.013	29	0.530
334	0.063	53	2.010
335	0.114	28	0.316
336/2	0.038	155	0.506
164/1/1	0.606	164/1/2	0.913
347/1	0.025	223	0.038
351/3/2	0.025	231/3	0.038
355	0.114	346	0.051
371/1	0.456	331/4	0.759
300/1	0.487	200	1.065
85/1	0.142	252	0.835
98	0.177	19	0.101
101	0.076	22	0.215
125	0.152	23	0.114
126	0.304	25	0.202
127	0.012	26	0.114
63/2/1	0.158	12	0.342
64/2/1	0.082	231/4	0.013
66/1/1	0.218	21	0.405
70/1	0.218	27/1	0.176
95/2/1	0.025	27/2	0.176
104/1/1	0.016	58	0.493
183/4/1	0.010	59	0.139
209/4/1	0.015	76/8	2.000
249/4	0.079	54	0.658
268/2/1/1	0.126	30/1	2.946
314/4/1	0.015	76/4	2.000
		250/2	0.064

(1)	(2)	(1)	(2)
130/2	0.493	50/1/1	1.000
158/2	0.449	52	0.734
169	0.405	51	0.139
205/2	0.089	150	0.202
288/2	2.746	175/2	0.632
291	0.430	176	0.025
322/2	0.481	225/2	0.126
152/4	0.063	226/1	0.026
181	0.152	226/2	0.025
260/3/2	0.569	235	0.051
273/2/1	0.159	283/2	0.506
284/3	0.791	303/12	0.102
292/16/3	0.190	328/1/1/2	0.084
330/4	0.146	328/2	0.101
366	0.379	50/4	0.569
338/1	0.221	62/2	0.759
269/2	3.035	105	0.051
193	0.304	106	0.164
194	0.063	107	0.153
204	0.278	75/2	0.500
205/1	0.088	119/2	0.029
240	0.013	303/8	0.152
241	0.051	303/16	0.141
242	0.051	303/18	0.074
247	0.038	303/20	0.072
308	0.721	354/2	0.082
369	0.746	358/2	0.013
76/13	1.200	359/2/2	0.653
162	0.417	372/2	1.441
359/1	0.430	301	2.402
76/6	1.600	266	4.565
178	0.146	220	0.076
221	0.026	213	0.063
224/2	0.019	173	0.038
225/1/2	0.133	124	0.139
167/1	0.379	130/1	0.494
167/2	0.380	129	0.051
168/1	0.045	157/2	0.213
170	0.215	158/1/2	0.242
171	0.443	288/1	0.871
83/1	0.253	303/17	0.142
164/2	0.263	322/1	0.480
259/2/1	0.733	354/1	0.082
75/4	2.000	358/1	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
359/2/1	0.650	75/3	1.326
292/7/2	0.506	119/3	0.030
287/2/1	1.265	303/9	0.132
68/3/2	0.468	303/1	0.132
68/4	0.506	303/11	0.132
189/1	0.019	303/14/1	0.132
190/1	0.038	303/19	0.074
191/4	0.016	357/2	0.055
72/1/1	1.000	203	0.038
195/1	0.105	120/1	0.045
196/2	0.012	303/2	0.400
199/1	0.146	303/6	0.400
168/2	0.044	356/1	0.082
283/1	1.037	236/2	0.069
333/2	0.253	113/1	0.708
76/11	1.240	184	0.025
76/12	1.240	185	0.013
197/1/1	0.003	186	0.076
197/2/1	0.003	234/2	0.257
206/1/2	0.039	317/4	0.695
292/5/3	0.253	317/6	0.358
309/3/2	0.151	375/1	0.341
309/1/2	0.152	379/2	0.734
309/2/2	0.152	379/3	0.400
309/4/2	0.152	198	0.063
319/2/3 एवं 319/4/3	0.290	63/4	0.591
341/1/1	0.032	64/4	0.145
341/2/3	0.031	66/2	0.329
350/1/1	0.017	109/2	0.114
350/2/3	0.016	111/2	0.013
72/1/3	1.000	207	0.076
189/4	0.019	253/1/2	0.032
190/4	0.038	254/4/3	0.107
191/1	0.015	264/3	0.266
192/1	0.060	265/3	0.184
199/2	0.155	265/7	0.184
253/1/1	0.032	292/4/1	0.633
254/4/1	0.108	302/2	0.347
264/4	0.265	340/2	0.086
265/4	0.183	342/2	0.051
269/1/1	1.233	348	0.089
292/4/2	0.632	370/2/1	0.123
302/4	0.348	262	0.304
357/3	0.054	259/2	0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
56	0.544	209/4/2	0.090
292/9	1.202	232/4	0.016
292/15/1	0.380	76/4	2.000
292/15/2	0.379	268/2/1/2	0.126
99/1/2	0.044	314/4/2	0.014
100/2	0.171	374/1/2	0.046
151/1/2	0.253	377/2/2	0.083
286/1/2	0.329	377/8/2	0.082
324/2	0.107	378/2/2	0.180
307/4	0.781	380/1/2	0.050
318/2	1.006	76/14	1.000
351/3/1	0.007	254/3, 254/2	0.430
315	0.835	195/2	0.211
316/1	0.088	253/2	0.128
317/3	0.013	196/1	0.013
323	1.366	306/2	1.065
328/1/2	0.025	306/4	1.066
340/4	0.085	331/3	0.101
342/4	0.050	370/1	0.365
370/2/2	0.124	256	0.101
72/1/4	1.000	86	0.164
189/2	0.019	87	0.240
190/2	0.038	92	0.164
191/3	0.016	97	0.215
253/1/4	0.031	102	0.038
254/1/4	0.108	144	0.455
254/4/4	0.108	146	0.228
264/1	0.266	156	0.190
265/1	0.183	166	0.772
265/5	0.183	177	0.304
269/1/2	1.233	255	0.658
302/3	0.348	257	0.568
340/1	0.085	282	1.202
349	0.013	285/1	0.591
370/2/4	0.124	163/2	0.449
292/4/4	0.632	113/2	0.107
63/2/2	0.148	234/1	0.057
64/2/2	0.037	236/1	0.070
66/1/2	0.082	317/1	0.695
95/2/2	0.025	317/5	1.044
104/1/2	0.015	375/2	0.342
157/1	0.053	379/1	0.560
158/1/1	0.200	379/4	0.683
183/4/2	0.010		

(1)	(2)	(1)	(2)
76/3	2.000	310/2/1	0.102
50/3	1.590	311/1	0.038
115	0.153	313/1	0.025
121	0.139	318/3	0.300
134	0.051	318/5/1	0.690
135	1.050	325/1/1	0.021
147	0.164	325/4	0.041
149	0.215	344/1/1	0.016
159	0.493	351/1/1	0.016
165	0.873	336/1	0.038
117	0.038	347/2	0.215
69	0.734	361	0.013
93	0.076	250/1	0.405
94	0.025	68/2	0.720
263	1.467	79/2	0.291
329/1	0.240	81/2	0.228
161	0.379	82/2	0.012
160/2	0.483	116/2	0.060
259/2/2	0.766	118/2	0.070
259/1	0.506	122/2	0.056
76/10	1.744	123	0.051
211	0.013	137/1	0.107
136/2	0.531	131/1	0.025
148/2	0.076	239/2	0.031
152/3	0.057	248/2	0.044
227/2	0.070	363/2	0.367
229/2	0.042	163/1	0.449
284/1	1.169	68/1	0.720
292/16/2	0.411	79/1	0.291
330/1	0.145	81/1	0.227
360/1	0.400	82/1	0.013
360/3	0.250	116/1	0.007
76/9	1.600	118/1	0.069
180/2/1	0.076	122/1	0.058
218/2/1	0.006	137/2	0.108
219/2/1	0.015	231/2	0.025
50/2	5.058	238	0.038
292/6/1	0.671	239/1	0.038
292/6/2/1	0.354	248/1	0.045
304	0.430	363/1	0.367
305/1	0.152	217	0.013
305/2/1	0.286	108	0.063
307/1	0.781	321	0.834
307/2/1	0.391	182	0.455

(1)	(2)	(1)	(2)
210	0.051	180/1	0.152
214	0.025	218/1	0.013
215	0.038	219/1	0.008
216	0.025	292/6/3	0.704
362	0.885	307/3	0.781
368	1.025	310/1	0.100
293	0.190	318/1	0.505
60/3	1.501	318/4	0.401
75/1	0.500	325/2/1	0.020
119/1	0.030	344/2	0.031
303/5	0.132	351/2	0.032
303/7	0.132	260/1/4	1.500
303/13	0.132	197/1/3	0.003
303/14/2	0.132	197/2/3	0.003
303/15	0.132	206/2	0.057
357/1	0.055	292/5/4	0.253
76/7	2.000	309/1/4	0.152
120/2	0.044	309/3/4	0.152
303/4	0.152	309/2/1	0.151
303/10	0.390	39/4/1	0.152
356/2	0.082	319/1/2	0.006
99/2	0.318	319/2/4 & 319/4/4	0.290
151/2	0.506	206/1/1	0.018
175/1/2	0.247	341/1/3	0.032
326	0.304	341/2/4	0.032
286/2	1.770	350/1/3	0.017
85/2	0.142	350/2/4	0.014
351/4	0.031	63/3	0.591
180/2/2	0.076	64/3	0.145
218/2/2	0.006	66/3	0.329
219/2/2	0.015	95/1	0.101
292/6/2/2	0.251	104/2	0.038
305/2/2	0.287	183/2	0.041
307/2/2	0.390	209/2	0.019
310/2/2	0.102	232/2	0.016
311/2	0.038	244/2	0.016
313/2	0.026	249/2	0.016
318/5/2	0.690	268/2/3	0.506
325/1/2	0.020	314/2	0.057
344/1/2	0.016	316/2/2	0.025
351/1/2	0.016	374/2	0.186
260/1/2	1.195	377/3	0.300
331/1/2	0.405	377/7	0.361
178/2	0.145	378/5	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
380/2	0.199	95/2/3	0.025
75/6	1.300	183/4/3	0.010
85/3	0.142	244/4	0.016
136/1	0.531	268/2/1/3	0.126
148/1	0.076	314/4/3	0.014
152/2	0.057	316/2/4/1	0.013
229/3	0.036	374/1/3	0.047
260/3/3	0.569	377/2/3 & 377/8/3	0.165
284/2	1.169	202	0.202
330/3	0.145	368/2/3	0.017
360/2	0.311	380/1/3	0.050
338/2	0.411	63/2/4	0.158
60/2	1.501	64/2/4	0.036
174	0.342	66/1/4	0.083
359/1	0.430	95/2/4	0.026
85/4	0.142	184/4/4	0.011
90	0.063	268/2/1/4	0.127
192/1	0.051	314/4/4	0.014
227/1	0.600	316/2/4/2	0.013
260/3/4	0.568	374/1/4	0.047
228	0.025	377/2/4	0.085
229/1	0.036	377/8/4	0.083
251	0.164	378/2/4	0.017
267	0.076	380/1/4	0.050
273/2/2	0.600	50/1/1/1	1.000
284/4	0.791	189/3	0.019
292/16/1	0.411	190/3	0.038
330/2	0.146	191/2	0.016
112	0.051	192/3	0.060
114	0.139	72/1/2	1.000
138	0.316	253/1/3	0.031
139	0.139	254/1/1	0.054
140	0.063	254/4/3	0.054
141	0.658	258	1.176
142	0.013	264/2	0.266
143	0.038	292/4/3	0.632
145	0.038	302/1	0.348
70/2	0.655	340/3	0.086
260/1/3/2	0.367	342/3	0.310
96	0.202	370/2/3	0.123
103	0.630	83/2/2	0.202
63/2/3	0.148	197/1/2	0.030
64/2/3	0.036	197/2/2	0.003
66/1/3	0.082	201	0.051

(1)	(2)	(1)	(2)
320	3.667	292/5/1	0.253
331/1/1	1.550	306/1	1.066
371/2	0.227	306/3	1.065
372/1/1	0.500	309/1/1	0.152
75/5	2.000	309/3/4	0.152
376	0.987		योग : <u>227.471</u>
99/1/1	0.043		
100/1	0.171		ग्राम-बलवीरपुरा
151/1/1	0.253		
286/1/1	0.328	11/5	1.264
324/1	0.108	12/1	1.492
333/1	0.051	38	0.342
72/3/1	0.379	40	0.212
72/2/1	0.633	8/2	1.265
13	1.752	14/2	0.677
175/1/1	0.247	18/1	0.025
224/1	0.019	19/1	0.152
225/1/1	0.133	32/1	0.563
260/2	1.518	11/3/1	2.047
292/3	0.759	25	0.164
328/1/1/1	0.084	6/2	0.852
268/1	2.567	6/8	1.000
292/6/4	0.704	15/1	0.212
325/3	0.041	20/3	0.149
292/9	1.202	11/4	1.265
309/2/4	0.152	11/3/2	0.253
309/4/4	0.152	11/11	2.000
319/2/1	0.291	6/1	0.843
341/1/2	0.032	6/7	1.200
341/2/1	0.032	20/2	0.149
343/1/1	0.017	21/1	0.063
350/1/2	0.018	22/1	0.405
350/2/1	0.014	23/1	0.772
197/1/4	0.040	6/4	0.852
197/2/4	0.040	6/6	0.900
292/5/2	0.253	11/8/2	0.442
309/1/3	0.152	15/2	0.424
309/3/3	0.152	20/4	0.148
309/2/3	0.152	28	0.506
309/4/3	0.151	30	0.632
319/1/1	0.143	11/6/2	0.291
341/1/4	0.032	29/1	0.266
341/2/2	0.031	31/6/2	0.442
350/1/4	0.017	11/6/1	0.291
350/2/2	0.015		

(1)	(2)	(1)	(2)
11/10	0.868	14/1	0.677
29/2	0.265	18/2	0.026
31/6/1	0.442	19/2	0.152
6/3/1	0.427	32/2	0.551
6/5/1	0.450	75/2	1.939
11/8/1/1	0.221	7/1	0.240
20/1	0.148	7/3	1.549
21/2	0.063	11/7/2	0.411
22/2	0.405	16/2	0.658
11/12	1.607	17/2	0.171
73	1.202	47/3	0.957
75/3	0.681	8/1/1	1.759
5	2.074	7/4	0.026
1/1	0.506	12/2	0.379
6/3/2	0.426	15/3	0.212
6/5/2	0.450	11/9	0.758
11/8/1/2	0.221	13/2	0.126
11/14	0.696	13/3	0.722
7/2	1.296	13/4	0.379
11/7/1	0.411	13/7	1.012
16/1	0.658	31/12	2.000
17/1	1.171	47/4	1.222
8/1/2	1.759		योग : 76.654
11/13	0.347		
165/3	1.653		ग्राम-नेशबोरदा
26	0.620		
27	0.612	1/5	0.759
35	1.189	2/1	0.218
36	0.417	9/1	0.218
37	1.063	10/1	0.113
41	0.924	11/1	0.237
31/5	0.416	14/4	0.405
31/7	1.878	15	0.620
31/8	1.963	16	0.721
31/9	2.000	17	0.797
31/10	1.447	25/4	1.404
31/11	2.000	26	0.595
23/2	0.771	27	0.266
23/3	0.708	45/5	0.379
24	0.468	1/5	0.759
8/1/3	1.759	2/2/1	0.043
13/1	0.132	9/2/1	0.044
13/5	0.379	10/2/1	0.022
13/6	0.975	11/2/1	0.048

(1)	(2)	(1)	(2)
2/2/2	0.044	1/1/11	1.871
9/2/2	0.043	4	0.089
10/2/2	0.023	6	0.392
11/2/2	0.047	8	0.595
1/1/6	1.871	24/1/3	0.840
2/2/3	0.044	24/1/5	1.884
9/2/3	0.044	24/1/4	1.414
10/2/3	0.023	24/1/6	1.424
11/2/3	0.047	29/1	3.587
1/3/1	0.253	1/1/9	1.871
13/1	0.013	1/1/1	1.871
14/2	0.417	1/3/2	0.253
24/3	0.379	13/2	0.013
25/2	1.404	1/2/3	0.190
29/3	2.782	24/1/2	1.518
1/3/3	0.253	1/1/5	1.871
1/1/2	1.871	1/2/1	0.190
1/1/3	1.871	14/1	0.417
1/2/4	0.189	24/2	0.379
1/1/4	1.871	25/1	1.417
1/2/2	0.190	29/2	2.782
1/1/7	1.871	1/2	0.759
1/1/8	1.871	योग :	66.345
1/1/10	1.871	ग्राम-घोघड़िया जागीर	
1/4	0.759	2/4	6.323
29/4	2.780	4/9	0.506
25/3	1.404	37/2	0.063
24/4	0.379	2/8	1.391
14/3	0.417	4/2/9	0.609
22/1	0.379	2/7/1/2	2.000
18	1.846	2/7/2	1.000
21	0.960	5	0.582
20	0.936	2/6/1	1.351
22/2	0.379	4/2/8	2.000
1/3	0.759	4/2/10	2.000
2/2/4	0.044	4/1/9	2.000
9/2/4	0.044	4/16/2	0.667
10/2/4	0.023	4/2/2	2.000
11/2/4	0.048	4/2/4	2.000
1/1/12	1.871	4/1/5	2.000
2/2/5	0.480	4/2/14	1.000
9/2/5	0.044	4/1/3	2.000
10/2/5	0.023	4/8	8.827
11/2/5	0.048	4/1/6	2.000
10/3	0.054	4/2/12	1.000
12	0.101	4/2/7	2.000

(1)	(2)	(1)	(2)
4/1/8	2.000	48/1	0.215
2/2	4.994	48/2	0.645
4/2/1	2.000	2/3	6.576
4/10	0.684	25/2	1.012
34	0.329	2/5	4.047
50	2.301	4/13	4.047
2/6/2	2.000	6	0.898
2/9	4.047	8	0.202
4/1/4	2.000	9	0.468
4/1/10	2.000	10	0.430
4/2/3	2.000	11	0.114
4/2/5	2.000	12	0.013
4/2/7	2.000	13	0.013
4/12	4.047	16	0.177
4/1/2	2.000	17	0.025
4/2/11	1.000	18	0.013
4/2/13	2.000	19	0.076
4/2/15	2.000		योग : 119.951
4/2/16	2.000		ग्राम-बीरमपुरा
4/11	2.023	35	0.007
4/18	0.717	46/2	0.122
4/16/3	0.667	47/2	0.307
7	0.342	54/2	0.177
27/1	0.190	68/2	0.038
27/2	0.025	69	0.013
23	0.126	73/2	0.022
14	0.038	119/2	0.042
15	0.038	37	0.177
20	0.051	38	0.076
21	0.139	39	0.759
22	0.266	50/3	1.202
23	0.367	51	0.506
45	7.664	52	0.746
29	0.392	53	0.885
24	0.126	55/3	0.291
30	0.089	56	0.076
38	0.202	57	0.063
39	0.026	58	0.164
40	0.013	59	0.013
41	0.013	60	0.164
42	0.253	61	0.025
43	0.063	62	0.013
46	1.227	63	0.013
47	1.202	64	0.013

(1)	(2)	(1)	(2)
73/6	0.021	47/6	0.307
74	0.013	49	0.583
81	0.076	54/6	0.177
119/6	0.042	68/6	0.038
46/7	0.121	50/1/4	0.657
47/7	0.307	115/1	0.425
54/7	0.177	योग :	20.295
68/7	0.038	ग्राम-समेली	
73/7	0.021		
79	0.063	15/1	0.076
119/7	0.042	17/1	0.182
50/1/5	0.657	19/2	0.323
123	0.116	19/7	0.125
129	0.196	105/2	0.076
50/4	0.101	171/1	0.012
55/4	0.240	210	0.139
50/7	2.238	227/5	0.050
77	0.455	301/5/1	1.433
116	0.283	321/1	0.854
115/3	0.020	335/12/2अ	1.037
50/2	1.164	239/1	0.215
55/1	0.392	13/1	0.043
50/1/1	0.657	19/3	0.232
50/1/3	0.657	19/6	0.380
65	0.013	20/2	0.091
66	0.013	235/1/2	0.316
72	0.051	13/4	0.088
75	0.266	14/2	0.082
76	0.405	19/4	0.502
122	0.544	20/1	0.073
130	0.367	235/1/1	0.317
131	0.342	45/2	0.506
132	0.228	13/3	0.039
133	0.202	14/1	0.082
134	0.091	19/1	0.321
135	0.734	19/5	0.253
136	0.013	19/8	0.051
46/5	0.121	235/1/4	0.316
47/5	0.307	13/5	0.015
54/5	0.177	341/1	0.177
68/5	0.038	343/2	0.835
73/5	0.022	341/2/3	0.759
119/5	0.042	149	0.076
46/6	0.121	288	0.810

(1)	(2)	(1)	(2)
242/1/1	0.253	335/8	0.379
59/1/2	0.101	179/2	0.054
227/3	0.051	230/9/4	0.110
308/1/3	0.628	233/2	0.174
360/4	0.377	249/3	0.008
312/3/5	0.405	344/2	0.302
301/2/5	1.011	330/10/2	0.270
306/2/2	0.348	179/3	0.054
308/1/1	0.627	230/9/3	0.080
360/1	0.377	230/10/3	0.299
312/3/2	0.404	233/2	0.253
301/2/1	1.012	233/6	0.174
96/3	0.090	249/4	0.009
289/5	0.254	344/1	0.302
292/2	0.835	179/1	0.107
252/5	0.171	233/1	0.253
8/1	0.493	230/9/1	0.569
9	0.354	230/10/1	0.190
10	0.291	249/1	0.017
34	0.405	344/4	0.602
35	0.202	233/4	0.348
37	0.076	230/9/2	0.759
39	0.126	233/3	0.506
40	0.076	249/2	0.017
41	0.379	344/3	0.602
42	0.126	290	0.266
43	0.860	201/1/1	0.177
44	0.772	208/1	0.177
49	0.291	208/3	0.177
123	0.164	242/3	0.149
124	0.392	298/1	0.241
122	0.190	299/2/2	0.303
158	0.076	360/2	0.377
162	0.098	59/1/1	0.102
226/3	0.065	206/2	0.136
252/1	0.256	306/2/3	0.348
248/1	0.019	308/1/4	0.627
250/1	0.038	360/2/2	0.377
255/1	1.000	382/5/4	0.354
240	0.506	312/3/1	0.404
335/12/1	0.354	301/2/4	1.012
105/1	0.013	227/2	0.051
242/1/2	0.044	361/1/3	0.253
299/2/3	0.039	382/5/2	0.177
		227/4/2	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
308/1/2	0.313	357	0.620
382/5/2	0.177	335/12/2 b	0.379
360/6	0.189	106	0.215
312/3/6	0.203	163	0.152
301/2/6	0.506	166	0.038
211/1/2	0.027	335/7/2	0.253
201/2	0.177	6/1	0.051
361/1/2	0.506	7	0.506
59/1/3	0.101	48/1	0.470
178	0.013	161/1	0.025
211/2	0.136	137/3	0.407
227/1	0.051	138/3	0.051
262/2	0.152	157/1	0.013
263	0.354	72/4	0.321
264/2	0.165	50/2	0.106
289/1	0.379	66/3	0.311
341/2/1	0.436	161/1	0.025
182/1	0.126	301/12	1.644
280	0.253	80	0.278
282	0.089	81	0.481
350/1/2	0.632	82	0.190
59/4/1	1.100	83	0.240
207/2	0.051	84	1.896
220/1/3	0.015	90	0.202
221	0.025	109	0.835
231/1/2	0.059	243	0.063
374/2	0.586	308/1/5	0.327
351/1/2	0.392	306/2/4	0.347
301/15/1/1	1.770	360/5	0.377
207/1	0.051	312/3/3	0.405
220/1/1	0.036	301/2/3	1.012
246/1	0.013	59/4/4	0.667
231/1/3	0.059	59/3/2	0.500
374/3	0.333	226/2	0.064
306/3/1	1.517	264/1	0.051
207/3	0.051	262/1	0.051
231/1/1	0.059	265	0.063
220/1/2	0.038	267/2	0.532
223/2	0.025	206/3/1	0.041
272	0.028	211/1/1	0.027
274	0.038	227/4/1	0.025
281	0.076	308/1/6	0.314
301/9	0.506	382/5/6	0.177
291	0.746	312/3/4	0.202
335/6	1.012	301/2/2	0.506
335/9	0.949	306/2/1	0.174
335/3	0.769	206/3/2	1.265
316/6	1.417	92/2	0.171
335/1	2.529		

(1)	(2)	(1)	(2)
104	0.076	343/1	0.759
201/1/2	0.177	18/2	0.430
208/2	0.354	22/2	0.365
242/2	0.149	23/2	0.595
251	0.114	25/1	0.107
268/1/1/2	0.518	26	0.531
298/2	0.240	168/2	0.120
299/2/1	0.303	18/1	0.430
231/3	0.342	21/2	0.266
246/2	0.013	22/1	0.366
309/2	1.265	23/1	0.594
376/1	1.518	25/2	0.108
354	1.467	29	0.215
300/1	1.012	28	0.101
224/1	0.051	27	0.051
297	1.265	374/1/2	0.586
275	0.405	24	0.013
59/4/2	1.190	31/1/1	1.176
87/1	0.623	59/6	0.500
159/1	0.038	30/4	0.379
56/1	1.289	30/1/2	0.506
57/1	0.203	59/5	1.000
237/1	0.110	51	0.430
287/2	0.298	54	0.038
301/5/2	0.717	55	0.696
107/2	0.278	30/2	0.595
112	0.063	59/1/5	0.101
113/1	0.069	102	0.076
217/1	0.158	103	0.025
226/1	0.070	307	0.101
266	0.089	60	0.126
267/1	0.594	30/3	0.670
295	0.797	33	0.038
97/1	0.126	52/1	0.063
287/1/2	0.253	53/1	0.190
56/2	0.608	79	0.025
57/2	0.202	180	0.038
301/5/3	0.717	205	0.152
113/2	0.070	359	2.934
143	1.404	145	0.051
116	0.114	341/2/2/1	0.759
164	0.177	330/12	2.529
181	0.101	131	0.126
212	0.126	132	0.228
286	0.797		

(1)	(2)	(1)	(2)
135	0.202	365	0.126
133	0.253	120	0.076
141/2	0.506	121	1.531
239/2	0.215	108	0.582
176/2	0.158	119	0.038
189/1	0.139	148	0.051
254/3	0.253	175	0.139
188	0.330	254/1/2	0.317
128	0.038	328	1.670
129	0.051	329	0.797
6/3	0.309	330	0.873
48/2	0.722	331	0.461
200/4	0.051	373/1	2.782
287/3	0.298	176/1	0.158
217/2	0.158	356	0.379
237/2	0.111	301/15/1/2	0.759
91	0.076	332	0.202
95/1	0.110	333	0.126
98	0.025	334	0.278
99	0.025	372	0.519
200/1	0.050	316/3	1.265
228	0.089	345/2	0.379
236/1	0.397	2	0.696
237/3	0.074	3	0.101
260	0.038	4	2.339
261/1	0.071	153	0.063
301/5/4	0.477	154	0.089
321/2	0.284	155	0.089
236/3	0.396	170	0.190
95/2	0.110	172	0.266
200/2	0.050	50/3	0.105
236/2	0.396	66/2	0.446
237/4	0.074	72/1	0.038
261/2	0.072	72/3	0.320
301/5/5	0.478	73/2	0.038
321/3	0.285	75/2	0.322
97/2	0.126	137/1	0.150
100	0.063	138/1	0.308
101	0.038	157/3	0.013
107/1	0.253	161/3	0.025
184	0.139	230/13	1.113
187	0.278	235/1/3	0.316
196	0.405	301/6/1	1.686
58	0.708	302/2	0.426

(1)	(2)	(1)	(2)
301/14	1.518	338/2/1	0.278
301/16	1.581	374/1/1	0.253
301/20/1	1.587	15/2	0.157
301/13	3.794	17/2	0.362
6/2	0.310	173	0.126
48/3	0.844	174	0.330
50/1	0.105	193	0.531
66/1	0.242	229	0.114
72/2	0.320	146	0.126
73/1	0.240	147	0.772
75/1	0.361	144	0.101
137/2	0.063	150	0.076
138/2	0.020	202	0.177
157/2	0.012	203	0.253
160	0.101	59/4/3	1.034
161/2	0.026	63	3.516
301/6/2	1.686	64	1.366
197	0.342	68	0.253
198	0.164	74	0.885
256	0.873	65	0.987
296	0.544	77	0.240
31	0.025	130	0.045
32	0.177	139	0.063
52/2	0.152	141/1	0.506
53/2	0.316	140	0.607
156	0.190	186	0.253
301/20/2	1.587	195	0.177
151	0.038	110	0.063
215	0.076	117	0.063
301/8	0.506	118	0.089
301/18/1	1.568	111	0.519
47/2/1	0.446	183	1.013
214/1	0.063	216	0.835
252/4	0.171	222	0.063
268/2	0.253	234	0.126
335/7/1/2	0.506	302/1	0.143
338/2/2	0.278	349	0.076
342	0.063	8/2	0.190
352	0.297	30/2	0.595
47/2/2	0.441	293	0.089
96/2	0.088	235/3	0.152
214/2	0.063	67	0.443
289/4	0.253	69	1.670
335/7/1/1	0.506	308/2	0.314

(1)	(2)	(1)	(2)
47/1	0.891	382/4	0.126
115	0.063	382/2	0.848
218	0.126	382/6	0.012
247/1	0.025	349	0.076
252/3	0.179	348	0.822
289/3	0.263	285	0.575
338/1	0.556	287/1/1	0.542
339/1	0.261	216/7	0.911
358	1.151	368/1	0.974
96/1	0.088	204	0.822
45/1	1.732	238	0.519
125	0.455	259	0.038
126	0.342	327	5.895
136	0.632	159/2	0.038
185	0.215	306/3/2	0.696
192	0.379	92/1	0.177
194	0.961	300/2	0.455
142/2	0.063	177	0.076
152	0.038	235/2	1.518
169	0.139	273	0.379
350/1/1	0.076	276	0.025
350/2	0.709	277	0.038
16	0.152	278	0.354
60	0.126	224/2	0.089
61	0.772	224/3	0.013
62	0.974	231/2	0.177
219	0.089	304	1.265
324	1.151	363	0.822
361/1/1	0.835	364	0.240
366/1	0.063	225	0.139
355	0.759	241	0.569
353	0.772	232	0.620
351/1	0.190	244	0.076
235/2	1.518	89	0.025
301/15/1/2	0.759	235/1/2	0.316
382/7	1.265	235/1/3	0.316
279	0.278	59/1/4	0.101
283	0.316	171/2	0.013
245	0.063	382/5/3	0.354
269	0.202	59/3/3	0.500
270	0.200	200/3	0.051
271	0.253	321/4	0.285
326	0.354	301/5	0.478
376/2	0.126	294	0.885

[illegible]

(1)	(2)	(1)	(2)
129	1.113	103/1	0.126
141	0.240	110/2	0.026
142	0.215	144	0.228
143	0.240	115/1/2क	1.367
148	0.076	115/1/3ख	0.388
150	0.215	115/1/4	0.518
151	0.405	119	0.051
152	0.013	160	0.898
85/1	0.103	126	0.101
85/3	0.259	127/1	0.216
86/2	0.019	128/1	0.189
87/1	0.410	128/3	0.300
87/3	0.383	155	0.379
85/2	0.258	111	1.025
86/1	0.019	125	0.152
87/2	0.130	130	0.595
37	0.152	110/1	0.050
89	1.288	114	0.506
90	0.342	140	0.316
91/1	0.590	156	0.202
91/2	0.169	113	0.455
93	0.126	116	0.493
94	0.170	118	0.557
95/1	0.076	122	1.758
98/1	1.520	127/2	0.416
95/2	0.076	128/2	0.093
98/2	0.520	103/2	0.734
96	0.417	योग :	30.967
97	0.683		
104	0.013	ग्राम-कराड़िया	
105	0.013	3/9	0.632
99	0.379	3/11	2.000
102	0.468	5/2/1	0.843
149	0.013	264/1/2/2	0.126
133	0.025	264/1/5	0.084
135	0.316	264/2/1	0.379
136	1.770	256/2/3	0.103
137	0.051	256/3/2	0.084
138	0.089	244/3	0.085
100	0.595	5/2/2	0.843
131	0.253	264/1/2/1	0.126
132	0.304	264/2/2	0.380
134	0.278	256/2/3	0.103
139	0.139	5/3	0.253

(1)	(2)	(1)	(2)
5/4/1	1.420	16/4	0.052
5/4/2	2.311	105/2	0.073
188/3	0.266	52/15	0.705
52/7	0.569	59/4	0.130
52/10	3.035	242/4	0.218
5/6/1	0.096	15/5	0.079
65/2/5	0.010	16/5	0.053
267/8	0.037	105/4	0.073
5/6/2	0.048	59/5	0.130
65/2/3	0.010	242/5	0.219
267/1	0.795	17	1.113
5/6/3	0.096	18	0.329
65/2/2	0.100	19/1	0.202
267/3	0.163	104/3	0.199
5/6/4	0.080	99/3	0.010
267/5	0.272	96/1	0.023
5/9	2.000	106/3	0.010
5/10	2.000	113/1	0.020
11	0.506	114/5	0.007
13/1	0.333	200/5	0.104
13/3	0.700	201/3	0.354
15/1	0.316	202/2	0.248
16/1	0.208	204/4	0.156
58/2	0.152	205/5	0.190
59/1	0.518	13/2	0.384
60/7	0.063	217/1	0.050
60/8	0.063	238/1	0.172
262/1	0.866	237/1	0.061
242/2	0.873	255/3	0.157
15/2	0.079	254/3	0.159
16/2	0.052	251/1	0.198
105/1	0.073	258/1	0.144
52/16	0.705	263/1	0.352
59/2	0.129	253/2	0.140
61	0.089	252/1	0.084
262/2	0.217	236/2	0.050
242/1	0.218	235/2	0.010
5/5	0.544	230/5	0.010
16/3	0.052	226/5	0.258
105/3	0.073	225/2	0.404
52/17	0.705	228/1	1.224
59/3	0.129	227/2	0.124
242/3	0.218	229/3	0.058
15/4	0.079	234/4	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
199/1	0.131	204/3	0.157
19/2	0.202	205/4	0.190
104/1	0.200	206/4	0.190
99/1	0.053	217/3	0.050
96/2	0.023	241/4	0.268
106/4	0.011	238/3	0.172
113/2	0.020	237/2	0.061
114/2	0.008	255/5	0.156
200/1	0.104	254/4	0.159
201/4	0.354	251/5	0.197
202/4	0.248	258/4	0.144
15/3	0.079	263/5	0.352
205/3	0.190	253/5	0.139
206/3	0.030	245/2	0.121
217/2	0.051	252/5	0.083
238/5	0.172	236/3	0.050
237/4	0.061	235/3	0.010
255/1	0.157	230/2	0.010
254/1	0.160	226/4	0.258
251/3	0.197	228/5	1.224
258/3	0.144	227/3	0.124
263/4	0.351	229/1	0.058
253/3	0.139	234/3	0.010
245/4	0.122	199/3	0.132
252/4	0.083	19/4	0.203
236/5	0.050	104/2	0.200
235/4	0.010	99/2	0.053
230/4	0.008	96/4	0.023
226/1	0.258	204/1	0.157
228/3	1.220	113/4	0.021
227/5	0.124	114/3	0.008
229/5	0.059	199/4	0.132
234/5	0.010	200/2	0.104
199/5	0.132	201/5	0.354
19/3	0.202	202/5	0.248
104/5	0.200	204/2	0.157
99/5	0.054	205/1	0.190
96/5	0.022	206/2	0.031
106/1	0.011	217/4	0.051
113/5	0.020	56/1	0.527
114/1	0.008	238/4	0.172
199/3	0.132	237/5	0.060
206/5	0.030	237/4	0.157
201/1	0.354	254/5	0.160
202/1	0.248		

(1)	(2)	(1)	(2)
251/4	0.197	235/1	0.011
258/1	0.145	230/1	0.010
163/3	0.351	106/2	0.010
253/4	0.139	228/4	1.224
245/5	0.122	227/1	0.124
252/3	0.083	229/2	0.058
236/4	0.050	234/2	0.010
235/5	0.010	268/279	0.511
230/3	0.010	268/281	1.012
226/3	0.258	199/2	0.131
228/2	1.225	20/1	1.408
227/4	0.124	20/2	0.234
229/4	0.058	44/2	0.023
234/1	0.011	52/8	0.607
199/4	0.132	83	0.797
200/3	0.103	58/3	0.101
99/4	0.053	60/3	0.051
104/4	0.200	207/1	0.030
96/3	0.023	208/1	0.206
106/5	0.010	218	0.042
113/2	0.020	220/1	0.161
114/4	0.007	257/1	0.220
199/2	0.131	44/3	1.012
199/5	0.132	65/2/1	0.100
200/4	0.104	267/4	0.289
201/2	0.354	86/1/1	0.094
202/3	0.248	86/1/2	0.032
204/5	0.157	86/3	0.250
205/2	0.189	85/1	0.380
206/1	0.031	101/3	0.090
217/5	0.051	52/18	0.872
241/1	0.268	5/2/3	0.843
241/5	0.268	264/1/6	0.083
238/2	0.172	19/5	0.203
237/3	0.061	268/2/3	1.579
255/2	0.157	86/2/1	0.060
254/2	0.159	101/2/1	0.179
251/2	0.198	52/13	1.897
258/2	0.144	264/1/2/3	0.041
263/2	0.352	264/1/3	0.074
253/1	0.139	256/2/5	0.058
245/1	0.121	86/2/2	0.032
252/2	0.084	86/2/3	0.100
236/3	0.050	101/2/2	0.180

(1)	(2)	(1)	(2)
264/1/1	0.091	268/280	1.644
264/1/4	0.035	112/1	0.063
256/3/1	0.046	112/2	0.063
84	0.114	239/1	0.544
85/2	0.265	50/1	0.219
100/1/1	0.164	203/1	0.258
101/1/2	0.113	209/1	0.266
62/2/1	0.006	256/3/3	0.084
256/1/4	0.268	225/1/1	0.411
268/2/2/1	0.250	50/2	0.219
100/1/2	0.164	60/5	0.749
101/1/3	0.113	209/2	0.265
62/2/2	0.006	210/1	0.029
268/2/2/3	0.250	210/2	0.030
100/1/3	0.165	261/2	0.232
101/1/1	0.112	225/1/2	0.412
62/2/3	0.007	268/278/1/1	0.578
268/2/2/2	0.250	50/3	0.220
100/1/4	0.165	193	0.228
62/2/4	0.007	209/3	0.266
226/2	0.258	210/3	0.030
87	0.114	268/278/1/2	0.578
88	0.224	51/1	0.426
52/3	0.911	52/5	0.164
52/4	0.228	52/6	0.177
90	0.582	52/9	0.379
91	0.177	53/2	2.149
51/2	0.426	188/4	0.379
218/2	0.042	52/12	1.264
92/2	0.354	52/14	1.074
92/4	0.430	52/19	1.167
93	0.101	268/2/2/4	0.250
94	0.089	57/2/1	2.023
52/11	1.518	60/2/1	0.218
56/3	0.527	60/2/3	0.218
207/3	0.029	60/2/2	0.218
51/3	0.426	60/2/4	0.217
54	0.784	60/2/5	0.217
208/3	0.207	60/9	1.455
214	0.316	62/1	0.026
215	1.240	244/1	0.424
216	0.354	62/2	0.020
218/3	0.042	244/2	0.339
220/3	0.160	63/3	1.012
		63/4	0.749
		190	1.113

(1)	(2)	(1)	(2)
195	0.190	37	0.329
191	0.379	82	0.519
62/3	0.005	21	1.260
53/1/1	0.978	77	0.139
55/1	0.519	7/1/6	1.240
53/1/2	0.692	86	0.607
55/2	1.012	78	0.898
57/2	1.012	79	0.682
261/1	0.464	87/2	0.253
267/7	1.001	68/1/2	0.496
256/1/1	0.267	69/1/2	0.055
256/1/2	0.267	70	0.164
256/1/3	0.267	71	0.771
268/2	1.265	34/2	0.322
268/278/2	0.577	87/1	0.253
192	1.581	13/2	0.246
197	0.304	72	0.329
203/2	0.526	73	0.215
207/2	0.030	74	0.278
208/2	0.207	75/1	0.240
220/2	0.160	30/1	0.323
239/2	0.329	31/1	0.348
240	0.215	32/1	0.208
257/2	0.219	8/1	0.411
257/3	0.219	76/1	0.088
262/3	0.217	25/2	0.379
262/4	0.217	22	0.518
262/5	0.216	28	0.139
267/2	0.163	83	0.126
267/6	0.543	68/2	0.489
56/2	0.527	69/2	0.053
योग . .	<u>121.914</u>	85	0.594
मिट्टी खदानों हेतु प्रभावित भूमि		24	0.569
ग्राम—मांजरीखो		84	0.696
66	0.468	14	1.669
7/1/1	1.606	87/3	0.253
67	0.923	34/1	0.322
68/1/1	0.495	13/1	0.100
69/1/1	0.056	7/1/2	1.606
27	0.063	7/1/3	1.606
36	2.327	7/1/4	1.606
		25/1	0.380
		75/2	0.240

(1)	(2)	(1)	(2)
8/2	0.411	40/2	0.423
80	0.936	142/2	0.164
88	0.999	55/1/1	1.047
81	0.365	55/3	0.126
7/1/5	0.759	155/3/2	0.127
7/1/7	0.759	56	0.367
20	1.923	95	0.013
33	0.316	87/2	0.379
1/1/2	1.438	88	0.291
1/2	0.240	140	1.227
1/3	1.207	158	0.834
1/4	1.207	65	0.417
10	0.100	86	0.304
11	0.100	66/1	0.430
76/2	0.089	67/1	0.278
30/2	0.322	21	0.063
31/2	0.348	22	0.266
32/2	0.209	67/2	0.279
योग . .	<u>39.685</u>	161/2	0.443
		83	0.202
ग्राम—लक्ष्मणपुरा		84	0.076
		85	0.354
8	0.986	146	0.733
9	0.810	90	1.770
26/1	1.114	138	0.240
10	1.037	144	0.632
68	0.810	147	3.040
162	0.253	160	0.318
17/1	0.903	55/1/2	2.000
23	0.126	55/2	0.506
25	0.378	92	0.291
17/2	0.400	154	2.263
26/2	0.455	93	0.392
19	0.038	70	0.013
24	1.278	153	0.228
27	0.468	69	0.506
28	0.898	152	0.215
29	1.404	143	1.012
39	0.266	150	0.936
40	0.202	155/3/1	0.126
60	0.354	159	0.316
40/1	0.424	161/1	0.442
142/1	0.165		

(1)	(2)	(1)	(2)
66/2	0.430	50/1	0.088
91/1	0.093	51/1	0.184
151/3	0.392	65/1	0.050
91/2	0.092	109/1	0.165
151/2	0.392	123/1	0.759
157/2	0.272	46/2	0.032
163/2	0.092	47/2	0.227
91/3	0.093	92/3	0.116
151/1	0.392	83/4	0.051
157/1	0.272	92/4	0.032
163/1	0.013	84/1	0.840
योग :	<u>39.391</u>	83/5	0.051
ग्राम-राजलीबे		92/5	0.032
68/1/1	1.502	84/2	0.084
68/1/2	1.663	83/6	0.050
267/278	0.607	92/6	0.310
योग :	<u>3.772</u>	84/3	0.009
ग्राम-बानपुर		93	0.696
14	0.316	94	0.632
78	0.126	95	0.632
90	0.126	96	0.139
91	0.847	98	2.061
15	0.291	18	0.114
38	0.063	19	0.354
39/2	0.198	36	0.353
40/3	0.156	37	0.455
74/1	0.253	21	0.038
75	0.519	22	0.038
77/2	0.156	23	0.051
87	0.013	27	0.051
97/3	0.591	29	0.063
16	0.013	30	0.076
17	0.367	24	0.051
74/2	0.253	31	0.253
62	0.126	259	0.228
77/3	0.155	25	0.013
99	0.682	26	0.013
97/1	0.120	28	0.063
46/1	0.031	33	0.215
47/1	0.228	86	0.089
49/1	0.050	88	0.797
		89	0.126
		34	0.873
		35	0.139

(1)	(2)	(1)	(2)
42	0.506	127	0.278
43	0.215	103/1	0.133
44	0.013	103/2	0.123
45	0.518	107/2	0.448
39/1	0.198	104	1.833
40/2	0.156	110	0.455
59	0.253	111	0.455
77/1	0.156	115	0.569
97/2	0.591	119	0.202
49/2	0.051	124	0.139
50/2	0.089	125	0.519
51/2	0.183	107/1	0.069
65/2	0.051	107/3	0.379
109/2	0.164	108	0.417
123/2	0.759	117	0.215
52	0.266	128	0.164
102	0.202	119	0.253
60	0.063	113/1	0.331
112	0.632	113/2	0.480
126/2	0.259	113/3	0.150
53	0.380	114	0.114
57	0.101	118/1	0.162
116	0.177	118/3	0.162
58	0.126	118/4	0.162
54	0.038	118/5	0.162
55	0.510	126/1	0.260
18/2	0.162	92/2	0.116
56	0.063	83/3	0.510
63	0.430	40/1	0.156
79	0.038	39/3	0.198
64	0.417		योग : <u>38.512</u>
80/1	0.539		ग्राम-चौकी
82	0.291	19/1	1.594
80/2	0.425	19/2/1	1.037
81	0.405	19/2/2	0.557
80/3	0.831	20	3.264
83/1	0.050	26	2.048
92/1	0.116	21	0.164
85	0.760	22	2.768
83/2	0.050	23	4.033
100	0.177	25	1.379
101	0.114	29	1.136
		32	2.225

(1)	(2)	(1)	(2)
38	0.481	72/3	1.000
24/1	0.486	27/1	0.233
27/2	0.234	30/2	0.607
30/1	0.606	58/2	0.006
58/1	0.007	71	0.291
68	0.782	72/1	1.709
69	0.568	73/2/1	0.884
70	1.632	28	0.683
72/2	1.350	33	1.416
73/1	2.441	57/2	0.032
73/2/2	0.884	61/2	0.090
24/2	0.487	52/3	0.002
64	0.038	52/2	0.004
66	0.557	योग :	<u>50.922</u>
31/1/1	2.339	ग्राम-नलखेड़ा	
31/1/2	1.170	22/1/1/2	0.095
31/2	1.170	22/1/2/1	0.157
42/2	0.506	22/1/7	0.151
45/1	0.512	22/6	0.253
46/1	0.253	129/1/1	4.689
45/2	0.512	129/1/2	1.500
46/2	0.253	120	0.139
47	0.821	122	0.164
63	0.720	129/2	0.228
67	0.354	22/1/2/2	1.564
48	0.304	22/1/4	1.333
49	1.453	19/2	0.190
50	0.873	129/12	1.215
54	0.013	22/1/5	0.200
55	0.051	20	0.481
59	0.417	129/4	0.696
52/1	0.004	129/10	2.529
57/1	0.310	129/18/2	0.565
61/1	0.100	129/8	0.645
60/1	0.210	21	0.291
61/3	0.006	129/7	6.968
52/4	0.002	121	0.367
60/2	0.210	129/19/2	1.412
61/4	0.007	22/1/9	3.036
52/5	0.001	129/20/2	3.635
61/5	0.006	129/5	0.746
53	0.012	129/9	4.047
65	0.618	19/5	0.940

(1)	(2)	(1)	(2)
19/3	0.063	121/1	2.290
129/11	6.070	159	0.392
22/1/1/5	0.950	174/2/18	0.588
22/1/1/3	1.330	108	0.696
22/1/1/4	1.333	45	0.152
22/7	2.605	116	1.252
129/13	1.518	146	0.595
22/1/1	4.762	174/5	3.794
22/1/8	2.000	174/2/1	1.000
129/3	0.949	114	0.569
22/4	0.051	117	0.038
योग :	<u>59.867</u>	118	0.139
ग्राम-गोपालपुरा		122	1.037
137	1.720	124	1.164
174/2/22	1.000	125	0.911
174/2/24	1.000	135/2	0.278
9/1	0.405	121/4	0.253
9/4	0.696	174/2/10	0.834
5	0.531	174/2/8	0.834
104	0.076	174/2/20	1.000
106	0.316	130	0.759
133	4.705	107	0.354
141	0.873	43	0.038
174/2/2	1.000	44	0.038
99	0.101	119	1.012
100	0.481	174/2/27	1.000
101	0.076	174/2/31	0.977
102	0.038	115	0.278
103	0.266	120	0.506
105	0.076	131	0.860
136/1	0.500	174/2/17	0.824
174/2/21	1.000	174/2/4	0.759
174/2/7	0.759	योग :	<u>47.317</u>
121/2	0.379	कुल योग :	<u>432.347</u>
121/3	0.379	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मोहनपुरा	
174/2/5	0.759	वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में बांध स्थल एवं मिट्टी	
174/2/9	0.834	खदानों हेतु प्रभावित भूमि.	
174/2/28	1.000	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय	
111/1/1	0.691	अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा	
144	0.310	सकता है.	
145	1.290	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
174/3	0.076	आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
174/2/3	0.759		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—मण्डला

(ग) ग्राम—कन्हार एवं बनियातारा, प.ह.न. 73

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.43 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—कन्हार

183/1	0.85
183/3	0.17
184/1	0.48
184/2	1.14
185/1	0.16
185/2	0.24
185/4	0.41
185/5	0.41
193	0.10
201/188	0.63
191/1	0.26
191/2	0.26
189	0.50
192	0.39
190	0.58
161	0.41
162	0.16
योग . .	7.15

—	—
183/3	0.04
183/2	0.03
175	0.10
173	0.13

(1)	(2)
170	0.04
169/2	0.07
146	0.05
144	0.07
136	0.06
137/2	0.05
—	—
134/1	0.06
133	0.18
132/1, 132/2	0.14
129/1क	0.01
योग . .	1.03

ग्राम—बनियातारा

231	0.02
230	0.08
218	0.08
198	0.04
196	0.03
योग . .	0.25
कुल योग . .	8.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कटंगी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 088-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—किशनपुर			(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.334 हेक्टेयर.			334	0.300	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	338	1.650	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	340	0.800	निजी भूमि
284	0.130	निजी भूमि	341	0.500	निजी भूमि
285	0.250	निजी भूमि	342	0.650	निजी भूमि
291	0.070	निजी भूमि	343	0.320	निजी भूमि
292	0.150	निजी भूमि	344	0.390	निजी भूमि
293	1.600	निजी भूमि	346/1/ख	1.000	निजी भूमि
295	0.020	निजी भूमि	348	0.480	निजी भूमि
296	0.340	निजी भूमि	352	0.300	निजी भूमि
298	0.090	निजी भूमि	354	0.220	निजी भूमि
300	0.010	निजी भूमि	357/1	0.180	निजी भूमि
301	0.350	निजी भूमि	358/1	0.480	निजी भूमि
302	1.900	निजी भूमि	365	0.130	निजी भूमि
303	2.330	निजी भूमि	394	0.270	निजी भूमि
304	0.520	निजी भूमि	396	0.100	निजी भूमि
305	0.480	निजी भूमि	397	1.000	निजी भूमि
306	0.120	निजी भूमि	345	1.040	निजी भूमि
307	0.450	निजी भूमि	416	0.064	निजी भूमि
308	1.750	निजी भूमि	417	0.080	निजी भूमि
309	0.630	निजी भूमि	418	0.160	निजी भूमि
314	0.600	निजी भूमि	419	0.120	निजी भूमि
315	0.950	निजी भूमि	420	0.500	निजी भूमि
316	0.200	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . 30.334		
317	1.250	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर		
319/1	0.150	निजी भूमि	तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.		
319/2	0.040	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		
320	0.400	निजी भूमि	(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय		
321/1	0.490	निजी भूमि	में किया जा सकता है.		
321/2	0.010	निजी भूमि	प्र. क्र. 089-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को		
323	1.090	निजी भूमि	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित		
325	0.670	निजी भूमि	भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		
326/1	0.330	निजी भूमि	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
326/2	0.150	निजी भूमि	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया		
327/1	0.160	निजी भूमि	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
327/2	0.010	निजी भूमि	अनुसूची		
328/1	0.540	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
328/2	0.340	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
329	0.440	निजी भूमि	(ख) तहसील—अजयगढ़		
332	0.050	निजी भूमि			
333/1	0.300	निजी भूमि			
333/2	0.140	निजी भूमि			
333/3	0.100	निजी भूमि			

(ग) ग्राम—गड़रपुर		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.320 हेक्टेयर.		
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
147	0.100	निजी भूमि
148	0.220	निजी भूमि
151/2	0.900	निजी भूमि
151/3	2.000	निजी भूमि
151/4	2.000	निजी भूमि
151/5	1.100	निजी भूमि
151/7	0.850	निजी भूमि
151/8	1.550	निजी भूमि
151/9	2.000	निजी भूमि
152/1	0.040	निजी भूमि
152/2	0.450	निजी भूमि
152/3	0.200	निजी भूमि
153	0.310	निजी भूमि
219/151	0.600	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . 12.320		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 090-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—बिमतहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.96 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
183	1.50	निजी भूमि
184	5.90	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
187	0.46	निजी भूमि
209	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . 7.96		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 091-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—नरदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1797	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . 0.040		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बहरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 092-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—सब्दुआ		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.650 हेक्टेयर.		
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
27/1, 27/2	0.080	निजी भूमि
29/1, 29/2	0.150	निजी भूमि
30	0.220	निजी भूमि
31	0.490	निजी भूमि
32	0.680	निजी भूमि
57	0.030	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	1.650	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि कानक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 093-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अजयगढ़
(ग) ग्राम—बरियारपुर (भूमियान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.790 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
209	0.650	निजी भूमि
212	0.280	निजी भूमि
213	1.050	निजी भूमि
222/1, 222/2, 222/3	1.870	निजी भूमि
223	0.480	निजी भूमि
238	0.360	निजी भूमि
240	0.950	निजी भूमि
241/1, 241/2	0.700	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
242	0.400	निजी भूमि
244	0.200	निजी भूमि
246/1, 246/2	0.480	निजी भूमि
441	0.070	निजी भूमि
442	0.200	निजी भूमि
440	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	7.790	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि कानक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 101-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—सटवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.500 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
720/2	0.180	निजी भूमि
722	0.670	निजी भूमि
723	1.590	निजी भूमि
724	0.530	निजी भूमि
809	0.190	निजी भूमि
811	0.220	निजी भूमि
725	0.570	निजी भूमि
796	0.250	निजी भूमि
798	0.460	निजी भूमि
800	1.080	निजी भूमि
799	0.190	निजी भूमि
801	0.020	निजी भूमि
815	0.270	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
816	0.600	निजी भूमि	1416	0.10	निजी भूमि
808	0.470	निजी भूमि	1417	0.15	निजी भूमि
813	0.220	निजी भूमि	1421	0.04	निजी भूमि
810	0.300	निजी भूमि	1422	0.21	निजी भूमि
812	0.300	निजी भूमि	1418	0.22	निजी भूमि
814	0.390	निजी भूमि	1419	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	<u>8.500</u>		1420	0.25	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलहा			1425	0.11	निजी भूमि
तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			1427/3	0.12	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी			1428/1	0.06	निजी भूमि
(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय			1448/1	0.09	निजी भूमि
में किया जा सकता है.			1426	0.24	निजी भूमि
पन्ना, दिनांक 24 दिसम्बर 2013			1427/1	0.15	निजी भूमि
प्र. क्र. 103-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को			1428/3	0.06	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित			1448/2	0.10	निजी भूमि
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			1427/2	0.12	निजी भूमि
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			1428/2	0.06	निजी भूमि
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया			1448/3	0.10	निजी भूमि
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			1429	0.15	निजी भूमि
अनुसूची			1430	0.10	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			1434	0.22	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			1436	0.11	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर			1438/1	0.05	निजी भूमि
(ग) ग्राम—चौपरा			1441	0.10	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.67 हेक्टेयर.			1443	0.07	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का	1447	0.06	निजी भूमि
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	1435	0.23	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	1437	0.15	निजी भूमि
1396	0.14	निजी भूमि	1438/2	0.15	निजी भूमि
1397	0.14	निजी भूमि	1439	0.08	निजी भूमि
1398	0.09	निजी भूमि	1440	0.07	निजी भूमि
1399	0.07	निजी भूमि	1442	0.12	निजी भूमि
1431	0.08	निजी भूमि	1444	0.13	निजी भूमि
1432	0.06	निजी भूमि	1446	0.06	निजी भूमि
1433	0.12	निजी भूमि	1449	0.31	निजी भूमि
1400	0.22	निजी भूमि	1450	0.08	निजी भूमि
1401	0.22	निजी भूमि	1451	0.25	निजी भूमि
1414	0.01	निजी भूमि	1453	0.10	निजी भूमि
1415	0.01	निजी भूमि	1454	0.18	निजी भूमि
1423	0.11	निजी भूमि	1455	0.89	निजी भूमि
1424	0.11	निजी भूमि	1456	0.17	निजी भूमि
			2008	0.12	निजी भूमि
			2009	0.04	निजी भूमि
			2010	0.03	निजी भूमि
			2011	0.32	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2013	0.28	निजी भूमि	1749/2 ग	0.04	निजी भूमि
1458	0.15	निजी भूमि	1749/2 क	0.03	निजी भूमि
1459	0.13	निजी भूमि	1839/4 क	0.06	निजी भूमि
1461	0.16	निजी भूमि	1845/2 क	0.12	निजी भूमि
1462	0.79	निजी भूमि	1749/2 ख	0.03	निजी भूमि
1463	0.30	निजी भूमि	1839/4 ख	0.07	निजी भूमि
1922	1.42	निजी भूमि	1845/2 ख	0.12	निजी भूमि
1999	0.40	निजी भूमि	1839/2	0.19	निजी भूमि
2000	0.36	निजी भूमि	1839/3	0.50	निजी भूमि
2001	0.03	निजी भूमि	1840/1	0.09	निजी भूमि
2002	0.17	निजी भूमि	1841	1.44	निजी भूमि
2003	0.45	निजी भूमि	1842	0.35	निजी भूमि
1465	0.23	निजी भूमि	1858	1.00	निजी भूमि
1466	0.60	निजी भूमि	1840/2	0.26	निजी भूमि
1467	0.17	निजी भूमि	1845/1/1	0.40	निजी भूमि
1468	0.55	निजी भूमि	1845/1/2	0.80	निजी भूमि
1469	0.27	निजी भूमि	1845/1/3	0.80	निजी भूमि
1470	0.36	निजी भूमि	1845/1/4	1.20	निजी भूमि
1849	0.12	निजी भूमि	1845/1/5	1.20	निजी भूमि
1850	0.29	निजी भूमि	1845/1/6	1.20	निजी भूमि
1854	0.21	निजी भूमि	1847	0.24	निजी भूमि
1855	0.33	निजी भूमि	1848	0.48	निजी भूमि
1856	0.30	निजी भूमि	1857/2	0.85	निजी भूमि
1471/2	0.60	निजी भूमि	1986/1/2	0.20	निजी भूमि
1476/2	0.51	निजी भूमि	1986/1/3	0.20	निजी भूमि
1474	0.58	निजी भूमि	1986/2	0.05	निजी भूमि
1476/3	0.60	निजी भूमि	1986/3	0.10	निजी भूमि
1478/2	1.20	निजी भूमि	2005	0.10	निजी भूमि
1478/3	0.61	निजी भूमि	2012	0.02	निजी भूमि
1479	1.48	निजी भूमि	2017	0.17	निजी भूमि
1402	0.26	निजी भूमि	2018	0.48	निजी भूमि
1480	0.15	निजी भूमि	2014	0.07	निजी भूमि
1481	0.51	निजी भूमि	2015	0.10	निजी भूमि
1482	0.20	निजी भूमि	2016	0.07	निजी भूमि
1488	1.16	निजी भूमि	1872	0.40	निजी भूमि
1735	0.02	निजी भूमि	1873	0.13	निजी भूमि
1736	0.21	निजी भूमि	1875	0.54	निजी भूमि
1737	0.12	निजी भूमि	2476/2008	0.45	निजी भूमि
1738/2	0.08	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . 41.67		
1738/1	0.27	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चौपरा		
1740/2479	0.38	निजी भूमि	तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.		
1740/2 क	0.77	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		
1740/2ख	0.70	निजी भूमि	(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय		
1743/2	0.10	निजी भूमि	में किया जा सकता है.		
1479/1	0.54	निजी भूमि			

प्र. क्र. 106-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के निजी पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—सारंगपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.10 हैक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
345	0.01	निजी भूमि	541	0.05	निजी भूमि
346	0.01	निजी भूमि	543	0.43	निजी भूमि
452	0.05	निजी भूमि	548	0.32	निजी भूमि
453	0.02	निजी भूमि	550	1.00	निजी भूमि
454	0.03	निजी भूमि	551	1.00	निजी भूमि
455	0.03	निजी भूमि	552	0.50	निजी भूमि
456	0.04	निजी भूमि	553	0.20	निजी भूमि
474	0.01	निजी भूमि	554	0.08	निजी भूमि
476	0.02	निजी भूमि	556/1	0.07	निजी भूमि
478	0.01	निजी भूमि	556/2	0.07	निजी भूमि
479	0.01	निजी भूमि	557	0.28	निजी भूमि
480	0.02	निजी भूमि	560	0.16	निजी भूमि
481	0.02	निजी भूमि	561	0.10	निजी भूमि
517	0.04	निजी भूमि	562	0.10	निजी भूमि
519	0.01	निजी भूमि	563	0.32	निजी भूमि
520	0.09	निजी भूमि	565	0.24	निजी भूमि
521	0.05	निजी भूमि	567	0.36	निजी भूमि
522	0.05	निजी भूमि	568	0.11	निजी भूमि
527	0.01	निजी भूमि	569	0.05	निजी भूमि
528	0.01	निजी भूमि	570	0.07	निजी भूमि
531/1	0.01	निजी भूमि	571	0.10	निजी भूमि
531/2	0.01	निजी भूमि	572	0.23	निजी भूमि
532	0.02	निजी भूमि	573	0.21	निजी भूमि
533	0.10	निजी भूमि	574	0.46	निजी भूमि
534	0.02	निजी भूमि	575	0.17	निजी भूमि
535/1	0.01	निजी भूमि	576	0.03	निजी भूमि
535/2	0.01	निजी भूमि	577	0.11	निजी भूमि
536/1	0.14	निजी भूमि	578	0.19	निजी भूमि
536.2	0.15	निजी भूमि	579	0.38	निजी भूमि
			580	0.03	निजी भूमि
			583	0.02	निजी भूमि
			769	0.02	निजी भूमि
			770	0.09	निजी भूमि
			771	0.55	निजी भूमि
			774	0.46	निजी भूमि
			807	0.18	निजी भूमि
			808	0.03	निजी भूमि
			857	0.60	निजी भूमि
			858	0.55	निजी भूमि
			859	0.20	निजी भूमि
			860	0.66	निजी भूमि
			862	0.39	निजी भूमि
			863	0.80	निजी भूमि
			864	0.13	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
865	0.50	निजी भूमि
866	0.01	निजी भूमि
867	0.13	निजी भूमि
893/1	0.15	निजी भूमि
893/2	0.15	निजी भूमि
894	0.90	निजी भूमि
895	0.33	निजी भूमि
896	0.61	निजी भूमि
898	1.00	निजी भूमि
901	0.21	निजी भूमि
902	0.12	निजी भूमि
903	0.12	निजी भूमि
904	0.13	निजी भूमि
905	0.49	निजी भूमि
906	0.17	निजी भूमि
907	0.22	निजी भूमि
908	0.15	निजी भूमि
909	0.05	निजी भूमि
910	0.13	निजी भूमि
911	0.71	निजी भूमि
912	0.12	निजी भूमि
913	0.16	निजी भूमि
914	0.05	निजी भूमि
915	0.41	निजी भूमि
916	0.10	निजी भूमि
918	0.35	निजी भूमि
919	0.10	निजी भूमि
925	0.43	निजी भूमि
926	0.45	निजी भूमि
927	0.39	निजी भूमि
928/1	1.00	निजी भूमि
928/2	0.79	निजी भूमि
929	1.90	निजी भूमि
932	0.01	निजी भूमि
933	3.38	निजी भूमि
934	0.10	निजी भूमि
935	0.15	निजी भूमि
936	0.40	निजी भूमि
928/1156	1.12	निजी भूमि
600	0.01	निजी भूमि
602	0.02	निजी भूमि
603	0.03	निजी भूमि
518	0.01	निजी भूमि
477	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1077	0.10	निजी भूमि
1078	0.65	निजी भूमि
1075	0.29	निजी भूमि
1080	0.91	निजी भूमि
1076	0.05	निजी भूमि
1087	1.43	निजी भूमि
1086	0.14	निजी भूमि
1083	1.28	निजी भूमि
1081	0.24	निजी भूमि
1088	0.13	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .		36.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वट् मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—सलैया समारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.800 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
112	0.005	निजी भूमि
113	0.024	निजी भूमि
115	0.160	निजी भूमि
116	0.161	निजी भूमि
117	0.045	निजी भूमि
118	0.020	निजी भूमि
119	0.050	निजी भूमि
121	0.056	निजी भूमि
123	0.075	निजी भूमि
125	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
147/1	0.120	निजी भूमि	281	0.150	निजी भूमि
147/2	0.130	निजी भूमि	283	0.363	निजी भूमि
150	0.240	निजी भूमि	284	0.610	निजी भूमि
151	0.140	निजी भूमि	285	0.570	निजी भूमि
152	0.150	निजी भूमि	303	0.120	निजी भूमि
154/1	0.070	निजी भूमि	304	0.210	निजी भूमि
154/2	0.060	निजी भूमि	305	0.280	निजी भूमि
156	0.020	निजी भूमि	308	0.600	निजी भूमि
157	0.040	निजी भूमि	310	0.450	निजी भूमि
158	0.020	निजी भूमि	311	0.440	निजी भूमि
160/1	0.091	निजी भूमि	312	0.140	निजी भूमि
161/2	0.045	निजी भूमि	317	0.100	निजी भूमि
161/1	0.025	निजी भूमि	614	0.920	निजी भूमि
202	0.054	निजी भूमि	212	0.010	निजी भूमि
204	0.060	निजी भूमि	146	0.010	निजी भूमि
205	0.114	निजी भूमि	176	0.010	निजी भूमि
210	0.030	निजी भूमि	207	0.050	निजी भूमि
211	0.010	निजी भूमि	238	0.150	निजी भूमि
233	0.010	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . 16.800		
235	0.030	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पवई		
236	0.180	निजी भूमि	मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य		
237	1.210	निजी भूमि	हेतु.		
246	0.020	निजी भूमि	(3) भूमिका नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		
247	0.472	निजी भूमि	(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय		
248/1	0.400	निजी भूमि	में किया जा सकता है.		
248/2	0.200	निजी भूमि	प्र. क्र. 108-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को		
250	0.240	निजी भूमि	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित		
251	0.130	निजी भूमि	भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		
252	0.150	निजी भूमि	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
253	0.330	निजी भूमि	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया		
255	0.820	निजी भूमि	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
256	0.540	निजी भूमि	अनुसूची		
259	1.540	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
262	0.260	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
263	0.750	निजी भूमि	(ख) तहसील—शाहनगर		
265	0.360	निजी भूमि	(ग) ग्राम—पगरी		
266	0.180	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.41 हेक्टेयर.		
267	0.083	निजी भूमि	खसरा नम्बर		
268	0.050	निजी भूमि	कुल अर्जित रकबा		
269	0.131	निजी भूमि	(हेक्टेयर में)		
270	0.700	निजी भूमि	भूमि का		
272	0.380	निजी भूमि	प्रकार		
277/1	0.350	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
277/2	0.036	निजी भूमि	1	0.10	निजी भूमि
			2	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6	0.01	निजी भूमि	81	0.12	निजी भूमि
9	0.05	निजी भूमि	82	0.10	निजी भूमि
11	0.03	निजी भूमि	83	0.06	निजी भूमि
12	0.06	निजी भूमि	84	0.18	निजी भूमि
15	0.11	निजी भूमि	85	0.17	निजी भूमि
16	0.01	निजी भूमि	86	0.32	निजी भूमि
18	0.02	निजी भूमि	87	0.25	निजी भूमि
19	0.07	निजी भूमि	88	0.18	निजी भूमि
20	0.09	निजी भूमि	89	0.14	निजी भूमि
21	0.15	निजी भूमि	90	0.06	निजी भूमि
23	0.15	निजी भूमि	91	0.03	निजी भूमि
24	0.09	निजी भूमि	92	0.06	निजी भूमि
25	0.12	निजी भूमि	93	0.06	निजी भूमि
26	0.44	निजी भूमि	94	0.06	निजी भूमि
27	0.05	निजी भूमि	95	0.04	निजी भूमि
29	0.07	निजी भूमि	96	0.04	निजी भूमि
31	0.05	निजी भूमि	99	0.01	निजी भूमि
32	0.08	निजी भूमि	102	0.04	निजी भूमि
34	0.03	निजी भूमि	103	0.09	निजी भूमि
35	0.12	निजी भूमि	106	0.07	निजी भूमि
36	0.13	निजी भूमि	107	0.06	निजी भूमि
37	0.36	निजी भूमि	110	0.07	निजी भूमि
38	0.63	निजी भूमि	111	0.10	निजी भूमि
39	0.56	निजी भूमि	112	0.06	निजी भूमि
40	0.08	निजी भूमि	113	0.04	निजी भूमि
41	0.13	निजी भूमि	114	0.05	निजी भूमि
42	0.07	निजी भूमि	115	0.59	निजी भूमि
46	1.30	निजी भूमि	116	0.25	निजी भूमि
47	0.94	निजी भूमि	117	0.08	निजी भूमि
48	0.09	निजी भूमि	118	0.16	निजी भूमि
49	0.37	निजी भूमि	119	0.04	निजी भूमि
50	0.03	निजी भूमि	121	0.47	निजी भूमि
51	0.57	निजी भूमि	122	0.35	निजी भूमि
54/1	0.54	निजी भूमि	124	0.21	निजी भूमि
54/2	0.13	निजी भूमि	125	0.09	निजी भूमि
54/3	0.14	निजी भूमि	126	0.06	निजी भूमि
55	0.90	निजी भूमि	127	0.12	निजी भूमि
56	0.03	निजी भूमि	128	0.06	निजी भूमि
75	0.27	निजी भूमि	129	0.14	निजी भूमि
76	0.08	निजी भूमि	130	0.05	निजी भूमि
77	0.10	निजी भूमि	131	0.10	निजी भूमि
78	0.08	निजी भूमि	132	0.06	निजी भूमि
79	0.01	निजी भूमि	133	0.40	निजी भूमि
80	1.55	निजी भूमि	134	0.62	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
135	0.02	निजी भूमि	666/1	0.50	निजी भूमि
136	0.02	निजी भूमि	666/2	0.09	निजी भूमि
138	0.10	निजी भूमि	666/3	0.09	निजी भूमि
142	0.01	निजी भूमि	672	0.02	निजी भूमि
143	0.03	निजी भूमि	668	0.09	निजी भूमि
149	0.03	निजी भूमि	671	0.16	निजी भूमि
150	0.25	निजी भूमि	673/1क	0.09	निजी भूमि
151	0.10	निजी भूमि	673/1ख	0.08	निजी भूमि
152	0.07	निजी भूमि	673/1ग	0.08	निजी भूमि
153	0.12	निजी भूमि	686	0.50	निजी भूमि
154	0.06	निजी भूमि	651	0.15	निजी भूमि
155	0.26	निजी भूमि	673/2	0.21	निजी भूमि
137	0.01	निजी भूमि	656	0.16	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि .. 18.41			657	0.02	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			658	0.05	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.			635	0.39	निजी भूमि
प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			629	1.06	निजी भूमि
अनुसूची			638	0.38	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			637	0.06	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			631	2.80	निजी भूमि
(ख) तहसील—शाहनगर			628	0.20	निजी भूमि
(ग) ग्राम—मझगवां			590	0.39	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—110.05 हेक्टेयर.			591	0.55	निजी भूमि
खसरा नम्बर			584	0.70	निजी भूमि
कुल अर्जित रकबा			588	0.35	निजी भूमि
(हेक्टेयर में)			586	0.16	निजी भूमि
भूमि का प्रकार			587	0.46	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	585	0.16	निजी भूमि
667	0.45	निजी भूमि	564/1	0.69	निजी भूमि
665	0.22	निजी भूमि	564/2	0.17	निजी भूमि
661	1.25	निजी भूमि	563	0.08	निजी भूमि
659	1.20	निजी भूमि	561	0.08	निजी भूमि
664	0.60	निजी भूमि	565	0.51	निजी भूमि
663	0.65	निजी भूमि	566	0.01	निजी भूमि
662	0.70	निजी भूमि	567	0.15	निजी भूमि
655	1.25	निजी भूमि	568	0.11	निजी भूमि
			569	0.06	निजी भूमि
			570	0.09	निजी भूमि
			571	0.13	निजी भूमि
			581	0.01	निजी भूमि
			582	0.09	निजी भूमि
			578	0.09	निजी भूमि
			559	0.28	निजी भूमि
			558/1	0.17	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
558/2	0.35	निजी भूमि	492	0.01	निजी भूमि
558/3	0.35	निजी भूमि	487	2.40	निजी भूमि
583	0.11	निजी भूमि	485	0.25	निजी भूमि
572	0.45	निजी भूमि	484/1	0.24	निजी भूमि
580	0.04	निजी भूमि	484/2	0.24	निजी भूमि
573/1	0.27	निजी भूमि	484/3	0.36	निजी भूमि
573/2	0.30	निजी भूमि	483	0.27	निजी भूमि
555/1	0.30	निजी भूमि	482	0.14	निजी भूमि
555/2	0.70	निजी भूमि	481	0.12	निजी भूमि
555/3	0.30	निजी भूमि	480	0.04	निजी भूमि
555/4	1.13	निजी भूमि	479	0.28	निजी भूमि
557	2.58	निजी भूमि	434	0.01	निजी भूमि
576	0.09	निजी भूमि	432	0.11	निजी भूमि
577/1	0.02	निजी भूमि	430	0.31	निजी भूमि
541	0.01	निजी भूमि	428	0.01	निजी भूमि
542	0.40	निजी भूमि	431	0.11	निजी भूमि
543/1	0.10	निजी भूमि	433	0.42	निजी भूमि
543/2	0.10	निजी भूमि	427	0.93	निजी भूमि
543/3	0.10	निजी भूमि	426/1	0.20	निजी भूमि
545	0.02	निजी भूमि	425/1	0.02	निजी भूमि
544	0.02	निजी भूमि	250/1	0.20	निजी भूमि
546	0.04	निजी भूमि	250/2	0.25	निजी भूमि
547	0.04	निजी भूमि	250/3	0.30	निजी भूमि
553	0.27	निजी भूमि	256	0.17	निजी भूमि
551	0.06	निजी भूमि	254	0.07	निजी भूमि
529	1.32	निजी भूमि	253	0.09	निजी भूमि
530	0.09	निजी भूमि	252	0.04	निजी भूमि
531/1	0.02	निजी भूमि	251	0.07	निजी भूमि
531/2	0.01	निजी भूमि	319	0.07	निजी भूमि
528	0.10	निजी भूमि	322	0.03	निजी भूमि
527	0.75	निजी भूमि	321	0.04	निजी भूमि
526/1	0.27	निजी भूमि	320	0.07	निजी भूमि
526/2	0.27	निजी भूमि	334	0.03	निजी भूमि
526/3	0.28	निजी भूमि	336	0.05	निजी भूमि
524	0.05	निजी भूमि	337	0.04	निजी भूमि
525/1	0.02	निजी भूमि	316	0.07	निजी भूमि
525/2	0.02	निजी भूमि	317	0.05	निजी भूमि
525/3	0.02	निजी भूमि	318	0.06	निजी भूमि
525/4	0.03	निजी भूमि	302	0.06	निजी भूमि
497	0.05	निजी भूमि	303	0.01	निजी भूमि
496	0.03	निजी भूमि	301	0.60	निजी भूमि
495	0.03	निजी भूमि	300	0.20	निजी भूमि
493	0.29	निजी भूमि	264	0.29	निजी भूमि
486	0.61	निजी भूमि	263	0.28	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
262	0.08	निजी भूमि	203	0.42	निजी भूमि
261	0.08	निजी भूमि	204	0.19	निजी भूमि
260	0.25	निजी भूमि	205	0.43	निजी भूमि
259	0.13	निजी भूमि	206	0.06	निजी भूमि
258	0.03	निजी भूमि	207	0.07	निजी भूमि
257	0.09	निजी भूमि	208	0.07	निजी भूमि
248/3	0.44	निजी भूमि	173	0.08	निजी भूमि
248/2	0.44	निजी भूमि	172	0.03	निजी भूमि
248/1	0.88	निजी भूमि	171	0.06	निजी भूमि
247	0.15	निजी भूमि	170	0.15	निजी भूमि
246	0.28	निजी भूमि	169	0.20	निजी भूमि
245	0.16	निजी भूमि	167	0.25	निजी भूमि
244	0.08	निजी भूमि	166	0.10	निजी भूमि
243	0.47	निजी भूमि	165	0.38	निजी भूमि
242	0.74	निजी भूमि	164	0.75	निजी भूमि
241	0.06	निजी भूमि	161	0.13	निजी भूमि
240	0.07	निजी भूमि	159	0.23	निजी भूमि
239	0.18	निजी भूमि	178	0.45	निजी भूमि
238	0.14	निजी भूमि	177	0.20	निजी भूमि
237/1	0.09	निजी भूमि	176	0.02	निजी भूमि
237/2	0.09	निजी भूमि	158	1.35	निजी भूमि
236	0.12	निजी भूमि	156/2	2.05	निजी भूमि
235	0.13	निजी भूमि	156/1	0.22	निजी भूमि
234	0.04	निजी भूमि	157/1	0.30	निजी भूमि
233	0.09	निजी भूमि	157/2	0.28	निजी भूमि
231/1	0.81	निजी भूमि	150	1.30	निजी भूमि
231/2	0.91	निजी भूमि	151	0.09	निजी भूमि
230	0.63	निजी भूमि	147	0.12	निजी भूमि
224	0.11	निजी भूमि	148	0.16	निजी भूमि
226	0.23	निजी भूमि	149	0.14	निजी भूमि
229	0.12	निजी भूमि	146	0.05	निजी भूमि
228	0.14	निजी भूमि	144	0.07	निजी भूमि
217	1.43	निजी भूमि	141	0.22	निजी भूमि
222	0.08	निजी भूमि	140	0.37	निजी भूमि
216	0.11	निजी भूमि	139	1.32	निजी भूमि
215	0.30	निजी भूमि	137	0.46	निजी भूमि
214	0.08	निजी भूमि	136	0.08	निजी भूमि
213	0.10	निजी भूमि	135	0.19	निजी भूमि
212	0.14	निजी भूमि	134	0.04	निजी भूमि
198	0.03	निजी भूमि	133	0.04	निजी भूमि
199	0.15	निजी भूमि	131	0.10	निजी भूमि
200	0.03	निजी भूमि	130	0.01	निजी भूमि
201	0.15	निजी भूमि	129	0.30	निजी भूमि
202	0.27	निजी भूमि	128	0.24	निजी भूमि
			127	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
126	0.11	निजी भूमि	83	0.20	निजी भूमि
125	0.19	निजी भूमि	82	0.07	निजी भूमि
124	0.03	निजी भूमि	78	0.35	निजी भूमि
123	0.04	निजी भूमि	77	0.20	निजी भूमि
122	0.21	निजी भूमि	76	0.06	निजी भूमि
121	0.05	निजी भूमि	75	0.11	निजी भूमि
120	0.14	निजी भूमि	74	0.03	निजी भूमि
119	0.22	निजी भूमि	73	1.38	निजी भूमि
118	0.19	निजी भूमि	71	0.25	निजी भूमि
116	0.38	निजी भूमि	63	0.15	निजी भूमि
115	0.18	निजी भूमि	62/1	0.01	निजी भूमि
114	0.28	निजी भूमि	56	1.02	निजी भूमि
113	0.17	निजी भूमि	55/1	0.20	निजी भूमि
112	0.31	निजी भूमि	55/2	0.20	निजी भूमि
111	0.35	निजी भूमि	55/3	0.20	निजी भूमि
110	0.25	निजी भूमि	55/4	0.20	निजी भूमि
109	0.03	निजी भूमि	55/5	0.20	निजी भूमि
108	0.08	निजी भूमि	53	0.24	निजी भूमि
107	0.12	निजी भूमि	50	0.42	निजी भूमि
106/1	0.08	निजी भूमि	49	0.16	निजी भूमि
106/2	0.08	निजी भूमि	47	0.66	निजी भूमि
105	0.04	निजी भूमि	43	0.42	निजी भूमि
104	0.15	निजी भूमि	42	0.26	निजी भूमि
103	0.18	निजी भूमि	41	0.03	निजी भूमि
102/2	2.00	निजी भूमि	35	0.02	निजी भूमि
102/1	0.65	निजी भूमि	34	0.22	निजी भूमि
101	0.07	निजी भूमि	33	0.06	निजी भूमि
100/1	0.05	निजी भूमि	31	0.80	निजी भूमि
100/2	0.12	निजी भूमि	30	0.07	निजी भूमि
99	0.02	निजी भूमि	29	0.38	निजी भूमि
98	0.01	निजी भूमि	28	0.08	निजी भूमि
97	0.18	निजी भूमि	27	0.21	निजी भूमि
96	0.02	निजी भूमि	22	0.94	निजी भूमि
95	0.10	निजी भूमि	20	0.08	निजी भूमि
94	0.14	निजी भूमि	19	1.00	निजी भूमि
93	0.17	निजी भूमि	15/1	0.61	निजी भूमि
98	0.24	निजी भूमि	15/2	0.10	निजी भूमि
91	0.10	निजी भूमि	16	0.01	निजी भूमि
90	0.04	निजी भूमि	13/2	0.88	निजी भूमि
89	0.17	निजी भूमि	13/3	1.40	निजी भूमि
88	0.33	निजी भूमि	13/4	0.26	निजी भूमि
87	0.13	निजी भूमि	13/5	0.88	निजी भूमि
86	0.15	निजी भूमि	13/6	0.90	निजी भूमि
85	0.04	निजी भूमि	13/7	0.40	निजी भूमि
84	0.18	निजी भूमि	13/8	0.30	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
13/9	2.00	निजी भूमि	640	0.54	निजी भूमि
12/1	0.27	निजी भूमि	648/1	0.10	निजी भूमि
12/2	0.05	निजी भूमि	652/1	0.08	निजी भूमि
11	0.15	निजी भूमि	652/2	0.08	निजी भूमि
10/2	0.35	निजी भूमि	653	0.09	निजी भूमि
10/1	0.56	निजी भूमि	678	0.05	निजी भूमि
2/16	0.70	निजी भूमि	679	0.20	निजी भूमि
2/15	0.65	निजी भूमि	424	0.15	निजी भूमि
2/14	0.65	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . 110.05		
2/13	0.95	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वट		
2/12	0.75	निजी भूमि	मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य		
2/11	0.72	निजी भूमि	हेतु.		
2/10	1.20	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		
2/9	1.38	निजी भूमि	(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय		
2/8	0.80	निजी भूमि	में किया जा सकता है.		
2/7	0.56	निजी भूमि	प्र. क्र. 115-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को		
2/5	0.42	निजी भूमि	यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित		
2/4	0.43	निजी भूमि	भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		
2/3	0.38	निजी भूमि	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
2/2	0.36	निजी भूमि	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया		
2/1	0.28	निजी भूमि	जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
145	0.05	निजी भूमि	अनुसूची		
174	0.08	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
209	0.06	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
210	0.05	निजी भूमि	(ख) तहसील—शाहनगर		
211	0.07	निजी भूमि	(ग) ग्राम—खमतारा		
221	0.08	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.430 हेक्टेयर.		
265/1	0.15	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
265/2	0.20	निजी भूमि		(हेक्टेयर में)	प्रकार
265/3	0.30	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
268	0.10	निजी भूमि	1722	0.250	निजी भूमि
269	0.02	निजी भूमि	1723	0.200	निजी भूमि
548	0.11	निजी भूमि	1724	0.040	निजी भूमि
549	0.03	निजी भूमि	1726	0.010	निजी भूमि
550/2	0.03	निजी भूमि	1732	0.590	निजी भूमि
552	0.10	निजी भूमि	1734	0.060	निजी भूमि
556/1	0.48	निजी भूमि	1735	0.060	निजी भूमि
556/2	0.47	निजी भूमि	1754	0.550	निजी भूमि
575	0.09	निजी भूमि	1841	0.070	निजी भूमि
592/1	0.20	निजी भूमि	1848	0.300	निजी भूमि
592/2	0.20	निजी भूमि	1849	0.130	निजी भूमि
593	0.04	निजी भूमि	1853	0.085	निजी भूमि
633	0.33	निजी भूमि	1850	0.040	निजी भूमि
636	0.04	निजी भूमि			
639	0.55	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1851	0.010	निजी भूमि	3294	0.060	निजी भूमि
1852	0.040	निजी भूमि	3295	0.570	निजी भूमि
1854	0.050	निजी भूमि	3296	0.260	निजी भूमि
1858	0.075	निजी भूमि	3297/1	0.083	निजी भूमि
1859	0.050	निजी भूमि	3297/2	0.067	निजी भूमि
1860	0.040	निजी भूमि	3298	0.025	निजी भूमि
1861	0.040	निजी भूमि	3301	0.150	निजी भूमि
1862	0.030	निजी भूमि	3302	0.020	निजी भूमि
1863	0.850	निजी भूमि	3310	0.080	निजी भूमि
1865	0.010	निजी भूमि	3350	0.090	निजी भूमि
1867	0.070	निजी भूमि	3351	0.070	निजी भूमि
1869	0.260	निजी भूमि	3352	0.030	निजी भूमि
1870	0.320	निजी भूमि	3353/1	0.320	निजी भूमि
1872	0.030	निजी भूमि	3353/2	0.310	निजी भूमि
1874	0.020	निजी भूमि	3354	0.010	निजी भूमि
3247	0.300	निजी भूमि	3355	0.060	निजी भूमि
3248	0.080	निजी भूमि	3356	0.010	निजी भूमि
3268	0.140	निजी भूमि	3357	0.170	निजी भूमि
3269	0.200	निजी भूमि	3358	0.020	निजी भूमि
3270	0.230	निजी भूमि	3359	0.330	निजी भूमि
3271	0.020	निजी भूमि	3360	0.020	निजी भूमि
3272	0.020	निजी भूमि	3361	0.020	निजी भूमि
3273	0.025	निजी भूमि	3362	0.040	निजी भूमि
3274	0.030	निजी भूमि	3363	0.125	निजी भूमि
3275	0.070	निजी भूमि	3364	0.160	निजी भूमि
3277	0.060	निजी भूमि	3365	0.050	निजी भूमि
3219	0.060	निजी भूमि	3366	0.040	निजी भूमि
3220	0.060	निजी भूमि	3367	0.045	निजी भूमि
3221	0.070	निजी भूमि	3368	0.020	निजी भूमि
3278	0.100	निजी भूमि	3369	0.060	निजी भूमि
3279	0.160	निजी भूमि	3372	0.020	निजी भूमि
3280	0.045	निजी भूमि	3427/1	0.020	निजी भूमि
3282	0.080	निजी भूमि	3427/2	0.060	निजी भूमि
3283	0.050	निजी भूमि	3427/3	0.020	निजी भूमि
3284	0.060	निजी भूमि	3428/1	0.030	निजी भूमि
3285	0.060	निजी भूमि	3428/2	0.040	निजी भूमि
3286	0.060	निजी भूमि	3431	0.530	निजी भूमि
3287	0.160	निजी भूमि	3433	0.390	निजी भूमि
3288	0.240	निजी भूमि	3434	0.050	निजी भूमि
3289	0.400	निजी भूमि	3439/1	0.110	निजी भूमि
3290	0.140	निजी भूमि	3439/2	0.500	निजी भूमि
3291	0.160	निजी भूमि	3440	0.200	निजी भूमि
3292	0.200	निजी भूमि	3451	0.370	निजी भूमि
3293	0.090	निजी भूमि	3452	0.200	निजी भूमि
			3453	0.060	निजी भूमि
			3454	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3455	0.060	निजी भूमि	2909	0.200	निजी भूमि
3456	0.070	निजी भूमि	2908	0.450	निजी भूमि
3457	0.120	निजी भूमि	2906	0.250	निजी भूमि
3458	0.320	निजी भूमि	2905	0.020	निजी भूमि
3459	0.210	निजी भूमि	2904	0.250	निजी भूमि
3460	0.120	निजी भूमि	2903	0.460	निजी भूमि
3461	0.070	निजी भूमि	2902	0.840	निजी भूमि
3462/1	0.150	निजी भूमि	2897/1	0.400	निजी भूमि
3462/2	0.160	निजी भूमि	2897/2	0.290	निजी भूमि
3463	0.030	निजी भूमि	2898	0.030	निजी भूमि
3464/1	0.060	निजी भूमि	2842	0.500	निजी भूमि
3464/2	0.220	निजी भूमि	2843	0.560	निजी भूमि
3464/3	0.330	निजी भूमि	2845	0.050	निजी भूमि
3465	0.070	निजी भूमि	2893/1	0.050	निजी भूमि
3466	0.910	निजी भूमि	2893/2	0.030	निजी भूमि
3467	0.040	निजी भूमि	2892	0.010	निजी भूमि
3444	0.300	निजी भूमि	2936	0.010	निजी भूमि
3445	0.030	निजी भूमि	3431/3506	0.530	निजी भूमि
3446	0.060	निजी भूमि	3437	0.010	निजी भूमि
3447	0.070	निजी भूमि	3399	0.290	निजी भूमि
3421/1	0.120	निजी भूमि	3399/3491	0.210	निजी भूमि
3421/2	0.120	निजी भूमि	3399/3492	0.230	निजी भूमि
3420	0.050	निजी भूमि	3399/3493	0.070	निजी भूमि
3408	0.540	निजी भूमि	2894/1	0.200	निजी भूमि
3410/1, 3410/2	0.080	निजी भूमि	2894/2	0.200	निजी भूमि
3406/1, 3406/2	0.030	निजी भूमि	2894/4	0.390	निजी भूमि
3405	0.800	निजी भूमि	2885	0.450	निजी भूमि
3404	1.340	निजी भूमि	3276	0.150	निजी भूमि
3403	0.290	निजी भूमि	2889	0.010	निजी भूमि
3402	0.110	निजी भूमि	3414	0.020	निजी भूमि
3401	0.220	निजी भूमि	3415	0.100	निजी भूमि
3115	0.030	निजी भूमि	1890	0.040	निजी भूमि
2937/1	0.010	निजी भूमि	18884	0.010	निजी भूमि
2937/2	0.010	निजी भूमि	3246	0.010	निजी भूमि
2938/1	0.020	निजी भूमि	3436	0.020	निजी भूमि
2938/2	0.030	निजी भूमि	3435	0.010	निजी भूमि
2935	0.040	निजी भूमि	3416	0.010	निजी भूमि
2934	0.050	निजी भूमि	3299	0.010	निजी भूमि
2933	0.045	निजी भूमि	3441	0.020	निजी भूमि
2932/1	0.060	निजी भूमि	3286/3473	0.060	निजी भूमि
2932/2, 2932/3		निजी भूमि	3408/3505	0.500	निजी भूमि
2930/1	0.010	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि ... 30.430		
2930/2	0.020	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्व		
2919	0.450	निजी भूमि	मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य		
2918	0.160	निजी भूमि	हेतु.		
2917	0.090	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		
2916	0.400	निजी भूमि	(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय		
2915	0.020	निजी भूमि	में किया जा सकता है.		
2912/3	0.100	निजी भूमि	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
2912/2	0.060	निजी भूमि	मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
2912/1	0.160	निजी भूमि			

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. 15898-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—बदनावर
- (ग) ग्राम—भैंसोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.672 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
215	0.202
305/1	0.418
303/1	0.518
304	0.075
305/2	0.253
306	0.340
268	0.101
379	0.265
380	0.050
303/2	0.450
योग . . . 2.672	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—अम्बापाडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 16-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—विदिशा
- (ग) ग्राम—रामपुर बंधिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.885 हेक्टर.

सर्वे नं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.213
75/1	0.491
33/1/2	0.181
योग . . . 0.885	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह नदी) मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-19-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—जतारा

(ग) नगर/ग्राम—चन्द्रपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—70.309 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

592/1

0.506

574

0.090

573

0.092

572

0.214

570

0.003

592/2

0.060

593

0.344

294

0.052

293

0.073

292

0.061

291

0.174

290

0.146

289

0.081

286

0.105

594

0.154

852

0.077

853

0.117

854

0.093

595

0.089

596

0.113

603

0.150

(1)

(2)

597

0.036

599

0.064

838

0.120

516

0.095

604

0.696

605

0.024

606

0.202

607

0.210

608

0.303

609

0.129

336

0.057

610

0.101

612

0.384

613

0.020

614

0.555

611

0.348

615

0.535

616

0.340

617

0.283

520

0.140

519

0.104

517

0.044

337

0.049

618

0.024

552

0.065

551

0.069

548

0.150

550

0.162

621

0.162

338

0.057

620

0.227

622

0.231

553

0.306

619

0.214

623

0.494

641

0.049

645

0.182

648

0.158

652

0.065

269

0.239

270/1

0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
272	0.081	280	0.073
276	0.089	634	0.154
277	0.085	638	0.239
829	0.045	639	0.283
624	0.138	643	0.081
660	0.077	655/1	0.049
632	0.144	656	0.174
637	0.458	657	0.190
625	0.089	658	0.308
650	0.202	659	0.065
655/2	0.093	644	0.105
270/2	0.057	654	0.271
626	0.073	270/3	0.053
633	0.065	646	0.073
273	0.081	647	0.085
281	0.065	651	0.089
627	0.008	649	0.016
628	0.061	518	0.035
244	0.263	840	0.036
246	0.342	523	0.069
247	0.146	524	0.097
228	0.049	839	0.243
629	0.069	837	0.190
630	0.150	511/2	0.174
635	0.124	344	0.194
636	0.166	515	0.239
640	0.154	514	0.105
642	0.057	365/1	0.511
653	0.109	512	0.388
271	0.073	513	0.016
275	0.085	511/1	0.176
631	0.065	511/3	0.175
666	0.821	453/2	0.040
667	0.235	663	0.498
673	0.595	661/7	0.125
672	0.498	428/8	0.500
671	0.251	428/9	0.400
668	0.271	428/10	0.500
669	0.202	428/11	0.500
670	0.024	428/12	0.500
274	0.085	428/13	0.500

(1)	(2)	(1)	(2)
428/17	0.500	822	0.154
428/18	0.500	420	0.093
391	0.223	821	0.591
392	0.214	422	0.020
398	0.154	423	0.154
360	0.963	364/1/1	0.805
393	0.154	364/3	0.526
405	0.109	364/4	0.445
408	0.291	364/5	0.324
412	0.190	47/1/4	0.500
679	0.415	47/1/5	0.500
680	0.320	47/2	0.085
681	1.189	76/2	0.780
394	0.186	233	1.520
407	0.227	249	0.380
396	0.028	231	0.089
395	0.085	230	0.162
390	0.089	250	0.089
397	0.142	227	0.316
400	0.045	251	0.206
399	0.154	229	0.050
401	0.089	237	0.190
402	0.109	248	0.101
403	0.129	232	0.295
404	0.142	235	0.162
340	0.138	236	0.049
339	0.089	245	0.024
409	0.016	278	0.032
410	0.073	279	0.036
411	0.247	830	0.032
413	0.271	288	0.178
414	0.551	287	0.020
415	0.632	284	0.134
341	0.069	285	0.016
335	0.053	327	0.291
417	0.154	332	0.012
418	0.096	333	0.032
419	0.189	334	0.016
425	0.093	342	0.065
427	0.591	343	0.077
421	0.020	361	0.251

(1)	(2)	(1)	(2)
345	0.186	705	0.219
358	0.182	720	0.146
356	0.142	711/1	0.405
359	0.239	742/4/1	0.405
357	0.194	715	0.008
689	0.012	721/2	0.202
690	0.214	721/3	0.364
691	0.182	721/4	0.275
692	0.154	721/5	0.146
693/2	0.405	721/6	0.291
693/3	0.198	722	0.016
694	0.049	723	0.239
696	0.186	726	0.235
698	0.065	743/2	0.057
708	0.247	743/3	0.243
695	0.259	724	0.028
701	0.097	725	0.251
706	0.210	727	0.176
714	0.348	728	0.287
712	0.105	734	0.117
713	0.170	735	0.146
716	0.190	736	0.097
717	0.336	737	0.267
719	0.089	738	0.263
697	0.028	743/1	0.188
707	0.214	742/1/1	0.384
709	0.388	729	0.324
699	0.065	730	0.101
745/1	0.113	731	0.107
700	0.093	732	0.413
718	0.332	739	0.239
743/1/4	0.243	733	0.008
702	0.040	740/1	0.267
703	0.045	740/2	0.405
704	0.049	740/3	0.032

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—जतारा
(ग) नगर/ग्राम—रामगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.410 हेक्टेयर.

(1)	(2)
740/4	0.680
740/5	0.382
740/6	0.202
743/1/1	0.295
743/1/2	0.809
743/1/3	0.405
743/1/5	0.753
742/1/2	0.115
742/2	0.930
742/3	0.960
742/4/2	0.145
780/4	0.203
780/2	0.809
746/4	0.409
779/3	2.487
779/4	0.451
780/3	0.202
685/1	0.500
578	0.031
575	0.013
576	0.022
585	0.022
586	0.528
योग . .	<u>70.309</u>

खसरा नं. रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
03	0.382
21/2	2.022
18/1	0.809
18/3	0.809
5	0.231
6	0.312
7	0.013
8	0.211
10	0.350
14/1/1	1.214
14/2	0.506
14/3	0.506
14/4	0.506
14/5	0.506
19	0.930
22/2	0.417
199/9	0.160
199/10	0.500
199/14	0.500
199/15	0.500
199/16	0.500
199/17	0.500
199/18	0.500
199/19	0.500
199/20	0.500
199/21	0.500
179/22	0.500
199/23	0.500
199/24	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-20-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—हरपुरा	
199/25	1.000	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.401 हेक्टेयर.	
199/26	5.000	खसरा नं.	रकबा
199/27	0.500		(हेक्टेयर में)
199/28	0.500	(1)	(2)
199/29	0.500	491	0.053
199/30	0.500	492	0.009
199/31	0.500	489	0.031
199/32	0.500	488	0.014
199/33	0.500	487	0.022
199/34	0.500	486	0.018
199/35	0.500	477	0.053
11	0.123	465	0.018
12/2	0.009	454	0.018
26	0.057	473	0.026
40	0.084	66/1	0.026
38	0.259	68	0.009
47	0.009	464	0.035
50	0.018	463	0.048
53	0.110	447	0.040
66/2	0.247	457/1	0.022
192	0.053	458	0.018
191	0.057	459	0.090
योग . .	27.410	456	0.031
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.		452	0.009
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		55	0.018
क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-21-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		54	0.031
अनुसूची		368	0.013
(1) भूमि का वर्णन—		367	0.026
(क) जिला—टीकमगढ़		361	0.013
(ख) तहसील—जतारा		366	0.018
		364	0.018
		277	0.040
		363	0.044
		369	0.022
		269	0.079
		267	0.101
		265	0.018
		266	0.009
		264	0.044
		259	0.092
		237	0.057

(1)	(2)
234	0.057
233	0.009
232	0.031
231	0.018
336	0.018
224	0.035
योग . .	<u>1.401</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-22-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—जतारा
(ग) नगर/ग्राम—पठरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1137	0.026
1138	0.013
1145	0.097
1148	0.026
1146	0.038
योग . .	<u>0.200</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन-प्र. क्र.-23-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—जतारा
(ग) नगर/ग्राम—हृदयनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.697 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71	0.128
75/2	0.238
75/3/5	0.114
76	0.145
77	0.002
78	0.070
योग . .	<u>0.697</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—रामगढ़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

**म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012**

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक **20/बी-121/2013-14** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पकरिया, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढार	पकरिया / पकरिया 139	115	0.018

			117	0.068
			111	0.173
			11	0.042
			110	0.173
			109	0.163
			125	0.126
			126	0.003
			127	0.127
			131, 132, 133,	0.122
			129, 131, 130,	0.040
			153	0.003
			154	0.104
			96	0.024
			155 / 1, 155 / 2,	0.030
			156	0.052
			157	0.084
			158	0.105
			159, 166 / 1, 166 / 2, 166 / 3, 166 / 4,	0.264
			216 / 1, 216 / 2, 218,	0.140
			214 / 1 / क / 1, 214 / 1 / क / 2, 214 / 1 / ख / , 214 / 2, 214 / 3, 214 / 4, 214 / 5 / क, 214 / 5 / ख,	0.077
			213 / 1, 213 / 2, 213 / 3, 213 / 4,	0.063
			212 / 1, 212 / 2 / क, 212 / 2 / ख, 212 / 2 / ग,	0.070
			210 / 1 / क, 210 / 1 / ख, 210 / 1 / ग, 210 / 1 / घ, 210 / 2,	0.022
			211	0.099

			206 / 1 / क, 206 / 1 / ख, 206 / 1 / ग, 206 / 1 / घ, 206 / 1 / ङ, 206 / 1 / च, 206 / 1 / छ, 206 / 1 / ज, 206 / 1 / झ, 206 / 2,	0.243
			205	0.003
			343 / 1 क, 343 / 1 ख, 343 / 2, 343 / 3,	0.056
			464	0.104
			436	0.000
			435	0.068
			426	0.003
			427	0.147
			422	0.036
			423	0.087
			420	0.000
			429	0.030
			419	0.053
			417	0.090
			418	0.026
			454 / 1, 454 / 2,	0.113
			400 / 5	0.063
			456	0.031
			453	0.071
			457	0.155
			458 / 1, 458 / 2 / क, 458 / 2 / ख,	0.100

			459/1, 459/2/क, 459/2/ख/1, 459/2/ख/2, 459/3/क, 459/3/ख, 459/3/ग, 459/4, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 459/10, 459/11/क, 459/11/ख, 459/12/क, 459/12/ख, 459/13,	0.707
			396/1, 396/2/क, 396/2/ख,	0.072
			395	0.011
			394	0.131
			391	0.144
			389	0.196
			379	0.034
			462 (378/462)	0.003
			392	0.194

			461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 461/10, 461/11, 461/12, 461/13, 461/14, 461/15, 461/16, 461/17, 461/18/क/1, 461/18/क/2, 461/18/क/3, 461/18/क/4, 461/18/क/5, 461/18/ख/1, 461/18/ख/2, 461/18/ख/3, 461/18/ख/4, 461/18/ख/5, 461/18/ख/6, 461/18/ग/1, 461/18/ग/2, 461/18/घ/1, 461/18/घ/1/ख, 461/18/घ/2, 461/19, 461/20/क, 461/20/ख, 461/21, 461/22/क, 461/22/ख, 461/23, 461/24, 461/25, 461/26/क, 461/26/ख, 461/26/ग, 461/26/घ, 461/27, 461/28/क, 461/28/ख/1, 461/28/ख/2, 461/28/ख/3, 461/28/ख/3/2, 461/28/ख/3/3, 461/28/ख/3/4, 461/28/ख/4, 461/28/ग, 461/28/क/1, 461/29/क/2, 461/29/ख, 461/30/क, 461/30/ख/1, 461/30/ख/2, 461/30/ग/1, 461/30/ग/2, 461/31,	0.042
			460	0.559
			459/1, 459/2/क, 459/2/ख/1, 459/2/ख/2, 459/3/क, 459/3/ख, 459/3/ग, 459/4, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8, 459/9, 459/10, 459/11/क, 459/11/ख, 459/12/क, 459/12/ख, 459/13,	0.5694
			1/1, 1/2, 1/3,	0.015
			3	0.036
			283	0.070
			284	0.129
			285	0.011
			286	0.102

शहडोल	बुढ़ार	पकरिया / पकरिया 139	287	0.010
			281	0.087
			292	0.118
			293	0.089
			295	0.067
			309	0.012
			306	0.129
			307	0.141
			359	0.150
			369	0.143
			369	0.006
			373 / 1, 373 / 2,	0.072
			375 / 1 , 375 / 2, 375 / 3,	0.064
			376 / 1, 376 / 2,	0.061
			377 / 1	0.074
			378 / 463 / 1, 378 / 463 / 2, 378 / 463 / 3,	0.010
			462 (378 / 462)	0.238
			379	0.003

**म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012**

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 21/बी-121/2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का क्रमांक कटकोना 137 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	कटकोना / कटकोना 137	15/1क	0.075
			खसरा क्रमांक 15/1क एवं 15/1 के बीच में	0.023

			15 / 1	0.412
			16	0.054
			23	0.018
			24	0.004
			22	0.095
			21	0.078
			28	0.268
			29 / 2	0.044
			26 / 6	0.033
			30 / 1	0.083
			30 / 2	0.014
			31	0.042
			32	0.096
			33 / 1	0.060
			33 / 2	0.015
			46	0.086
			34 / 1, 34 / 2	0.022
			44	0.007
			45	0.064
			46	0.003
			54	0.087
			55	0.126
			56	0.030
			78	0.004
			77	0.148
			75	0.127
			59 / 2	0.012
			73	0.141
			70	0.099
			71	0.067
			109	0.058
			112	0.100
			111	0.146
			301 / 1	0.190
			288	0.027
			287	0.027
			282	0.012
			281	0.181
			275	0.148
			274	0.028

			269	0.141
			270	0.069
			271	0.110
			272	0.012
			660	0.004
			659	0.121
			658	0.232
			657	0.011
			656 / 1, 656 / 2, 656 / 3	0.076
			441 / 1, 441 / 1 ख	0.159
			442	0.081
			441 / 4, 441 / 5	0.275
			443	0.021
			444	0.004
			445	0.007
			447	0.214
			449	0.085
			468	0.070
			467	0.004
			466	0.154
			465	0.135
			464	0.003
			472	0.044
			461	0.102
			460	0.106
			459	0.015
			462 / 1	0.069
			458	0.290
			519	0.323
			552	0.059
			562 / 3	0.127
			575 / 2	0.001
			562 / 2	0.095
			562 / 1क	0.041
			562 / 1 ख	0.043
			563	0.063
			565	0.069
			778	0.037
			777 / 1, 777 / 2	0.045
			776	0.079

			775	0.004
			780	0.054
			774	0.039
			781	0.225
			782	0.022
			783	0.076
			784	0.005
			768 / 1	0.013
			769	0.064
			751	0.078
			752 / 1	0.002
			770	0.078
			748 / 1	0.077
			747	0.004
			748 / 2	0.052
			734	0.030
			733	0.162
			731	0.064
			649	0.139
			641	0.098
			651	0.004
			652	0.038
			653	0.018
			639 / 1, 639 / 2, 639 / 3, 639 / 4	0.133
			656 / 1, 656 / 2, 656 / 3	0.294
			663 / 1, 663 / 2	0.034
			658	0.002
			662	0.144
			676 / 1, 676 / 2	0.078
			677 / 1, 677 / 2	0.073
			679	0.100
			680	0.032
			695	0.004
			694	0.030

शहडोल	बुढ़ार	कटकोना / कटकोना 137	694	0.030
			693	0.085
			696	0.037
			692	0.028
			562 / 3	0.081

**म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012**

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक . 22/बी-121/2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम साबो, पटवारी हल्का क्रमांक साबो-135 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
शहडोल	बुढ़ार	साबो / साबो 135	9/2	0.046
			9/1	0.090
			11	0.040
			10	0.021
			524/1, 524/2	0.181
			525	0.185
			526	0.054
			527/1, 527/2	0.001
			982	0.112
			981	0.183
			988	0.237
			989	0.008
			991	0.028
			990	0.084
			993	0.046
			994	0.329
			996	0.087
			997/1, 997/2	0.268
			1020	0.232
			1021	0.166
			1022	0.102
			1023	0.060
			1024	0.182
			1035	0.063
			1037	0.145
			1036	0.347
			1058/1, 1058/2	0.004
			1057	0.100
			1060	0.206
			1056	0.203
			1163	0.030
			1089/2क	0.009
			1086	0.070
			1085	0.088
			1082/1/क, 1082/1/ख, 1082/2	0.001
			1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5	0.208

		1080	0.259
		1078	0.167
		1074	0.046
		1075	0.378
		1103	0.014
		1104	0.196
		1105/1/ख, 1105/2, 1105/3	0.195
		1126	0.149
		1107	0.081
		1125/1, 1125/2, 1125/3, 1125/4	0.004
		1121/1	0.140
		1124	0.092
		1114	0.529
		1115	0.124
		1116/1, 1116/2	0.192
		1117	0.077
		1118	0.068
		255	0.127
		231/1, 231/2, 231/3, 231/4	0.150
		225	0.032
		230	0.013
		226	0.032
		229	0.013
		227	0.012
		228	0.013
		222	0.075
		245	0.043
		246	0.029
		247	0.038
		248	0.064
		249	0.008
		151	0.067
		148	0.147
		147	0.047
		335	0.023
		146	0.045
		141	0.115
		140	0.037
		135	0.049
		134	0.063
		348	0.293
		347/1, 347/2	0.003
		349	0.054
		350	0.015
		389	0.022

			390	0.038
			391	0.024
			405	0.009
			404	0.054
			406	0.027
			403/1	0.004
			403/2	0.037
			394	0.009
			402	0.028
			401	0.068
			396/2	0.087
			396/1	0.019
			398	0.073
			397	0.128
			459/1, 459/2	0.022
			57	0.073
			62	0.004
			58	0.004
			59	0.012
			56/1, 56/2	0.143
			55	0.021
			54	0.088
शहडोल	बुढ़ार	साबो / साबो 135	24/1, 24/2	0.039
			23	0.062
			22	0.043
			21/1, 21/2	0.068
			469/1, 469/2	0.096
			470	0.072
			19/1, 19/2	0.060
			474	0.010
			475	0.099
			476	0.041
			14	0.130
			13	0.150
			517	0.017
			518	0.023
			519	0.050
			520 L	0.053
			521	0.170
			522	0.092
			10	0.014
			11	0.037
			9/1	0.004
			9/2	0.035

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 23 / बी / 121 / 2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेमरा, पटवारी हल्का क्रमांक सेमरा-138 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	6
शहडोल	बुढ़ार	सेमरा/सेमरा 138	986	0.125
			984/2	0.114
			984/3	0.148
			958/4	0.004
			964	0.267
			984/1	0.237

			1001	0.079
			1002/3	0.157
			1002/2	0.004
			982	0.011
			981	0.150
			980/1	0.019
			980/2	0.187
			980/3	0.009
			1047	0.111
			1048	0.074
			1050/1 B	0.209
			1050/2	0.094
			1051	0.106
			1091	0.027
			1052	0.084
			1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4	0.258
			1082	0.044
			1090/1, 1090/2	0.001
			1083/1	0.108
			1084/1	0.151
			1110	0.019
			1123/1	0.158
			1125	0.194
			1126	0.111
			1121	0.173
			1129	0.100
			1141	0.038
			1140	0.119
			1139/1, 1139/2,	0.086
			1138	0.216
			1136/2	0.027
			1137/1, 1137/2	0.061
			213	0.006
			212/1	0.201
			212/2	0.003
			206	0.226
			202	0.030
			201	0.639
			200/3	0.247

			200/2	0.006
			200/1	0.288
			285/1, 285/2	0.729
			296	0.005
			191	0.024
			293/1	0.178
			293/2	0.058
			292/1, 292/2	0.202
			291	0.128
			160	0.567
			159	0.011
			158	0.227
			157	0.156
			347	0.567
			349/1, 349/2	0.259
			359	0.072
			360	0.004
			357/1, 357/2	0.071
			356/1, 356/2	0.006
			428/2	0.029
			428/3	0.016
			429/3	0.012
			429/1	0.118
			429/2	0.059
			432	0.092
			434	0.007
			431	0.004
			435	0.115
			436	0.064
			104/1	0.025
			198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8/क, 198/8/ख, 198/9	0.243
			747	0.123
			749	0.244
			267	0.005
			266/1, 266/2, 266/3	0.229
			275	0.012
			265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6	0.267

		264	0.095
		263	0.090
		262	0.037
		282/1, 282/2	0.022
		261/1, 261/2	0.084
		284	0.172
		118	0.044
		117, 117/2	0.006
		95/3	0.049
		95/2	0.093
		88	0.099
		121	0.004
		87	0.154
		123	0.045
		86	0.003
		124	0.171
		637	0.116
		636	0.003
		638	0.002
		635	0.161
		634	0.004
		614	0.097
		613	0.076
		606	0.066
		608/1, 608/2	0.013
		605	0.001
		607	0.046
		604/2	0.020
		610	0.031
		598	0.023
		596	0.009
		595	0.034
		557	0.193
		593/2	0.001
		593/1	0.003
		558	0.131
		554	0.013
		344	0.004
		335	0.121
		336	0.263

शहडोल	बुढ़ार	सेमरा/सेमरा 138	335	0.121
			336	0.263
			337	0.055
			342	0.017
			341	0.180
			340	0.158
			338/1	0.008
			339	0.058
			559	0.004
			560	0.007
			561	0.165
			577	0.107
			566	0.013
			576	0.030
			574	0.076
			573	0.024
			572	0.019
			571	0.108
			404/1	0.005
			406	0.082
			405/2	0.042
			407/1, 407/2	0.021
			405/1	0.031
			410	0.167
			409	0.014
			411/2	0.084
			411/1	0.139
			412	0.009
			420/1, 420/2	0.177
			426	0.024
			427	0.137

**म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012**

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 24/बी-121-2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जरवाही, पटवारी हल्का क्रमांक जरवाही 144 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
शहडोल	बुढ़ार	जरवाही/जरवाही 144	810	0.008
			815	0.045
			811	0.010

			812	0.074
			808	0.063
			807	0.083
			805/1, 805/2	0.058
			796	0.038
			789/1, 789/2, 789/3, 789/4	0.006
			451	0.060
			435	0.230
			433/1, 433/2	0.041
			432	0.093
			431	0.048
			430	0.015
			425	0.100
			424/1, 424/2	0.055
			423	0.051
			421	0.161
			401	0.072
			400	0.069
			398/1, 398/2	0.182
			370/1, 370/2	0.020
			398/1, 398/2	0.054
			370/1, 370/2	0.146
			371	0.278
			383	0.250
			382	0.011
			384/2	0.176
			384/1	0.128
			379	0.020
			378	0.172
			304	0.144
			303	0.007
			302	0.002
			305	0.030
			312/1	0.138
			309/1	0.038

			309/2	0.032
			308	0.004
			266	0.004
			314	0.041
			262/2	0.058
			263/1, 263/2	0.102
			264/1, 264/2	0.045
			260	0.002
			267/1, 267/2	0.057
			259	0.057
			255/1/क, 255/1/ख, 255/1/ग, 255/2	0.047
			256	0.037
			249	0.010
			251	0.022
			250	0.059
			246/1	0.157
			247	0.005
			239/2	0.028
			238	0.097
			237	0.004
			216	0.004
			217	0.077
			218	0.093
			207	0.055
			206	0.226
			654	0.024
			655	0.168
			697	0.078
			696	0.032
			695/1	0.105
			722/4	0.077
			722/3	0.044
			698/4	0.002
			698/3	0.014
			722/2	0.045

			722/1	0.031
			698/2	0.055
			720/3	0.004
			708/4	0.010
			708/3	0.043
			708/2	0.015
			709	0.016
			707/4	0.012
			710	0.091
			720/1	0.035
			711	0.134
			714/2क, 714/2ख,	0.004
			716	0.009
			715	0.297
			731	0.016
			732	0.003
			730	0.094
			733/1, 733/2,	0.134
			741/1, 741/2, 741/3, 741/4,	0.140
			737	0.236
			764	0.028
			767	0.131
			766/3	0.023
			769/5	0.074
			769/4	0.076
			769/3	0.026
			765/1क	0.126
			765/2	0.036
			765/1ख	0.102
			775/2	0.041
			776/2	0.133
			776/1	0.146
			786	0.129
			787	0.339

			789/1, 789/2, 789/3, 789/4	0.875
			796	0.065
			794	0.525
			657/1, 657/2, 657/3	0.136
			652/2	0.040
			652/3	0.094
			652/4	0.006
			225	0.120
			233	0.055
			230/1	0.155
			230/2	0.001
			232	0.066
			231/1	0.027
			234	0.058
			235	0.180
			218	0.099
			207	0.021
			217	0.014
			780	0.004
				0.062
				0.183
			863/2	0.106
			850	0.115
			851	0.062
			852	0.016
			858/1	0.005
			858/2	0.171
			855/1	0.044
			855/2	0.017
			854	0.182
			842	0.046
			837	0.149
			838	0.097
			839	0.004

			818/1/क, 818/1/ख, 818/1/ग, 818/1/घ, 818/1/ङ	0.014
			818/2/क, 818/2/ख	0.106
			816/1, 816/2	0.101
			815	0.086
			88/1, 88/2, 88/3	0.001
			93/1, 93/2, 93/3	0.058
			89	0.049
			274	0.041
			273	0.003
			272	0.067
			275	0.034
			269	0.062
			268	0.011
			267/1, 267/2	0.129
			265/1, 265/2	0.004
			264/1, 264/2	0.022
			557/2	0.024
			557/1	0.004
			556/1	0.023
			558/2	0.073
			558/1	0.125
			487/1	0.139
			489	0.105
			490/3	0.003
			490/2	0.039
			490/1	0.108
			491	0.041
			483	0.004
			492	0.056
			493	0.024
			494	0.132
			461/3	0.002
			459/3	0.022
			459/2	0.035

			459/1	0.073
			452/3	0.137
			458/1, 458/2, 458/3	0.001
			453/1, 453/2, 453/3	0.020
			452/2	0.010
			454	0.128
			451	0.074
			46	0.004
			47	0.063
			49	0.021
			51/2	0.015
			51/1	0.046
			52	0.068
			72	0.081
			70	0.161
			71	0.004
			65	0.082
			66	0.009
			84	0.039
			105	0.025
			104/1	0.036
			104/2	0.008
			102	0.066
			101	0.070
			100	0.012
			99	0.190
			98	0.009
			94/1, 94/2, 94/3	0.063
			93/1, 93/2, 93/3	0.004
			88/1, 88/2, 88/3	0.057
			615	0.006
			638/4	0.118
			638/3	0.025
			638/2	0.066
			638/1	0.071
			331	0.136

शहडोल	बुढार	जरवाही / जरवाही 144	329/1	0.075
			329/2	0.038
			328	0.107
			327	0.017
			326/6	0.015
			326/5	0.239
			326/4	0.086
			230/6	0.040
			230/5	0.048
			230/4	0.050
			230/3	0.058
			230/2	0.058
			230/1	0.004

**म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन)
अधिनियम, 2012**

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक 25/बी-121/2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाय।

और अतः, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय।

अतः, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
शहडोल	बुढ़ार	जल्लीटोला/पकरिया 139	380	0.022
			349	0.009
			349/527/1/क, 349/527/1/ख, 359/527/2	0.104
			354/1/क, 354/1/ख, 354/2	0.254
			352/1/क, 352/1/ख, 352/2	0.016
			355	0.105
			346/1, 346/2, 346/3	0.139
			296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6/क, 296/6/ख, 296/6/ग, 296/7, 296/8, 296/9, 296/10	0.584
			186/1, 186/2, 186/3, 186/4/क, 186/4/ख, 186/4/ग, 186/4/घ, 186/4/ङ	0.059
			95/1, 95/2	0.282
			97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5	0.354
			109	0.118
			110/1, 110/2	0.191

			111	0.004
			115	0.156
			108/1, 108/2	0.195
			117	0.228
			119/1/क, 119/1/ख, 119/2	0.599
			120/1, 120/2, 120/3/क, 120/3/ख, 120/4	0.095
			79/1, 79/2/क, 79/2/ख	0.091
			76/1	0.006
			76/2	
			77, 86/2/क, 86/2/ख, 86/2/ग, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7	0.090
			84	0.021
			81	0.502
			91	0.398
			101/1, 101/2, 101/3	0.416
			108/1, 108/2	0.060
			109	0.035
			110/1, 110/2	0.104
			115	0.049
			503	0.617
			501	0.093
			507	0.007
			508	0.004
			500	0.042
			499/1, 499/2, 499/3	0.015
			494/1, 494/2, 494/3, 494/4	0.006
			478	0.268
			476	0.002
			479/1, 479/2	0.183
			482/1, 482/2, 482/3	0.192

			484	0.119
			486 / 1, 486 / 2, 486 / 3	0.015
			230	0.002
			486 / 513	0.049
			231	0.094
			229 / 1, 229 / 2, 229 / 3, 229 / 4, 229 / 5	0.167
			213	0.016
			214 / 1, 214 / 2,	0.098
			215 / 1, 215 / 2,	0.005
			225 / 1, 225 / 2,	0.084
			219 / 1, 219 / 2,	0.018
			222 / 1, 222 / 2,	0.056
			220 / 1, 220 / 2,	0.080
			221	0.016
			256	0.091
			255	0.113
			266	0.032
			263	0.046
			265	0.037
			264	0.049
			271	0.057
			272	0.065
			274	0.075
			276	0.070
			275 / 1, 275 / 2, 275 / 3,	0.003
			288	0.173
			289	0.002
			186 / 1, 186 / 2, 186 / 3, 186 / 4 / क, 186 / 4 / ख, 186 / 4 / ग, 186 / 4 / घ, 186 / 4 / ङ,	0.118
			509 / 1 / क, 509 / 1 / ख, 509 / 2, 509 / 3 / क, 509 / 3 / ख, 509 / 4, 509 / 5,	0.518

			497	0.156
			494 / 1, 494 / 2, 494 / 3, 494 / 4,	0.025
			496	0.313
			495	0.288
			490 / 1, 490 / 2, 490 / 3, 490 / 5,	0.569
			160 / 1 / क, 160 / 1 / ख, 160 / 2,	0.301
			159 / 1, 159 / 2,	0.211
			157 / 1, 157 / 2, 157 / 3, 157 / 4, 157 / 5, 157 / 6, 157 / 7, 157 / 8, 157 / 9 / क, 157 / 9 / ख, 157 / 9 / ग, 157 / 9 / घ, 157 / 10 / क, 157 / 10 / ख, 157 / 10 / ग, 157 / 10 / घ, 157 / 11	0.3626
			151	0.198
			146 / 1, 146 / 2, 146 / 3, 146 / 4, 146 / 5,	0.364
			145 / 1, 145 / 2, 145 / 3	0.006
			147	0.114
			125	0.158
			124 / 1, 124 / 2,	0.227
			122	0.255
			121 / 1, 121 / 2 / क, 121 / 2 / ख, 121 / 2 / ग	0.208
			120 / 1, 120 / 2, 120 / 3 / क, 120 / 3 / ख, 120 / 4	0.586
			78 / 2, 78 / 3, 78 / 4, 78 / 5, 78 / 6	0.084
			122	0.033
			32	0.694
			38	0.643
			70 / 1, 70 / 2,	0.037
			202 / 1 / क, 202 / 1 / ख, 202 / 1 / ग, 202 / 2, 202 / 3,	0.003

			273	0.115
			271	0.005
			272	0.007
			449	0.198
			450	0.039
			451	0.079
			19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6/क, 19/6/ख,	0.213
			45/2, 45/3/क, 45/3/ख, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7	0.213
			41	0.060
			42/1, 42/2,	0.077
			48/1, 48/2,	0.065
			49	0.455
			38	0.033
			69/2, 70/1, 70/2,	0.033
			68	0.006
			71	0.150
			72	0.003
			3	0.251
			4/1, 4/2,	0.257
			5	0.153
			16/512	0.152
			15/1/क, 15/1/ख, 15/2,	0.023
			17/1, 17/2, 17/3,	0.026
			14/1, 14/2, 14/3, 14/4,	0.020
			19/516	0.028
			19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6/क, 19/6/ख,	0.743
			6	0.245
			5	0.195
			4/1, 4/2,	0.004
			1/1/क, 1/1/ख, 1/2,	0.039
			2	0.133
			16/512	0.101
			4/1, 4/2,	0.136

म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक **26** / बी-121/2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदा टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
शहडोल	बुढार	समदाटोला / पकरिया 139	242 / 474	0.024
			176	0.003
			225	0.056

			226	0.028
			224	0.133
			223	0.018
			177/503	0.012
			177/502	0.029
			178	0.044
			179	0.163
			182/1, 182/2, 182/3,	0.006
			184/1/क, 184/1/ख, 184/1/ग, 184/2,	0.037
			183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5,	0.116
			183/501	0.082
			188	0.000
			166	0.068
			179	0.104
			190	0.097
			163	0.096
			162	0.113
			161/1/क, 161/1/ख, 161/2,	0.050
			120/1, 120/2, 120/3, 120/4,	0.015
			121	0.059
			153	0.054
			152/1, 152/2,	0.008
			122	0.058
			125	0.017
			124	0.067
			115/1, 115/2/क, 115/2/ख,	0.021
			108	0.152
			109/1, 109/2,	0.063
			102	0.126

			94	0.166
			82 / 1, 82 / 2, 82 / 3, 82 / 4 / ब,	0.355
			84	0.013
			65 / 1	0.019
			138 / 1, 138 / 2, 138 / 3,	0.137
			140	0.083
			175 / 1, 175 / 2,	0.013
			172	0.260
			178	0.008
			170 / 1, 170 / 2,	0.086
			169	0.050
			168	0.013
			163	0.003
			157 / 1 / क, 157 / 1 / ख, 157 / 2,	0.111
			158 / 1 / क, 158 / 1 / ख, 158 / 2,	0.020
			156	0.014
			159	0.017
			155	0.231
			154 / 1 / क, 154 / 1 / ख, 154 / 2,	0.085
			160	0.003
			153	0.005
			152 / 1, 152 / 2,	0.010
			125	0.009
			122	0.003
			284 / 1 / क, 284 / 1 / ख, 284 / 1 / ग, 284 / 2,	0.150
			281 / 1, 281 / 2 / क, 281 / 2 / ख, 281 / 3, 281 / 4, 281 / 5,	0.026
			282 / 1	0.473
			282 / 2	

			283	0.084
			281 / 473	0.025
			425	0.003
			426 / 1, 426 / 2, 426 / 3,	0.043
			421	0.122
			419 / 1, 419 / 2, 419 / 3,	0.147
			89	0.151
			417	0.000
			90	0.068
			91	0.068
			92	0.030
			94	0.054
			57	0.199
			56 / 1, 56 / 2,	0.044
			73	0.042
			76	0.105
			54 / 1 / क, 54 / 1 / ख / 1, 54 / 1 / ख / 2, 54 / 2, 54 / 3, 54 / 4, 54 / 5,	0.000
			78	0.003
			77	0.121
			97	0.602
			82 / 1, 82 / 2, 82 / 3, 82 / 4 / ब,	0.240
			96	0.074
			95	0.114
			94	0.491
			12 / 1, 12 / 2, 12 / 3, 12 / 4, 12 / 5, 12 / 6, 12 / 7, 12 / 8, 12 / 9, 12 / 10, 12 / 11, 12 / 12, 12 / 13, 12 / 14,	0.078

शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला/पकरिया 139	17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5,	0.639
			18/1, 18/2, 18/3,	0.021
			22	0.082
			24/1/क, 24/1/ख, 24/2,	0.144
			17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5,	0.371

संशोधन

क्रमांक 15/बी-121/2013-14 म0प्र0 भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा-3 की उपधारा-1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 15/बी-121/2013-14 दिनांक 11.12.2013 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13.12.2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे।

अधिसूचना दिनांक 11.12.13 में प्रकाशित पैरा

संशोधित पैरा

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे।

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे।

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. भूमि संपादन-2013-8235.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—भदेड़मयचक
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.976 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
95	0.062
93	0.112
92	0.022
91	0.232
199	0.172
204, 205	0.172
206	0.182
200	0.022
योग.	<u>0.976</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भदेड़मयचक, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8236-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—मौजमखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.918 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
81	0.052
76	0.313
79	0.223
78	0.192
77/2	0.064
90	0.378
89	-
91/1	0.192
87	0.172
92	0.162
135/2	0.147
135/1	0.147
136/1	0.122
137	0.100
138	0.042
139	0.015
121	0.130
120	0.160
117/2	0.040
114/1	0.040
114/2	0.040
119	0.155
118	0.032
योग.	<u>2.918</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बाणपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मौजमखेड़ी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(1)	(2)
374	0.200
384/1	0.080
381	0.170
योग.	3.070

- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बाणपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गोन्सा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8237-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—गोन्सा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.070 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
247/1	0.050
247/2	0.400
262	0.200
266/3	0.100
259	0.080
270/1	0.700
198/2	0.010
199/1	0.060
199/2	0.100
361	0.210
390	0.100
389	0.220
373	0.110
388	0.030
375	0.010
380	0.170
379	0.070

क्र. 8238-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—मोहनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.816 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
90/2/1m1	0.170
90/2/1m2	0.030
124/1	0.410
124/2	0.410
122/1	0.270
122/2	0.270
119	0.040
120/1/1	0.060
120/1/2	0.060
120/1/3	0.060

(1)	(2)
120/1/4	0.060
120/680/2	0.050
167/1	0.040
170/2	0.010
168/2m3	0.020
168/2m1	0.300
296/2	0.040
299	0.340
297/4	0.050
298/2	0.210
302/2	0.146
288/1	0.050
289	1.170
290	0.010
366/2	0.048
366/3/1	0.016
366m	0.028
366/3	0.008
367	0.040
369/1m2	0.210
369/2m2	
364/1	0.010
417 m1	0.104
417 m2	0.366
418	0.030
419/1	0.420
419/2	0.320
419/3	0.260
419/4	0.470
422/1/1/1	0.080
422/1/1/2	0.090
422/1/2	
420	0.040

योग. . 6.816

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मोहनपुरा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8239-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—घट्टिया
(ग) ग्राम—चकभीतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.174 हेक्ट.

सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
109	0.062
134/2	0.273
133/1	0.113
133/2	0.113
130/2	0.072
119/2	0.092
119/1	0.092
132	0.062
129/1	0.142
129/2	0.153
योग. .	1.174

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन-सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम चकभीतरी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
- (3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.